

WHAT THIS EBOOK CAN DO FOR YOU?

This ebook contains 3000 Daily Uses Sentences which are very helpful in Spoken English.


You can use this to Practice with your friends, family or relatives and improve day to day.

This is our small effort to help you in your dream of speaking fluent English. The ebooks and spoken English course offered by us will definitely help you speak better English.

A million wishes,

[Success Darpan](#)

[Visit Our \[90 Days Spoken English Course\]](#)



Visit Us

MODULE – 1

1. मुझसे झूठ मत बोलो ।

Don't lie to me.

2. मैं मजाक कर रहा हूँ ।

I am kidding.

3. तुम्हें शर्म आनी चाहिए ।

You should be ashamed.

4. मुझे शर्मिंदा मत करो ।

Don't embarrass me.

Don't put me to shame.

5. आप मुझे गलत समझ रहे हैं ।

You are taking me wrong.

6. हिचकिचाओ मत ।

Don't hesitate.

7. जबान संभाल के ।

Mind your language.

8. समझने की कोशिश करो।

Try to understand.

9. क्या मैं वजह जान सकता हूँ ?

May i know the reason ?

10. उसके जिम्मेदार तुम हो ।

You are responsible for that.

11. मैं ये यूँ ही पूछ रहा हूँ ।

I am asking this without any reason.

12. क्या बेहदगी है!

What nonsense!

13. कितनी शर्म की बात है!

What a shame!

14. ज्यादा भाव मत खाओ ।

Don't act so pricey.

15. ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ।

It's not a big deal for me.

16. बात को ज्यादा बढाओ मत ।

Don't stretch the matter further.

17. चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है ।

Don't worry, it's not a big deal.

18. इसीलिए तो मैंने उसे पीटा ।

That's why i beat him.

19. इसीलिये तो मैं जा रहा हूँ ।

That's why i am going.

20. इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ।

That's why i am asking you.

21. मै कोशिश करूँगा ।

I will try.

22. मै कोशिश कर रहा हूँ ।

I am trying.

23. क्या तुमने कोशिश की?

Did you try?

24. वह नहा रहा है ।

He is taking a bath.

25. मै बाजार जा रहा हूँ ।

I am going to market.

26. क्या चल रहा है?

What's going on?

27. क्या बात है ?

What is the matter ?

28. तुम क्या कर रहे हो ?

What are you doing ?

29. तुम क्या सोच रहे हो ?

What are you thinking ?

30. तुम क्या ढूँढ रहे हो ?

What are you looking for ?

31. उसका कोई भरोसा नहीं ।

He is not reliable.

32. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं ।

You are not reliable.

33. इसमें मेरा क्या कसूर है ?

What is my fault in it ?

34. इसमें तुम्हारा क्या कसूर है ?

What is your fault in it ?

35. इसमें उसका क्या कसूर है ?

What is his/her fault in it ?

36. बैठ जाओ ।

Sit down.

37. जल्दी करो !

Hurry up !

38. खड़े हो जाओ

Stand up.

39. शर्माओ मत ।

don't be shy.

40. मेरे साथ चलो ।

Come with me.

41. झूठ मत बोलो ।

Don't lie. / don't tell a lie.

42. इशारा मत करो ।

Don't gesture.

43. चालाक मत बनो ।

don't be smart.

44. मुद्दे पर आइए ।

Come to the point.

45. हल्ला मत करो ।

don't make a noise.

46. लड़ाई मत करो

don't fight.

47. तुम कौन हो ?

Who are you ?

48. कोई है क्या ?

is someone there ?

49. झगड़ा मत करो ।

don't make a quarrel.

50. आप कब आयें ?

When did you come ?

51. तुम क्या चाहते हो ?

What do you want ?

52. वह तुम्हारे जैसी दिखती है

She looks like you.

53. कृपया करके धीरे बोलिए ।

Please speak slowly.

54. जाने की जरूरत नहीं है ।

There is no need to go.

55. हमलोग कोचिंग जा रहे हैं ।

We are going to coaching.

56. मैं अपने घर में हूँ ।

i am in my house.

57. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ?

May i come in ?

58. तुम खड़े क्यों हो ?

Why are you standing ?

59. मै क्लास मे बैठा हूँ ।

i am sitting in the class.

60. अब मै कुछ बोलूँ ।

May i say something now.

61. आज छुट्टी है ।

Today is holiday.

62. फोन आ रहा है ।

the phone is ringing.

63. मुझे गुस्सा मत दिलाओ ।

don't make me angry.

64. आपसे ये उम्मीद नहीं थी ।

i didn't expect it from you.

65. तुम कहाँ से आए हो ?

Where have you come from ?

66. घबराओ मत ।

Don't panic.

67. चिंता मत करो ।

Don't worry.

68. मैं जल्दी में हूँ ।

i am in a hurry.

69. क्या कहा तुमने?

What did you say?

70. जो हो गया सो हो गया ।

Let bygones be bygones.

71. वह सोया हुआ था ।

He was asleep.

72. मुझे तुम पर गर्व है ।

I am proud of you.

73. बेकार की बात मत करो ।

don't talk nonsense.

74. इसमें खास बात क्या है?

What's so special in it

75. मेरे पास नकद रुपया नहीं है ।

I don't have any cash.

76. तुम कायर हो ।

You are coward.

77. यह किसके लिए है?

Who is it for?

78. तुम डरपोक हो ।

you are timid/coward.

79. इसमें रोने वाली क्या बात है?

What's there to cry?

80. क्या आप मुझसे क्रोधित हैं?

Are you angry with me?

81. आप मुझसे नाराज हैं क्या?

Are you annoyed with me?

82. मुझे लगता है ।

i think.

83. एक बात बोलूँ ।

Do i say one thing.

84. मैं पक्का आउंगा ।

i will come for sure.

85. ज्यादा हँसो मत ।

Don't laugh too much.

86. मैं जुबान का पक्का हूँ ।

i am a person of words.

87. यहाँ से चले जाओ ।

Go away from here.

88. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई!

How dare you!

89. आज वर्षा हो सकती है ।

it may rain today.

90. अब आपकी तबीयत कैसी है?

How are you now?

91. मुझसे कौन मिलना चाहता है ?

Who wants to meet me ?

92. अपनी आदतें सुधारो ।

Mend your ways.

93. वह तो बड़ा ही लीचड़ (आदमी) है

He is very sluggish.

94. क्या ये तुम्हारा आखरी फैसला है ?

Is this your final decision?

95. ये उनका आपसी मामला है ।

It is their mutual matter/affair.

96. ये मेरी आखरी चेतावनी है तुम्हें ।

This is my final warning to you.

97. क्या तुम्हारे पास मोबाइल है ?

Do you have a mobile?

98. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ।

I am asking you something.

99. मामला बिगड़ गया है ।

The matter has become serious.

100. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो?

Do you want to say something?

MODULE - 2

101. वह मेरा भाई है।

He is my brother.

102. ये मेरी किताबें हैं।

These are my books.

103. तुम दफ्तर कैसे जाते हो ?

How do you go to office?

104. अब आपकी तबीयत कैसी है ?

How are you now?

105. यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है ।

Doing this work is not a child's play.

106. क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका?

Is this the way you talk?

107. यह मेरी घड़ी है।

This is my watch.

108. तुम एक लड़की हो।

You are a girl.

109. देहरादून में मौसम कैसा है ?

How is the weather in Dehradun?

110. तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है ?

How old is your father?

111. मैंने यह बात नहीं कही ।

I didn't make this remark.

112. कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता।

Nobody can bear such an insult.

113. वह सुन्दर लड़की थी।

She was a beautiful girl.

114. वह सोया हुआ था।

He was asleep.

115. करीब 100 किलोमीटर।

About 100 kilometers.

116. तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा ?

How long will you take to reach there?

117. मैं आपसे बहुत खुश हूँ ।

I am very happy with you.

118. मुझे तुम पर गर्व है ।

I am proud of you.

119. ममता एक अच्छी लड़की थी।

Mamta was a good girl.

120. मुझे देहरादून जाना है।

I have to go to Dehradun.

121. वह मेरा दूर का रिश्तेदार है ।

He is my distant relative.

122. मुझे नींद आ रही है ।

I am feeling sleepy.

123. तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी ?

Which movie would you like to watch?

124. तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है ?

Which song do you like the most?

125. मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है।

My brother has to complete his work.

126. मेरी माताजी को खाना बनाना है।

My mother has to cook the food.

127. राम कब पढ़ता है ?

When does Ram study?

128. तुमने सीता को कब देखा?

When did you see Seeta?

129. मैं कल आपको फोन करूँगा ।

I will call you tomorrow.

130. इस बात को अपने तक ही रखना ।

Keep it up to yourself.

131. सोनाली को यहाँ आना है।

Sonali has to come here.

132. मुझे कपड़े धोने हैं।

I have to wash the clothes.

133. आपका भाई कहाँ काम करता है ?

Where does your brother work?

134. आपने ये पुस्तक कहाँ से ली ?

Where did you take this book from?

135. क्या झगड़ा है ?

What's the conflict? / What's the dispute?

136. वो अभी अभी गया है ।

He has just gone/left.

137. रवि के पास 10 पैन हैं।

Ravi has 10 pens.

138. श्याम के दो भाई हैं।

Shyam has two brothers.

139. तुम कल कहाँ जाओगी ?

Where will you go tomorrow?

140. तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो ?

Why do you talk such nonsense?

141. ऐसी बात नहीं है ।

It is nothing like that. / Nothing as such.

142. मैं नहीं मानता ।

I don't agree. / I don't believe.

143. उसे बुखार है।

He has fever. / He is suffering from fever.

144. हमारे पास दो दुकानें हैं।

We have two shops.

145. आज तुम स्कूल क्यों नहीं गये ?

Why did you not go to school today?

146. क्या हुआ?

What happened? / What's the matter?

147. ज़रा मैं तैयार हो लूँ ।

Let me get ready.

148. घबराने कि बात नहीं है ।

Not to worry. / Nothing to worry about.

149. तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं।

You have many sarees.

150. हमें खाना बनाना पड़ा था।

We had to cook the food.

151. रोशनी को गीत गाना पड़ा था।

Roshni had to sing a song.

152. पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था।

Father had to go to Delhi.

153. मैं भी साथ चलूँ?

May I accompany you? / Shall I accompany you?

154. क्या श्याम आ रहा है ?

Is Shyam coming?

155. हालाँकि मैं सोच रहा था ।

Though, I was thinking.

156. इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता ।

Nothing could be better than this.

157. हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था।

We had to repair the scooter.

158. आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था।

You had to come here immediately.

159. समझ गये?

Understood? / Got it?

160. क्या राम अंदर है?

Is Ram in?

161. कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती ।

Few things are not in our control.

162. उसे मेहनत करनी पड़ेगी।

He will have to work hard.

163. उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी।

He will have to say sorry.

164. मेरा भाई पढ़ रहा है।

My brother is studying.

165. वे बाजार जा रहे हैं।

They are going to market.

166. आप कब आये?

When did you come?

167. मेरा एक काम करोगे ?

Would you do me a favor please?

168. मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ।

I really did wrong to you.

169. आखिर चल क्या रहा है ?

What exactly is going on?

170. कम्प्यूटर चालू करें क्या ?

Do/shall we switch on the computer?

171. क्या तुम्हें पता है ?

Do you know?

172. तुम कायर हो ।

You are coward.

173. अब वो काम से भाग नहीं सकता ।

He can't shirk the work now.

174. हम नाश्ता कर रहे हैं।

We are taking breakfast.

175. वह नहा रहा है।

He is taking a bath.

176. आप मुझसे नाराज़ हैं क्या ?

Are you annoyed with me?

177. बताईये मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ?

Tell me, how can I help you?

178. यह कमीज़ मैली है ।

This shirt is dirty.

179. यह कमीज़ फटी हुई है ।

This shirt is torn.

180. बॉबी अभी आया है।

Bobby has just arrived.

181. उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है।

He has sent you a gift.

182. यह किसका मोबाईल नम्बर है ?

Whose mobile number is this?

183. तुम कब मिलोगे ?

When will you meet?

184. वह तुम्हारे जैसी दिखती है ।

She looks like you.

185. किसी से कुछ मत मांगना ।

Don't ask anything from anybody. /

Don't ask anybody for anything.

186. हम क्रिकेट खेल चुके हैं।

We have played cricket.

187. वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है।

He has fulfilled his desires.

188. अब आपके पिताजी कैसे हैं ?

How is your father now?

189. सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है ?

Which Shirt is the best?

190. तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं ?

Why didn't you wake me up?

191. मेरे पास बीस रुपये कम है ।

I am short by twenty rupees.

192. मैं रात में देर से सोया था।

I slept late last night.

193. तुमने हमेशा मुझे डाँटा।

You always scolded me.

194. यह शर्ट कितने की है ?

What is the cost of this shirt?

195. कितने दिन लगेंगे ?

How long will it take?

196. खेलते हुए टाँग पर चोट लग गयी ।

I hurt my leg while playing.

197. उसकी नाक बह रही है ।

His nose is running.

198. बिनिता ने मधुर गीत गाया ।

Binita sang a sweet song.

199. उसका कल एक्सीडेंट हो गया ।

He met with an accident yesterday.

MODULE - 3

200. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ।

I am asking you something.

201. कहने की ज़रूरत नहीं, कि वो पागल है।

Needless to say that he is mad.

202. पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है।

Needless to ask, he already knows.

203. ये फायदे का सौदा नहीं है।

It's not worthwhile.

204. क्या वहाँ जाना फायदेमंद है ?

Is it worthwhile going there?

205. राम बहुत देर बाद आया।

Ram came after a long.

206. वो बहुत देर बाद आया था।

He had come after a long.

207. मैंने चैन की साँस ली।

I sighed of relief. / I took a sigh of relief. /

I breathed a sigh of relief.

208. तुम अब चैन की साँस ले सकते हो।

Now you can sigh of relief. /

Now you can take a sigh of relief.

209. तुम मुझे राम की याद दिलाते हो।

You remind me of Ram.

210. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है।

Your face reminds me of someone.

211. मेरे मामा ने तुम्हें पाला।

My maternal uncle brought you up.

212. मैं दिल्ली में पला बढ़ा।

I was brought up in Delhi.

213. उसने सोचा और सच कर दिया।

He thought and materialized.

214. मैं सपने साकार कर दूँगा।

I will materialize the dreams.

215. मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ।

I always stand by you.

216. उसने मेरा साथ दिया था।

He had stood by me.

217. वो हकला रहा था।

He was stammering.

218. राहुल हकलाता है।

Rahul stammers.

219. क्या आप मेरी बात सुन रहे हो?

Are you listening to me?

220. मैं क्या-क्या खा सकता हूँ ?

What all can I eat?

221. आजकल काम बहुत है ।

There is huge work pressure these days.

222. लड़के चाय पी रहे थे।

The boys were taking tea.

223. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी।

I was waiting for you.

224. यही मोबाईल मैं चाहता था।

This is the very mobile, I want.

225. ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं ।

These are my books, those are yours.

226. मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा ।

I am determined to go. I've decided to go.

227. वह आज कल मौज में है ।

He is enjoying these days.

228. तुम मेज साफ कर रहे थे।

You were cleaning the table.

229. मेरे मित्र दोषी थे।

My friends were guilty.

230. हमने शिमला में खूब आनन्द लिया ।

We enjoyed a lot in Shimla.

231. तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुँची है।

Your rude behavior has hurt him.

232. मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ ।

I have joined today only.

233. इन सब फाइलों को लेकर आओ ।

Bring all these files.

234. मैं कल बाजार जाऊँगा ।

I will go to market tomorrow.

235. चपरासी कमरे की सफाई करेगा ।

The peon will clean the room.

236. ये किताब किसकी है ?

Whose is this book?

237. आपसे ये उम्मीद नहीं थी ।

I didn't expect it from you.

238. आपका टी.वी बंद है ।

Your TV is off.

239. हम रात को सोयेंगे ।

We will sleep at night.

240. मैं आज यह पुस्तक पढ़ूँगा ।

I will read this book today.

241. दरवाजे पे कौन खड़ा है ?

Who is standing at the door?

242. मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ ?

How can I trust you?

243. हम रास्ता भूल गये ।

We have lost our way.

244. यात्रा करते समय समान कम लेकर जाना चाहिए।

You should travel light.

245. वह कल स्कूल जा रहा होगा।

He will be going to school tomorrow.

246. वह आज आ रहा होगा।

He would be coming today.

247. ग्लास में थोड़ा पानी और डालो।

Pour some more water into the glass.

248. पत्र डाक द्वारा भेजा गया।

Letter was sent by post.

249. मोटर साईकिल का अगला पहिया पंचर है।

The front tyre of the bike is punctured/flat.

250. आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी।

You know what, I met Riya yesterday.

251. अपने कमरे में जाओ और इन्तजार करो।

Go to your room and wait there.

252. कृपया मेरे लिये एक गिलास पानी लाइए।

Please bring a glass of water for me.

253. श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था।

Shyam was standing behind you.

254. कलम मेज पर है।

Pen is on the table.

255. मुझे किसी तरह पता चल गया ।

I somehow got to know about it.

256. मैं कुछ कह रही हूँ ।

I'm saying something.

257. अपने दांत अच्छी तरह साफ करें।

Clean your teeth well.

258. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

Take care of your health.

259. किताब तकिए के नीचे है।

Book is beneath/underneath the pillow.

260. मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता।

Nobody can replace my father.

261. तुमने उसे क्या बताया ?

What did you tell him?

262. क्या तुमने कुछ कहा ?

Did you say something?

263. दस बजकर पांच मिनट हुये हैं।

It is five past ten.

264. मेरी घड़ी तेज़ चल रही है।

My watch is running fast.

265. खुद के लिए तो हर कोई करता है।

Obviously, everybody does for himself.

266. तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो न ?

You are not angry with me, are you?

267. तुम कहाँ कुछ कहती हो ।

You hardly ever speak.

268. कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है ।

I feel like going somewhere.

269. अच्छा समय आयेगा।

Better time will come.

270. बादल गरज़ रहे हैं।

Clouds are thundering.

271. आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचायेगा।

Now onwards, he will never hurt you.

272. मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा।

I will not let you go.

273. मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूँ।

I felt like slapping him.

274. तुमने किसका नाम लिया?

Whose name did you take?

275. मैं एक घंटा पढ़ता हूँ।

I study for an hour.

276. वह अपना समय व्यर्थ करता है।

He wastes his time.

277. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था ।

You shouldn't have said so.

278. मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता।

I want to go but I can't.

279. दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है।

It's getting hotter day by day.

280. आप बिल्कुल समय पर आये हैं।

You are just in time.

281. बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ?

Tell me, what should I do?

282. वो दिल्ली से अभी-2 आया है।

He has just come from Delhi.

283. क्या राम अच्छा है?

Is Ram good?

283. बच्चे किसके साथ हैं?

With whom are children?

284. तुम अच्छे हो।

You are good.

285. पापा राहुल के साथ थे।

Papa was with Rahul.

286. बच्चा मेरे आगे था।

The child was ahead of me.

287. ये उसका दोस्त नहीं है।

This is his friend.

288. ये लड़का कहाँ पर था?

Where was this boy?

289. मैं राम की वजह से यहाँ हूँ।

I am here because of Ram.

290. उसके पास पैन था।

He had a pen.

291. तुम्हारे पास क्या है?

What do you have?

292. मम्मी के पास पैसे नहीं है।

Mom doesn't have money.

293. राहुल किसका भाई है?

Whose brother is Rahul?

294. ये आदमी किस लड़की का पापा है?

Which girl's father is this man?

295. वो घर किसका है?

Whose is that house/home?

296. मैं तुमसे लम्बा हूँ।

I am taller than you.

297. तुम किस शहर से हो?

Which city are you from?

298. तुम किस शहर में हो?

Which city are you in?

299. क्या तुम्हारे पास है?

Do you have?

300. तुम्हारे पास क्या नहीं है?

What do you not have?

MODULE - 4

301. क्या तुम्हारे पास मोबाइल है?

Do you have a mobile?

302. मैं कौन हूँ?

Who am I?

303. क्या है वो?

What is that?

304. मेरे पीछे कौन खड़ा था?

Who was standing behind me?

305. मैं क्लास में बैठा हूँ।

I am sitting in the class.

306. उसके भाई कितने बड़े हैं?

How old are his brothers?

307. तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो।

You are my youngest brother.

308. ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है।

This is my love for you.

309. क्या है उसका नाम?

What is his name?

310. ये कहानी किसी और की है।

This story is someone else's.

311. वो थकी हुई थी।

She was tired.

312. राम सोया हुआ है।

Ram is asleep.

313. हम बैठे हुए थे।

We were sitting.

314. तुम खड़े क्यों हो?

Why are you standing?

315. उस टेबल पर क्या है?

What is there on that table?

316. तुम दिल्ली के आस पास हो।

You are near about Delhi.

317. मैं इस फोटो में नहीं हूँ।

I am not there in this photograph.

318. वो कब से ऑफिस में है?

Since when is he there in office?

319. तुम कब तक ऑफिस में थे?

Until when were you there in office?

320. मेरे पैर में क्या है?

What is there in my leg?

321. उसके पास कुछ नहीं है।

He doesn't have anything. /

He has nothing.

322. मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं।

I have some torn clothes.

323. राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था।

Ram was hidden behind the tree.

324. यह तुम्हारा नहीं है।

This is not yours.

325. ये मेरी बिल्ली है।

This is my cat.

326. ये बिल्ली मेरी है।

This cat is mine.

327. ये राम की किताब है।

This is Ram's book.

328. ये किताब राम की है।

This book is Ram's. / This book is of Ram. /

This book belongs to Ram.

329. हम तुम्हारे हैं।

We are yours.

330. मैं हर पल तुम्हारे साथ था।

I was there with you every moment.

331. गाड़ी में कितना पेट्रोल है?

How much petrol is there in the car? /

How much petrol does the car have?

332. तुम्हारे पास कितना पैसा है?

How much money do you have?

333. किस शहर में हो तुम इस वक्त?

Which city are you in right now?

334. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ ।

I am alive only for you.

335. राम कहीं खोया हुआ था।

Ram was lost somewhere.

336. मैं तुम्हारे सपनों में खोया हुआ हूँ।

I am lost in your dreams.

337. मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है।

Mobile is kept on the table.

338. मैं डरा हुआ था।

I was scared. / I was horrified. / I was terrified. /

I was petrified.

339. कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं?

How many children are here at this time?

340. राम 2:00 बजे जगा हुआ था।

Ram was awake at 2.

341. राम 2:00 बजे से जगा हुआ था।

Ram had been awake since 2.

342. उसके पापा पिये हुए थे।

His father was drunk.

343. तुम मेरे करीबी दोस्त हो।

You are my close friend.

344. ये लिखा हुआ था।

It was written.

345. ये गीता में लिखा हुआ है।

It is written in the Bhagavad Geeta.

346. भिखारी के कपड़े फटे हुए थे।

The beggar's clothes were torn.

347. क्या तुम्हारे पास कुछ था?

Did you have something?

348. हमारे पास कुछ है।

We have something.

349. मैं किसके लिए वहाँ था?

For whom was I there?/

Whom was I there for?

353. वो तुम्हारे लिए रूका हुआ है।

He is waiting for you.

354. तुम घर के अंदर थे।

You were inside the house.

355. राम मेरे बगल में खड़ा है।

Ram is standing beside me. / Ram is standing next to me. / Ram is standing adjacent me. /

356. शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है।

The worship of Lord Shiva is famous here.

357. मैं ज़िम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता।

I never shirk the responsibilities.

358. मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ।

I am not shirking the work.

359. विपत्ति इन्सान के धैर्य को परखती है।

Adversity tries one's patience.

360. आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है।

I intend to meet you today.

361. वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है।

He intends to cheat you.

362. इस रोड़ ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया।

This road shortened our journey.

363. इस लकड़ी को छोटा कर दो।

Shorten this stick.

364. मैं इसका आदी नहीं होना चाहता।

I don't want to be addicted to it.

365. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है।

He is addicted to smoking.

366. क्या खुशबू है!

What a fragrance!

367. इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है।

The fragrance of this flower is very nice. /

This flower smells great.

368. हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं?

Why are our desires these many?

369. तुम ऐसे क्यों हो?

Why are you so?

370. पैसे किसके पास हैं?

Who has money?

371. क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है?

Do you not have brain?

372. ये टूटा हुआ दिल मेरा है।

This broken heart is mine.

373. उसके कितने लड़के हैं?

How many sons does he have?

374. आप मुझसे ज्यादा बुरे हैं।

You are worse than I.

375. क्या राम मुझसे ज्यादा अच्छा है?

Is Ram better than me?

376. मुझे तुमसे प्यार है।

I am in love with you. / I love you.

377. इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं?

How do you have this much money?

378. रिश्ते खूबसूरत होते हैं।

Relations are beautiful.

379. ये कोई और है।

This is someone else.

380. ये कुछ और है।

This is something else.

381. तुम्हारा कौन सा वाला पैन है?

Which one is your pen?

382. ये पैन किसका है?

Whose is this pen?

383. तुम्हारे पीछे कौन है?

Who is there behind you?

384. पैसे किसके पास नहीं हैं?

Who doesn't have money?

385. तुम किस बात के लिए दुखी हो?

What are you sad for?

386. राम कब तक इस जगह में था?

Until when was Ram here in this place?

387. मैं तुम्हारे सामने खड़ा था।

I was standing in front of you.

388. मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था।

I was standing just in front of you.

389. किस लड़की के पापा वहाँ खड़े थे?

Which girl's father was standing there?

390. मैं गिटार के लिए पागल हूँ।

I am crazy for guitar.

391. वहाँ कितने लोग हैं?

How many people are there?

392. पैन कहाँ रखा हुआ है?

Where is the pen kept?

393. समय क्या हुआ है?

What is the time?

394. तुम दोनों सबसे अच्छे हो।

You both are the best. /

Both of you are the best.

395. हम सब तुम्हारे साथ हैं।

We all are with you.

396. मैं तुम्हारा कौन हूँ?

Who am I to you?

397. मेरे साथ रहो।

Be with me.

398. अपने दोस्तों से बात करो।

Talk to your friends.

399. किसी दोस्त को मत छोड़ो।

Don't leave any friend.

MODULE - 5

400. मेरे बारे में सोचो।

Think about me.

401. मुझे तुम्हें कुछ बताने दो।

Let me tell you something.

402. इस परेशानी का हल निकालो।

Find out the solution of this problem.

403. मुझे देखने दो।

Let me see.

404. नाक साफ करो।

Blow your nose.

405. कभी-कभी घर आया करो।

Drop in home sometimes.

406. उसे एक इंच भी मत हिलने दो।

Don't let him move even an inch.

407. हमेशा समय के पाबन्द रहो।

Always be punctual.

408. ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो।

Beware of such a clever man.

409. अपनी कमीज़ के बटन बन्द करो।

Button up your shirt.

410. विवेक को उन लोगों से मत मिलने दो।

Don't let Vivek meet those people.

411. कृपया दरवाजे की कुंडी लगा दो।

Kindly bolt the door.

412. काम से जी मत चुराओ।

Don't shirk the work.

413. उसे ढूँढने दो।

Let him find out / search.

414. उसे परेशान मत करो।

Don't bother him.

415. अपनी कार यहाँ खड़ी मत करो।

Don't park your car here.

416. उसे ये मत करने दो।

Don't let him do this. / Let him not do this.

417. अपने माता-पिता को देखने जाओ।

Go to see your parents.

418. उस लड़के के साथ ठहरो।

Stay with that boy.

419. गरीबों की मदद करो।

Help the poor.

420. इस लड़की को यहाँ काम करने दो।

Let this girl work here.

421. सभी कपड़े प्रेस(इस्त्री) कर दो।

Iron all the clothes.

422. ज़िम्मेदारियों से जी मत चुराओ।

Don't shirk responsibilities.

423. बाल बना लो।

Comb the hair.

424. उन्हें जाने दो।

Let them go.

425. थोड़ा पानी और मिला लो।

Add a little more water.

426. कृपया नमक पास करो।

Pass the salt please.

427. समय देखो।

Look at the time.

428. यहाँ मत उतरो।

Don't get off here.

429. हमें पढ़ने दो क्योंकि कल हमारा पेपर है।

Let us study as it is our paper tomorrow.

430. मोमबत्ती बुझा दो।

Blow out the candle.

431. सबको प्यार करो जो कोई तुम्हारी जिंदगी में
आये।

Love everyone whoever comes in your life.

432. अपना हिसाब कर लो।

Clear your accounts.

433. नीले पैन से मत लिखिए।

Don't write with a blue pen.

434. यहाँ से चले जाओ।

Go away from here.

435. इस कार से बाहर निकल जाओ।

Get out of this car.

436. खच-पच मत लिखो, साफ-साफ लिखो।

Do not scribble, write legibly.

437. जल्दी ठीक हो जाइए।

Get well soon.

438. मुद्दे पर आइए।

Come to the point.

439. अपने वादे से मत मुकरो।

Do not back out of your promise.

440. फर्श पर यहाँ वहाँ मत थूको।

Don't spit on the floor here and there.

441. खूब मुस्कुराओ।

Smile a lot.

442. जल्दी ऑफिस पहुंचो क्योंकि बॉस नाराज़ है।

Reach office early as boss is angry.

443. ज्यादा मत खाओ।

Do not overeat.

444. अपने जूते निकाल लो।

Take off your shoes.

445. फालतू बात मत करो।

Do not talk nonsense.

446. टेबल लगा लो।

Lay the table.

447. एक नल था।

There was a tap.

448. क्या तुम्हारा भाई वहाँ था?

Was your brother there?

449. कोई है क्या?

Is someone there?

450. क्या आपके दिल में प्यार नहीं है?

Isn't there love in your heart?

451. तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो?

Why are you hidden there?

452. जंगल में एक राजा रहता था।

There lived a king in Jungle.

453. वहाँ कुछ नहीं था।

Nothing was there. / There was nothing.

454. एक राजा वहाँ गया।

There went a king. / A king went there.

455. वहाँ क्या है?

What is there?

456. उस शहर में एक पार्क था।

There was a park in that city.

457. क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं?

Do you not have money?

458. क्लास में 3 लड़कियां बैठी थीं।

There were 3 girls sitting in the class.

459. मेरे पापा वहाँ रहते थे।

There lived my dad. / My dad lived there.

460. टेबल पर पैन था।

There was a pen on the table.

461. तकिये के नीचे एक पत्र है।

There is a letter beneath/underneath the pillow.

462. वहाँ कोई नहीं होगा।

There will be no one.

463. तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है।

There is a man standing with your brother.

464. इस तरह के कई फूल हैं।

There are so many such flowers.

465. वहाँ देखने को कुछ नहीं है।

There is nothing to see.

466. क्या क्लास में कोई नहीं है?

Isn't there anyone in class?

467. खेलने के लिए लड़के नहीं है।

There are no boys to play.

468. उसके बटुए में पैसे नहीं है।

There is no money in his wallet.

469. इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं।

There're opportunities in this company to grow.

470. जाने की ज़रूरत नहीं है।

There is no need to go.

471. बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं।

There is no need to eat burger.

472. एक सांप था।

There was a snake.

473. एक पेड़ है, जिसका रंग लाल है।

There is a tree of red colour.

474. क्या तुम्हारे पास पैन है?

Do you have a pen?

475. उस कुंए में पानी नहीं था।

There was no water in that well.

476. जब कभी मैं परेशान था, तुम मेरे साथ थे।

Whenever I was in trouble, you're there with me.

477. मैंने जो कुछ किया, वहीं पर किया।

Whatever I did, I did there.

478. उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है।

There is no joy in his life.

479. क्या वहाँ कुछ चल रहा है?

Is something going on there?

480. प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती।

There is no such thing as love.

481. ऐसा कोई शब्द नहीं होता।

There is no such word.

482. ऐसी कोई कहानी नहीं है।

There is no such story.

483. **ऐसा कोई गांव नहीं है।**

There is no such village.

484. **ऐसा कोई देश नहीं है, जहां सिर्फ जानवर रहते हो।**

There's no such a country, where there're only animals.

485. **ऐसा कोई मोबाइल नहीं है, जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता।**

There is no such a mobile, which I can't repair.

486. **क्या वहाँ कोई नहीं है?**

Isn't there anyone?

487. **ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसे चोट नहीं लगती।**

There is no such a man, who doesn't get hurt.

488. वहाँ कितने लोग हैं?

How many people are there?

489. वहाँ कितने लोग थे?

How many people were there?

490. वहाँ क्या है?

What is there?

491. तुम वहाँ किसके साथ थे?

With whom were you there?

492. उस गांव में बिजली नहीं है।

There is no electricity in that village.

493. बहुत सहा, बस अब नहीं!

Suffered a lot, but not anymore!

494. मुझे पौने सात बजे उठना है।

I am to get up at quarter to seven.

495. हम बहुत शीघ्र आ गये हैं।

We are too early.

496. तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए।

You must be busy in your work.

497. हमें सफलता का पूरा भरोसा है।

We are sure of success.

498. ठंडा पानी मत पियो ।

Don't take chilled water.

499. ठंडी चीजें मत खाओ ।

Don't take chilled eatables.

500. वह आठ बजे उठता है।

He wakes up at 8 o'clock.

MODULE - 6

501. वह समय का पूरा पाबंद है।

He is quite punctual.

502. बिजली चमक रही है।

It is lightning.

503. आज बेहद गर्मी है।

It's very hot today.

504. मुझे आपका पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका।

I got your letter but I couldn't read.

505. जब आप आये, वो निकल चुका था।

When you came, he had left.)

506. आईस क्रीम मत खाओ ।

Don't take ice cream.

507. ठीक होने के बाद आईस क्रीम खा लेना ।

Take ice-cream after you get well.

508. मेरी घड़ी बंद हो गई है।

My watch is not functioning.

509. वह कांप रहा है।

He is shivering.

510. मैं जानता हूँ, आप मुझसे नाराज़ हो।

I know you are not happy with me.

511. वह गिटार का आदी हो गया है।

He has been addicted to guitar.

512. तुम्हे तो खांसी हो गयी है।

You have got cough.

513. मुँह ढक कर खांसी करो।

Cover your mouth when you cough.

514. सवा तीन बजे हैं।

It's quarter past three.

515. अपनी आदतें सुधारो।

Mend your ways.

516. तुम दिन रात उन्नति करो, यही मेरी दुआ है!

May God succeed you by leaps and bounds!

517. यह पत्र बुधवार तक पहुँच जाना चाहिए।

This letter must reach before Wednesday.

518. दिखाओ चोट कहाँ लगी है ?

Show me, where you've been hurt?

519. इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है ।

His vaccination should be done in this week.

520. सीधे खड़े रहो, झुको नहीं।

Stand upright, don't bend.

521. मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ।

I spend my time in learning.

522. उसे प्यार का मतलब नहीं पता।

He doesn't know the meaning of love.

523. आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा।

It's Wednesday today, he'll come on Sunday.

524. जितनी भूख हो उतना ही खाना।

Eat as per your appetite.

525. बैड पर खाना मत गिराओ।

Don't spill the food on the bed.

526. मैं एक्सरसाइज़ के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ।

I am not able to make time for exercise.

527. जितना हो सके साफ़ लिखो।

Write as legibly as you can.

528. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ।

It's my pleasure to be your friend.

529. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

It was pleasure talking to you.

530. ज़िद मत करो ।

Don't be stubborn.

531. तुम बहुत ज़िद्दी हो गये हो ।

You have become very obstinate.

532. भाड़ में जाओ।

Go to hell.

533. आवेश में न आओ।

Don't get excited.

534. मैंने ये किताब से लिखा।

I wrote it from the book.

536. हम उत्तराखण्ड से हैं।

We are from Uttarakhand.

537. मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ।

I work from 10 to 5.

538. वो दुकान से ये खरीद रहा है।

He is buying it from the shop.

539. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया।

I picked the mobile off the bed.

540. मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ।

I am wiping the dust off the screen.

541. बन्दर पेड़ से कूदा ।

Monkey jumped off the tree.

542. टेबल से कप हटा दो।

Move the cup off the table.

543. पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं।

Leaves are falling off the tree.

544. वो बस से उतर रहा है।

He is getting off the bus.

545. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ।

I have been studying since morning.

546. वो सोमवार से कोशिश कर रहा है।

He has been trying since Monday.

547. राम 4 बजे से घूम रहा है।

Ram has been walking since 4 o' clock.

548. मैं सुबह से खेल रहा हूँ।

I have been playing since morning.

549. वो कल से यहाँ है।

He has been here since yesterday.

550. नेहा दोपहर से रो रही है।

Neha has been weeping since noon.

551. मैं तब से पढ़ रहा हूँ।

I have been studying since then.

552. मम्मी 5 बजे से घर पर हैं।

Mom is at home since 5 o'clock.

553. मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ।

I have been studying for 2 hours.

554. वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है।

He has been trying for many days.

555. मैंने ये तुम्हारे लिए किया।

I did it for you.

556. वो मेरे पास पैसे के लिए आया।

He came to me for money.

557. मैंने 500 रु में मोबाइल दिया।

I gave a mobile for Rs. 500.

558. उसने 5 रु में एक पैन खरीदा।

He bought a pen for Rs. 5.

559. राम 2 घंटे से घूम रहा है।

Ram has been walking for 2 hours.

560. मैं काफी देर से खेल रहा हूँ।

I've been playing for a long.

561. वो 10 मिनट से यहाँ थी।

She had been here for 10 minutes.

562. नेहा 2 दिन से कह रही है।

Neha has been saying for 2 days.

563. मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ।

I have been studying for many days.

564. मम्मी कुछ देर से घर पर हैं।

Mom is at home for a while.

565. मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ।

I am going to Delhi for study.

566. वो पैसों के लिए यहाँ आया।

He came here for money.

567. उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया।

That boy did it for you.

568. मैंने 500 रु में अपना मोबाईल दिया।

I gave my mobile for Rs.500.

569. मैं जनवरी में पैदा हुआ था।

I was born in January.

570. वो 2015 में घर आयेगा।

He will come home in 2015.

571. मैंने जून 2009 में कम्पनी छोड़ी।

I left the company in June 2009.

572. मैं आधे घंटे में निकलूँगा।

I will leave in half an hour.

573. मैं दिल्ली में रहता हूँ।

I live in Delhi.

574. वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा।

He will study in America.

575. मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले।

I found no songs in this mobile.

576. हमने ये किताब में पढ़ा है।

We have read it in the book.

577. अयांश आधे घंटे में निकलेगा।

Ayansh will leave in half an hour.

578. मैं बैंक में काम करता हूँ।

I work in a bank.

579. मैंने कम्प्यूटर में ये फोटो देखी।

I saw this photograph in computer.

580. ये गाना तुम्हारे मोबाईल में है।

This song is there in your mobile.

581. कॉफी को कप में डालो।

Pour the coffee into the cup.

582. वो कमरे में जा रहा है।

He is going into the room.

583. यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी।

This train will reach before time.

584. मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा।

I will come before you leave.

585. अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ।

Now I am standing before you.

586. वो अपने पापा के सामने बैठा था।

He was sitting before his dad.

587. वो मेरे सामने खड़ा था।

He was standing before me. /

He was standing in front of me.

588. वो मेरे सामने टिक नहीं सकता।

He can't stand in front of me. /

He can't stand before me.

589. मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा।

I will meet you after 10.

590. मैं उनके बाद पहुँचा।

I reached after them.

591. मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था।

I was after my professor.

592. मेरे पापा ने तीन बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ।

My father denied me thrice but I am still after him.

593. ट्रेन समय के बाद पहुँचेगी।

The train will reach after time.

594. मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा।

I will come after you leave.

595. वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला।

He met Rahul after 10.

596. पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है।

The police are after the thief.

597. मुझे किसी के द्वारा रोका गया।

I was stopped by someone.

598. उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है।

He can be sent by his father.

599. मैंने बस से यात्रा की।

I travelled by bus.

600. वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है।

He is coming by noon flight.

MODULE - 7

601. मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा।

I will leave by 4 o'clock.

602. हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे।

We will finish it by morning.

603. हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया।

We were informed by the manager.

604. उसे मम्मी के द्वारा डाँटा गया।

He was scolded by mom.

605. मैं बाइक से जिम जा रहा था।

I was going to gym by bike.

606. हम ये सुबह तक निपटा लेंगे।

We will finish it by morning.

607. मैं काम में लगा हुआ था।

I was into some work.

608. तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया?

You didn't even think about him?

609. बालों में तेल लगा लो ।

Apply oil on your hair.

610. आज आप किसके साथ सोयेंगे ?

With whom will you sleep today?

611. मैं तो मज़ाक कर रहा था।

I was just kidding.

612. माफ़ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका।

I am sorry, I got late.

613. मुझे बहुत बातें करनी है।

I have a lot to talk about.

614. इसके ज़िम्मेदार तुम हो।

You are responsible for this.

615. आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।

We regret for the inconvenience caused to you.

616. मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा ।

I'll surely meet you.

617. अटक अटक के मत बोलो ।

Don't stutter.

618. जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो ।

You always forget in haste.

619. सबसे पहला महीना कौन सा है?

Which is the first month?

620. एक माह में कितने सप्ताह होते हैं?

How many weeks are there in a month?

623. हम सबको अंग्रेज़ी भाषा सीखनी चाहिए।

We all must learn English language.

624. उसकी प्रतिभा काबिलेतारीफ है।

His talent is praiseworthy.

625. वह हमें चुप चुप कर देख रही है ।

She is sneaking out at us.

626. तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया ?

How did you call me up today?

627. भारत गणतंत्र कब बना?

When did India become Republic?

628. आप कब पैदा हुए?

When were you born?

629. अब मुझे चलना चाहिए।

I must leave now.

630. जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, सफल नहीं हो पाओगे।

Unless you work hard, you'll not be able to succeed.

631. क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे?

Could you please make me talk to him?

632. आपकी आवाज़ कट रही है ।

I'm sorry, you are breaking up.

633. क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया है?

Haven't you bought the ticket so far?

634. सड़क पर मरम्मत चल रही है।

The road is under repairing.

635. जब तब आप नहीं आओगे, मैं इन्तज़ार करूँगा

Until you come, I'll wait.

636. वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता।

He is too weak to rise from the bed.

He is so weak that he can't rise from the bed.

637. फोन को चार्जिंग से उतार दो ।

Unplug the phone from charging.

638. तुमने किसको साईकल के पीछे बिठाया है ?

Whom hv you made sit at the back of your bicycle

639. यह बस कहाँ जाती है?

Where does this bus go? / Where does this bus lead to?

640. अभी गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी है।

It is still half an hour for the train to arrive.

641. जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया, पापा आ गये।

The moment I started playing, dad turned up.

642. उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें बुरा लग गया?

What did he say to make you feel bad?

643. ये पैसा वसूल मूवी थी ।

This movie was worth watching.

642. ट्रेन किस समय छूटती है?

When does the train leave?

643. उसकी जान में जान आई।

He heaved a sigh of relief.

644. यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है।

This child looks very lovely.

645. मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का कोई ई रादा नहीं है

I don't mean to hurt you.

646. राम का तुम्हें दुख पहुँचाने का कोई ई रादा नहीं है।

Ram doesn't mean to hurt you.

647. ट्रेन कब चलेगी ?

When will the train leave?

648. मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ?

I am in a dilemma what to do?

649. तुमने मुझे एक रुपया कम दिया है।

You have given me a rupee less.

650. तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।

You do anything, I don't care.

651. कोई फर्क नहीं पड़ता।

It doesn't make any difference.

652. अगला स्टेशन देहरादून है।

The next station is Dehradun.

653. अपना स्टेशन आ गया।

Here is your station.

654. दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं।

Both are close to each other.

655. मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा।

I'll go Shimla next month.

656. वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है।

He always stands in my ways.

657. ट्रेन चलने में कुछ देर है ।

There is still some time in train's departure.

658. मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता।

I can't tolerate this nonsense.

659. हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है।

We have to work harder than the hardest.

660. आपके भाई को कब से बुखार है?

How long has your brother been down with fever?

661. मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।

I can't cheat her.

662. उसने मुझे धोखा दिया।

He cheated on me.

663. क्या मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ेगा?

Will I have to wait for a long?

664. मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है।

I want to see a dentist.

665. उसको बहुत चोट लगी है।

He is badly hurt.

666. कल रात मुझे बुखार हो गया था।

I had a fever last night.

667. हम टैक्सी कर लेंगे ।

We will hire a taxi/cab.

668. मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए।

I need a darker frame.

669. मेरे पैसे एक साल में खत्म हो जायेंगे।

My money would run out in a year.

670. समय बहुत जल्दी बीत जाता है।

Time runs out very quickly.

671. उसका एक आलीशान फार्म हाऊस है।

He has a sumptuous farm house.

672. ये एक बेहतरीन ब्रेकफ़स्ट है।

This is a sumptuous breakfast.

674. अपने परिवार का ध्यान रखो ।

Take care of your family.

675. नियमों का पालन करो ।

Abide by the rules.

676. आपने ये कितने अच्छे से बताया!

How elegant you explained it!

677. यहाँ तम्बाकू की खेती होती है।

Tobacco is cultivated here.

678. कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म न हो।

Nothing is immortal.

679. वो एक धोखेबाज़ व्यक्ति है।

He is a fraudulent person.

680. आपके काम में कोई गलती नहीं है।

There is no flaw in your work.

681. आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए।

Don't provoke me against him.

682. उसकी आँखों से आंसू टपक रहे थे।

The tears were trickling from his eyes.

683. मैंने नल से पानी टपकने की आवाज़ सुनी।

I heard the trickle of water from the tap.

684. तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते।

You can't assess his love for money.

685. इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता।

It can't be eradicated easily.

686. इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है?

What's your approach in this matter?

687. मैं खेलने का शौकीन हूँ।

I am fond of playing.

686. वो गिटार बजाने का शौकीन है।

He is fond of playing guitar.

687. मैंने तुरन्त उसका विरोध किया।

I retaliated immediately.

688. आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए।

You shouldn't conceal this fact from public.

689. हम सत्य को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते।

We can't conceal the truth for a long.

690. उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी।

His words strengthened me.

691. इस शहर में इंग्लिश काफी बोली जाती है।

English speaking is prevalent in this city.

692. यहाँ सिगरेट पीने वाले काफी हैं।

Cigarette smoking is prevalent here.

693. वो काफी समय से यहाँ है।

He has been here for a long.

694. इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया।

This medicine lessened my pain.

695. उसने मुझे दुखी कर दिया।

He saddened me.

696. थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो।

Stay with me for a while.

697. उसने बस थोड़ी देर काम किया।

He worked just for a while.

698. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला।

I got to know about her yesterday itself.

699. अपने भाषण को लम्बा मत खींचो।

Don't elongate your speech.

700. वो किसी भी बात को लम्बा करके बताता है।

He elongates his talks.

MODULE - 8

701. वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है।

He is running after me.

702. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला।

I came to know about her yesterday itself. /

I got to know about her yesterday itself.

703. मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा।

I didn't breach the contract.

704. निराशावादी मत बनिए। आशावादी बनिए।

Don't be pessimistic. Be optimistic.

705. उसने सारी ज़मीन अपने अधिकार में ले ली।

He acquired the whole land.

706. मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता।

I can't impose my will on you.

707. उसने मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी।

He had an incredible performance in the match.

708. उसने मुझे गुड बाय किया और चला गया।

He bade me good bye and left.

709. मैंने ये इंसानियत के नाते किया है।

I have shown humanity.

710. मैं उसे बस अपना एक ज़रिया बनाऊँगा।

I will just use him for my sake.

711. ये सब उसकी चाल है तुम्हें फ़साने की।

This is all his conspiracy to trap you.

712. इस झंडे को यहाँ गाड़ना है।

This flag is to be dug here.

713. अपने पैरों को घसीटो मत।

Don't drag your feet.

714. घुटने के बल मत चलो।

Don't drag your knees.

715. कुर्सी को घसीटो मत।

Don't drag the chair.

716. पेन को घसीटो मत।

Don't drag the pen.

717. अपने नाखून मत चबाओ।

Don't bite your nails.

718. अपनी ऊँगली मुँह में मत डालो।

Don't put your finger into your mouth.

719. अपने कपड़े बदल लो।

Change your clothes.

720. अपना होमवर्क कम्प्लीट करो।

Complete your homework.

721. अपनी नोटबुक के पन्नों को मत फाडो।

Don't tear the pages of your notebook.

722. हल्ला मत करो।

Don't make a noise.

723. झगड़ा मत करो।

Don't make a quarrel.

724. शर्माओ मत।

Don't be shy.

725. क्या आप एक जगह पर नहीं बैठ सकते?

Can't you sit still at one place?

726. स्थिर खड़े रहो। हिलना मत।

Stand still. Don't move.

727. मोबाइल पर खेलना बंद करो।

Stop playing on mobile.

728. मोबाइल पर गेम खेलना बंद करो।

Stop playing games on mobile.

729. टी.वी देखना बंद करो।

Stop watching TV.

730. कार्टून देखना बंद करो।

Stop watching cartoon.

731. अपने दाँत अच्छे से साफ करो।

Brush your teeth properly.

732. अपने कपड़े पहन लो।

Wear your clothes./ Put on your clothes. /

Put your clothes on.

733. अपने जूते पहन लो।

Put on your shoes. / Wear your shoes.

734. अपने कपड़े उतार दो।

Take off your cloths. / Take your cloths off.

735. अपने जूते उतार दो।

Take off your shoes. / Take your shoes off.

736. अपने जूते के तसमें बाँध लो।

Tie your shoe laces.

737. अपना खाना जल्दी खत्म करो।

Finish your food quickly.

738. ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है।

It is good for your health.

739. इसे मत छेड़ो।

Don't touch it.

740. मेरे मोबाइल को मत छेड़ो।

Don't touch my mobile.

741. टी.वी. को मत छेड़ो।

Don't touch the TV.

742. लेपटॉप को मत छेड़ो।

Don't touch the laptop.

743. अपनी किताबें अपने बैग में रख दो।

Keep your books in your bag.

744. अपने जूते शूरेक में रख दो।

Keep your shoes in the shoe rack.

745. रोने कि हिम्मत भी मत करना।

Don't dare to cry/ weep.

746. बिल्कुल नहीं!

Not at all!

747. एक घूँट भी नहीं!

Not even a sip!

748. एक टुकडा भी नहीं!

Not even a bite!

749. जल्दबाजी मत करो।

Don't be hasty.

750. गलत बात मत करो।

Don't talk nonsense.

751. मैं मजे कर रहा हूँ।

I am having fun. / I am enjoying myself

752. मैं बोर हो रहा हूँ।

I am feeling bored. / I am getting bored.

753. मैं खाना खा रहा हूँ।

I am eating/ taking/ having food.

754. मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ।

I am leaving for office.

755. मैं ऑफिस में नहीं हूँ।

I am not in office. / I am not at work.

756. हिचकिचाओ मत।

Don't hesitate.

757. मुझे सच बताओ।

Tell me the truth.

758. गिलास को उल्टा कर दो।

Turn the glass upside down

759. नल खोल दो।

Turn on the tap.

760. कंप्यूटर बंद कर दो।

Turn off the computer.

761. दिल पे मत लो।

Don't take it to heart.

762. वो रास्ते में है।

He is on the way.

763. वो प्रशंसा के लायक है।

He is praiseworthy.

764. वो एकाध दिन में आयेगा।

He will come in a day or so.

765. मैं एकाध घंटे में तुमसे मिलूँगा।

I will meet in an hour or so.

766. मिशन पूरा हुआ।

Mission accomplished.

767. बिल्कुल चिंता मत करो।

Don't worry at all.

768. आज तपतपाती गर्मी है।

It's blistering heat today./It's scorching heat today.

769. तुम्हारे दिल में कुछ तो है।

**There is something in your heart. /
Something is there in your heart.**

770. आज कँपकपाती ठंड है।

Its shivering cold today.

771. तेज़ बोलो।

Speak aloud.

772. मेरा इंतजार करना।

Wait for me.

773. इसके बारे में सोचो।

Think about it.

774. आप किसे प्यार करते हो?

Whom do you love?

775. कितने घंमडी हो आप !

How arrogant you are!

776. मुझे कल फोन करिएगा।

Call me tomorrow.

778. समझ आया?

Got it? / understood?

779. समझ आ गया।

I got it. /I Understood.

778. मुझे ऐसा नहीं लगता।

I don't think so.

779. आज कितनी तारीख है?

What is the date today?

780. ये किसका है?

Whose is this?

781. बहुत अच्छा!

Too good! / Very nice!

782. बहुत बुरा!

Too bad! / Very bad!

783. बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता।

It's not good to be too good.

784. खुद से प्यार करो।

Love yourself.

785. ये पाप है।

It's a sin.

786. आप थके हुए लग रहे हो।

You are looking tired. / You seem to be tired.

787. समय किसी इंतजार नहीं करता।

Time waits for none.

788. क्या आपको ये चाहिए।

Do you need it?

789. क्या आपको कुछ चाहिए?

Do you need something?

790. उसी तरह का कुछ।

Something of that sort.

791. कुछ न कुछ।

Something or the other.

792. कहीं न कहीं कुछ तो गलत है।

Something is wrong somewhere.

793. उसे मेरी ज़रूरत पड़ सकती है।

He may/might/could need me.

794. कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है।

Nothing is personal.

795. ये केवल एक सोच है।

This is just a mindset / thinking.

796. मुझे 8 बजे याद दिला देना।

Remind me at 8.

797. आप अपने उम्र से कम दिखते हो।

You look younger than your age.

798. क्या चल रहा है?

What's going on?

799. कुछ खास नहीं।

Nothing special!

800. हमेशा की तरह।

As usual!

MODULE - 9

801. खाली मत बैठो।

Don't sit idle.

802. कुछ बढ़िया।

Something worthy!

803. कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे।

Anything, you feel like.

804. मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ।

I am searching a job. / I am looking for a job.

805. आपको पता है कि.

You know what...

ये मत करो।

Don't do it.

806. क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो?

Are you studying?

807. क्या हाल है ?

How are you? /

What's up? /

How are you doing?

808. पागल हो क्या?

Are you mad or what?

809. आपका दिन शुभ हो!

Have a nice day!

810. आपकी यात्रा मंगलमय हो।

Have a nice journey.

811. दूसरा ले लो।

Have another one.

812. धैर्य रखो।

Have patience.

813. मस्ती करो।

Have fun.

814. मुझे जाने दो।

Let me go.

815. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

It doesn't matter.

816. आपका मतलब क्या है?

What do you mean?

817. कितने मतलबी हो आप !

How selfish you are!

818. कितना बकवास है!

How ridiculous!

819. मुझे इसकी आदत है।

I am used to it.

820. ज़ाहिर सी बात है।

It's obvious.

821. क्या हम ढोंगी हैं?

Are we hypocrite?

822. ये फायदे का सौदा नहीं है।

It's not worthwhile. / It's not worth it.

823. किसी का दिल मत दुखाओ।

Don't hurt anyone.

824. दोस्त बनाने से पहले कई बार सोचो ।

Think many a time before making friends.

825. हमेशा विनम्र रहो ।

Always be polite.

826. दयालू बनो ।

Be generous.

827. आपने मुझे हैरान कर दिया।

You amazed me.

828. खाना बहुत स्वादिष्ट था।

The Food was delicious.

829. खुद पर विश्वास करो।

Believe in yourself.

830. जो होता है, अच्छे के लिए होता है।

All happen for good.

831. अब आपकी बारी है।

It's your turn now.

832. सच में!

Really! / Is it!

834. क्या हुआ तुम्हें?

What happened to you? /

What's wrong with you?

835. ये लीजिए।

Here it is. / There it is.

836. आपका स्वागत है

You are welcome.

837. आप झूठ बोल रहे हो

You are lying.

838. ऐसा फिर कभी मत करना

Don't ever do it again.

839. क्या आप शयोर हो?

Are you sure?

840. बिलकुल नहीं।

Not at all.

841. कितना बकवास है!

How disgusting!

842. मैंने नहीं कहा।

I didn't say.

843. मैं उसे फोन क्यों करूँगा।

Why would I call him/her?

844. क्या आप दिल्ली में रहे हो?

Have you lived in Delhi? /

Have you been in Delhi?

845. क्या आप दिल्ली गये हो?

Have you gone to Delhi? /

Have you been to Delhi?

846. क्या करूँ मैं?

What do I do? / What shall I do?

847. ऐसा सोचना भी मत।

Don't even think so.

848. भूल जाओ।

Forget it.

849. मुझ पर भरोसा रखो।

Trust me.

850. मुझे विश्वास नहीं हो रहा।

I can't believe it.

851. थोड़ी देर में फोन करिए।

Call me a bit later. / call a little later.

852. ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की।

This is all his conspiracy to trap you.

853. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?

What wrong have I done to anyone?

854. पानी गुनगुना हो गया है।

The water has turned lukewarm.

855. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है?

Why does it happen only with me?

856. कल रात को बूँदा-बांदी हुई।

It drizzled last night.

857. समय के साथ चलना बड़ा मुश्किल है।

It is difficult to match pace with the time.

858. आप कब आये?

When did you come?

859. मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ।

I can speak English.

860. पिताजी के पास एक सुन्दर पेन है।

Dad has a beautiful pen.

861. पुस्तक मेज पर है।

The book is on the table.

862. आपके पापा का क्या नाम है?

What is your father's name?

863. क्या टाइम हुआ है?

What time is it?

864. क्या हुआ?

What happened?

865. वहाँ क्या क्या हुआ?

What all happened there?

866. उसके साथ क्या क्या हुआ?

What all happened with him?

867. उसके पास क्या है?

What does he have?

868. उसके पास क्या क्या है?

What all does he have?

869. आपके पास क्या है?

What do you have?

870. आपके पास क्या नहीं है?

What do you not have?

871. आपने क्या खरीदा?

What did you buy?

872. क्या चल रहा है?

What is going on? / What's going on?

873. मुझे नहीं पता क्या है ये।

I don't know what it is.

874. आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो?

What are you trying to do?

875. आखिरी रविवार को क्या किया आपने?

What did you do last Sunday?

876. आखिरी रविवार को क्या क्या किया आपने?

What all did you do last Sunday?

877. आपका मतलब क्या है?

What do you mean?

878. उस लड़के में तुम्हें क्या पसंद है?

What do you like in that boy?

879. मुझमें तुम्हें क्या पसंद है?

What do you like in me?

880. क्या इन्सान हैं आप!

What a person you are!

881. क्या लड़की है वो!

What a girl she is!

882. आप क्या करते हो?

What do you do?

883. अगला टॉपिक क्या था?

What was the next topic?

884. वो आज क्या परफॉर्म कर रहे हैं?

What are they performing today?

885. आपका पसंदीदा खेल क्या है?

What is your favorite sport?

886. आपकी विशेषता क्या है?

What's your quality?

887. मुझे देदो जो कुछ भी तुम्हारे पास है।

Give me whatever you have.

888. जो कुछ मैंने चाहा, मुझे वो मिला।

Whatever I wanted, I got that.

889. जो कुछ भी तुमने कहा, गलत है।

Whatever you said, is wrong.

890. जो कुछ भी आप चूज़ करते हो, मेरा है।

Whatever you choose, is mine.

891. आप कहाँ हो?

Where are you?

892. मैं अयांश के साथ हूँ, जो मेरा बेटा है।

I am with Ayansh, who is my son.

893. आपको कौन सी बुक चाहिए?

Which book do you want?

894. कौन सी जगहें आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं?

Which places do you like the most?

895. तुम्हें दवाई चाहिये, पर कौन सी?

You need a medicine, but which one?

896. मैं एक किताब ढूँढ रहा हूँ, जो की लाल कलर की है।

I am looking for a book, which is in red colour.

897. एंड्रॉइड और विंडोज़ फोन्स में तुम्हे ज़्यादा पसंद कौन सा है?

Which one do you prefer, android phones or windows phones?

898. शादी के लिए आप कौन सा चूज़ करोगी?

Which one would you choose for wedding?

899. किस कॉलेज से हो आप ?

Which college are you from?

900. ये डिब्बा खाली है, जिसमे बहुत सारे फूल थे।

This box is empty, which had many flowers.

MODULE - 10

901. आप/तुम कौन हो?

Who are you??

902. कौन जानता है?

Who knows?

903. कौन कौन जानते हैं?

Who all know?

904. किसने कहा?

Who said?

905. इस तस्वीर को किसने पेंट किया?

Who painted this picture?

906. वो लड़की कौन है?

Who is that girl?

907. वो लड़का कौन है?

Who is that boy?

908. इस सेल्फी में ये कौन है?

Who is this in this selfie?

909. गिटार कौन बजा रहा है?

Who is playing the guitar?

910. आपका पसंदीदा हीरो कौन है?

Who is your favourite actor?

911. आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन कौन हैं ?

Who all are your favourite actors?

912. मुझे नहीं पता, केक किसने बनाया?

I don't know who made the cake.

913. सवाल ये है, कौन इस प्रोजेक्ट को करेगा?

The question is who will do this project?

914. आज रात कौन गाने वाला है?

Who is going to sing tonight?

915. इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था?

Who was the first prime minister of India?

916. इस तस्वीर को कौन बना सकता है?

Who can make this picture?

917. आपकी राय क्या है, कौन मैच जीतेगा?

What is your opinion, who will win the match?

918. आईटी डिपार्टमेंट में राहुल कौन है?

Who is Rahul in IT department?

919. अगला सुपर स्टार कौन होगा?

Who will be the next superstar?

920. किसको आइस क्रीम चाहिये?

Who wants ice-cream?

921. कौन खाना पकायेगा?

Who will cook the food?

922. ये राम है, जो मेरे साथ था।

This is Ram, who was there with me.

923. वो मेरा दोस्त है, जिसने तुम्हें कॉल किया था।

That is my friend, who had called you.

924. जो कोई मुझे जानता है, मुझसे प्यार करता है।

Whoever knows me, loves me.

925. जो कोई भी यहाँ है, राहुल उसके साथ बात करना चाहता है।

Rahul wants to speak with whoever is here.

926. तुमने क्यों पूछा?

Why did you ask?

927. तुम क्यों रो रहे हो?

Why are you crying?

928. किसको आइस क्रीम चाहिये?

Who wants ice-cream?

929. कौन खाना पकायेगा?

Who will cook the food?

930. ये राम है, जो मेरे साथ था।

This is Ram, who was there with me.

931. वो मेरा दोस्त है, जिसने तुम्हें कॉल किया था।

That is my friend, who had called you.

932. जो कोई मुझे जानता है, मुझसे प्यार करता है।

Whoever knows me, loves me.

933. जो कोई भी यहाँ है, राहुल उसके साथ बात करना चाहता है।

Rahul wants to speak with whoever is here.

934. तुमने क्यों पूछा?

Why did you ask?

935. तुम क्यों रो रहे हो?

Why are you crying?

936. तुम अंदर क्यों नहीं आते?

Why don't you come in?

937. उसने जॉब क्यों छोड़ी?

Why did he quit the job?

938. तुमने ये टेनिस टेबल क्यों खरीदी?

Why did you buy this tennis table?

939. तुमने बॉक्स ओपन क्यों किया?

Why did you open the box?

940. हम पिज़्ज़ा आर्डर क्यों न करे?

Why shall we not order pizza?

941. तुम गुस्सा क्यों हो?

Why are you angry?

942. आज तुम इतने थके हुए क्यों हो?

Why are you so tired today?

943. तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो?

Why do you want to become an actor?

944. आज सुबह तुम लेट क्यों थे?

Why were you late this morning?

945. क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों?

May I ask you why?

946. तुम वहाँ से क्यों भागे?

Why did you run from there?

947. तुम निराश क्यों हो?

Why are you disappointed?

948. उसने इसके बारे में उसे क्यों नहीं कहा?

Why didn't she tell him about it?

949. वे उस बिल्डिंग के आस पास क्यों घूम रहे हैं?

Why are they walking around that building?

950. वो सब अच्छे से जानते हैं, रिया क्यों दुखी है।

They all know very well why Riya is upset.

951. आज तुम इतने लेट क्यों हो?

Why are you so late today?

952. यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा?

Why is this fan not working?

953. तुम कब पढाई करते हो?

When do you study?

954. यह कब शुरू होता है?

When does it start?

955. तुमने ये साड़ी कब खरीदी?

When did you buy this saree?

956. तुम्हारा बर्थडे कब है?

When is your birthday?

957. तुम वापस कब आ रहे हो?

When are you coming back?

958. रवि बाहर था, जब मैंने कॉल किया..

Ravi was out when I called.

959. तुम्हारी परीक्षा कब/कबसे है?

When is your exam?

960. हम कब पहुंचेंगे?

When will we arrive?

961. तुमने फ़ोन कब चेंज किया?

When did you change your phone?

962. जब कभी तुम्हारे पास समय हो, मुझे मैसेज करना.

Whenever you have time, message me.

963. जब मैं जवान था, तो अच्छे से तैर सकता था.

When I was a young, I could swim well.

964. जब मैं घर आया, शिखा रो रही थी.

When I came home, Shikha was crying.

965. जब वो 20 साल की थी, उसकी शादी हो गयी.

When she was 20, she got married.

966. मैं तुम्हे कॉल करूँगा, जब हम जायेंगे.

I'll call you when we go.

967. काजल उससे कब मिलेगी?

When will Kajal meet him?

968. तुम कब सोये?

When did you sleep?

969. पायल कहाँ थी, जब उसके पैरेंट्स आये?

Where was Payal, when her parents turned up?

970. सुमित के अंकल घर कब आयेंगे?

When will Sumit's uncle come home?

971. जब कभी मैं आऊँगा, हम मूवी देखने चलेंगे।

Whenever I come, we will go for a movie.

972. मैंने अपने दिल की बात उससे कही, जब कभी मुझे मौका मिला।

I spoke my heart to her, whenever I got a chance.

973. आप कैसे हो?

How are you?

974. तुम्हारा भाई कैसा है।

How is your brother?

975. तुम्हारी छुटियाँ कैसी रही?

How were your holidays?

976. आज का शो कैसा था?

How was today's show?

977. तुम्हारे पापा कितने साल के हैं?

How old is your father?

978. तुम्हारी कार कितनी लम्बी है?

How long is your car?

979. वो कैसे जाता है?

How does he go?

980. मुझे नहीं पता वेज बिरयानी कैसे बनानी है।

I don't know how to cook veg biryani.

981. तुमने इस मूवी को कितना एन्जॉय किया?

How much did you enjoy this movie?

982. आपके कितने बच्चे हैं?

How many children do you have?

983. उसके कितने बच्चे हैं?

How many children does he have?

984. आपके कितने बच्चे थे?

How many children did you have?

985. मेरे बेटे को कॉम्पिटिटिव इग्जाम्स के लिए कितना पढ़ना चाहिये?

How much should my son study for competitive exams?

986. मोबाईल पर तुम कितना टाइम बिताते हो?

How much time do you spend on mobile?

987. तुमने तबला बजाना कैसे सीखा?

How did you learn to play Tabla?

988. इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं?

How to use this machine?

989. इस पहेली को कैसे सोल्व करें?

How to solve this puzzle?

990. एक महीने में तुम कितनी बुक्स पढ़ते हो?

How many books do you read in a month?

991. तुम डांस कैसे करोगे, जब तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं?

How will you dance, when your legs not working?

992. देखो, उस त्यौहार को लोग कैसे मना रहे हैं.

See, how the people are celebrating that festival

993. आप वहाँ अक्सर कब कब जाते हो?

How often do you go there?

994. आप कब कब उससे मिलते हो?

How often do you meet him?

995. यहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है?

How far is the bus stop from here?

996. आप कितनी दूर जा सकते हो?

How far can you go?

997. तुम किसे आमंत्रित करने वाले हो?

Whom are you going to invite?

998. उसने इस पोस्ट के लिए किसे चुना?

Whom did he hire for this post?

999. तुमने मेरा बैग किसे दिया?

Whom did you give my beg?

1000. तुमने किसको देखा?

Whom did you see?

MODULE - 11

1001. तुमने इस सुझाव के लिए किसे फ़ोन किया था?

Whom had you called for this suggestion?

1002. आप किसे आमंत्रित करना चाहोगे?

Whom would you like to invite?

1003. वो कितनी बार मुझसे मिलेगा?

How many times will he meet me?

1004. हम कब कब स्कूल जायेंगे?

How often will we go to school?

1005. मैं जानता हूँ, आप कहाँ रहते हो।

I know where you live.

1006. वहाँ क्या क्या हुआ?

What all happened there?

1007. राम मुझे सोने नहीं देता।

Ram doesn't let me sleep.

1008. तुम मुझे सोने देते हो।

You let me sleep.

1009. बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते।

Children don't let me study.

1010. बच्चे पढ़ने नहीं देते।

Children don't let study.

1011. क्या राम तुम्हें जाने देता है?

Does Ram let you go?

1012. उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने?

Why did you not let him go?

1013. मैं उसे मेरे घर आने दूँगा।

I will let him come my home.

1014. मैं पढ़ने नहीं दूँगा।

I will not let study.

1015. मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूँगा।

I will not let you study.

1016. मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूँगा।

I will not let anyone study.

1017. मैं हर किसी को पढ़ने दूँगा।

I will let everyone study.

1018. राम श्याम को आने देगा।

Ram will let Shyam come.

1019. उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया।

He didn't let me do anything.

1020. तुमने मुझे खाने नहीं दिया।

You didn't let me eat.

1021. सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी।

The government didn't let us construct a building.

1022. उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया।

He didn't let me purchase the mobile.

1023. उसने मुझे कम्प्यूटर नहीं चलाने दिया।

He didn't let me operate the computer.

1024. मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूँगा।

I'll not let your pain grow.

1025. उसने मुझे कार नहीं चलाने दी।

He didn't let me drive the car.

1026. उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी।

He didn't let me ride the bike.

1027. वो अक्सर मुझे जाने देता है।

He often lets me go.

1028. हम कभी-कभी उसे खेलने देते थे।

We used to let him play sometimes.

1029. पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते।

Dad doesn't let me go to school.

1030. मेरा अकेलापन मुझे जीने नहीं देगा।

My loneliness won't let me live.

1031. इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया।

This man didn't let Ram sit here.

1032. मैं तुम्हें ये नहीं करने दूँगा।

I will not let you do this.

1033. मैं तुम्हें आम तोड़ने दूँगा।

I'll let you pluck the mangoes.

1034. उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया।

That boy didn't let me play there.

1035. मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूँगा।

I will not let anyone study.

1036. मैं हर किसी को पढ़ने दूँगा।

I will let everyone study.

1037. राम श्याम को आने देगा।

Ram will let Shyam come.

1038. मैं तुम्हें गाने सुनने दूँगा पर पहले पैसे दो।

I will let you listen to songs but first, you give me money.

1039. वो हमें घर में नहीं घुसने देगा।

He'll not let us enter the house.

1040. क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें ₹10 दूँ तो

Will you let me go if I give you Rs 10?

1041. पापा सोचने नहीं देते और फिर डाँटते हैं।

Dad doesn't let think and then scolds.

1042. मम्मी मुझे टी.वी. देखने दो ।

Mom lets me watch the TV.

1043. मम्मी मुझे टी.वी. नहीं देखने देती।

Mom doesn't let me watch the TV.

1044. सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी।

The government didn't let us construct a building.

1045. माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया।

Mom didn't let the child beaten.

1046. उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया।

He didn't let me do anything.

1047. तुमने मुझे खाने नहीं दिया।

You didn't let me eat.

1048. उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया।

He didn't let me drink water.

1049. उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया।

He didn't let me eat the food.

1050. क्या तुमने उसे बैठने दिया?

Did you let him sit?

1051. क्या उसने मुझे फोन करने दिया?

Did he let me call/phone/ring?

1052. तुमने उसे जाने क्यों दिया?

Why did you let him go?

1053. तुमने उसे खेलने क्यों दिया?

Why did you let him play?

1054. उसकी मम्मी ने उसे घर से निकलने नहीं दिया

His mother didn't let him go out of home.

1055. क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकते हो?

Can you let me live peacefully?

1056. वो राम को लड़ने देगी।

She will let Ram fight.

1057. तुम मुझे शायद न जाने दो।

You might not let me go.

1058. वो पक्का मुझे जाने देगा।

He must let me go. / He'll definitely let me go.

1059. भगवान आज बारिश होने देंगे।

God will let it rain today.

1060. कोई मुझे पढ़ने नहीं देता।

Nobody lets me study.

1061. मैं तुम्हें बाजार जाने दे रहा हूँ।

I am letting you go to market.

1062. हम सब उसे जीने नहीं देते।

We all don't let him live.

1063. मुझे बर्गर क्यों नहीं खाने देते तुम?

Why don't you let me eat Burger?

1064. वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसे गलत नहीं करने देता।

He is my friend hence I don't let him do wrong.

1065. पापा मुझे 18 साल से पहले कार नहीं चलाने देंगे।

Dad will not let me drive the car before 18.

1066. तुम हमें जाने दो।

You let us go.

1067. मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ?

Why do I let you go? / Why shall I let you go?

1068. उसने मुझे कभी रोने नहीं दिया।

He never let me cry.

1069. तुमने मुझे कभी हँसने नहीं दिया।

You never let me laugh.

1070. तुम न सोते हो न मुझे सोने देते हो।

Neither you sleep nor let me sleep.

1071. या तो मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ।

Either let me go or you go yourself.

1072. मैंने उस दिन उसे फोन नहीं करने दिया।

I didn't let him call/phone that day.

1073. मैंने भी आने नहीं दिया।

Even I didn't let come.

1074. तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया।

You didn't even let me think.

1075. वो मुझे भी सोने नहीं देता।

He doesn't let me sleep either.

1076. मैं न तुम्हें खेलने दूँगा न टी.वी. देखने दूँगा।

I'll neither let you play nor watch TV.

1077. हम तुम्हें एक सेकण्ड भी सोचने नहीं देंगे।

We'll not let you think even for a second.

1078. मैं तुम्हें मिठाई खाने दूँगा पर तब जब तुम मुझे भी दो।

I'll let you eat sweets provided you give me too.

1079. मैडम ने क्लास में सिर्फ मुझे बैठने दिया।

Madam let only me sit in the class.

1080. वो राम को जीने नहीं देता और तुम उसे मरने नहीं देते।

He doesn't let Ram live & you don't let him die.

1081. मैं तुम्हें एक्सरसाइज़ नहीं करने दूंगा।

I'll not let you do the exercise.

1082. मम्मी और पापा हमें खेलने देंगे।

Mom and dad will let us play.

1083. क्या आप मेरे भाई को जाने दोगे?

Will you let my brother go?

1084. राहुल ने मुझे कोई भी काम कभी अकेले नहीं करने दिया।

Rahul never let me do any work alone.

1085. वो हम बच्चों को मोबाइल नहीं छेड़ने देते हैं।

He doesn't let we kids touch his mobile.

1086. बॉस मुझे सोचने तक नहीं देते।

Boss doesn't even let me think.

1087. मैं सोचने क्यों दूँ?

Why do I let think? / Why shall I let think?

1088. राम उसे क्यों जाने दे?

Why does Ram let him go? /

Why shall Ram let him go?

1089. मम्मी मुझे पढ़ने ज़रूर देगी।

Mom must let me study. /

Mom will let me study for sure.

1090. वो मुझे पढ़ने देता है।

He lets me study.

1091. यहाँ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते।

People here don't let me live peacefully.

1092. बच्चे पढ़ने नहीं देते।

Children don't let study.

1093. क्या उसने तुम्हें आने दिया?

Did he let you come?

1094. हमें क्यों नहीं बोलने दिया तुमने?

Why did you not let us speak?

1095. राम ने सीता को ज़हर क्यों खाने दिया?

Why did Ram let Seeta eat poison?

1096. सरकार हमें अपनी बात नहीं कहने देती।

The government doesn't let us speak our perspective.

1097. मैं तुम्हें उस बच्चे को नहीं पीटने दूँगा।

I will not let you beat that child.

1098. राम तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा।

Ram will never let you win.

1099. सीता का भाई मुझे अपने घर में नहीं घुसने देता।

Seeta's brother doesn't let me enter his home.

1100. क्या तुम मुझे मिलने दोगे?

Will you let me meet?

MODULE - 12

1101. राम उसे जाने नहीं देता।

Ram doesn't let him go.

1102. लोग उसे मुझसे मिलने नहीं देते।

People don't let him meet me.

1103. मेरे पापा मुझे आने नहीं देते।

My father doesn't let me come.

1104. सीता राम को वहाँ जाने क्यों नहीं देती?

Why does Seeta not let Ram go there?

1105. 5 दिन लगेंगे।

It will take 5 days.

1106. 6 साल लगे।

It took 6 years.

1107. आज सोमवार नहीं है।

It is not Monday today.

1108. कल छुट्टी थी।

It was holiday yesterday. /

It was off yesterday.

1109. राम को बहुत समय लगा।

Ram took lots of time.

1110. बारिश कब होगी?

When will it rain?

1111. क्या बारिश होगी?

Will it rain?

1112. क्या बारिश हो रही होगी?

Will it be raining?

1113. आज बारिश होगी।

It will rain today.

1114. कल बारिश हुई थी।

It had rained yesterday.

1115. कल ओले पड़े थे।

It had hailed yesterday.

1115. आज ओले पड़ेंगे।

It will hail today.

1116. परसों ओले पड़ेंगे।

It will hail day after tomorrow.

1117. परसों ओले पड़े थे।

It had hailed day before yesterday.

1118. परसों छुट्टी थी।

It was holiday day before yesterday.

1119. परसों छुट्टी होगी।

It will be holiday day after tomorrow.

1120. 2 मिनट लगते हैं।

It takes 2 minutes.

1121. 2 मिनट लग रहे हैं।

It is taking 2 minutes.

1122. 2 मिनट लगे हैं।

It has taken 2 minutes.

1123. 2 मिनट लगे।

It took 2 minutes.

1124. 2 मिनट लग रहे थे।

It was taking 2 minutes.

1125. 2 मिनट लगे थे।

It had taken 2 minutes.

1126. 2 मिनट लगेँगे।

It will take 2 minutes.

1127. मुझे 2 मिनट लगेँगे।

I will take 2 minutes. /

It will take me 2 minutes.

1128. अब तुम्हारी बारी है।

It is your turn now.

1129. यह तुम्हारा प्यार है।

This is your love.

1130. यह क्या है?

What is it/this?

1131. 2 दिन हो गये हैं।

It has been 2 days.

1132. 2 दिन हो गये थे।

It had been 2 days.

1133. मुझे 2 दिन हो गये थे।

It had been 2 days to me.

1134. क्या कल छुट्टी थी?

Was it holiday yesterday?

Was it off yesterday?

1135. उसे कितना समय लगेगा?

How much time will he take?

1136. तुम्हें कितना समय लगता है?

How much time do you take?

1137. आज ओले पड़ने थे।

It had to hail today.

1138. आज ओले पड़ सकते हैं।

It may hail today.

1139. क्या देहरादून में बारिश हुई?

Did it rain in Dehradun?

1140. बारिश क्यों होती है?

Why does it rain?

1141. यह प्यार है।

It is love. / This is love.

1142. यह एक कुर्सी है।

It/This is a chair.

1143. तुम कितना समय लोगे?

How much time will you take?

1144. मैं दस मिनट लूंगा।

I will take 10 minutes.

1145. उस दिन क्या था?

What was it on that day?

1146. अंधेरा हो रहा है।

It is getting dark.

1147. उमस हो रही है।

It is getting humid.

1148. यह मेरी ख्वाहिश है।

It's my will.

1149. वहाँ बहुत बारिश होती है।

It rains a lot there.

1150. आज बारिश हो सकती है।

It can rain today.

1151. आज बारिश होनी है।

It has to rain today.

1152. आज बारिश होनी थी।

It had to rain today.

1153. ये तुम्हारी सोच है।

It is your thinking.

1154. ये किसका पैन है?

Whose pen is this/it?

1155. इसकी कीमत 5 रुपया है।

It's for Rs 5. / It costs Rs 5.

1156. इसकी कीमत 5 रुपया होगी।

It will be for Rs 5. / It will cost Rs 5.

1157. क्या आज सोमवार है?

Is it Monday today?

1158. यहाँ बारिश हो रही है।

It is raining here.

1159. वहाँ ओले पड़ रहे थे।

It was hailing there.

1160. कितना समय हो गया है?

How long has it been?

1161. क्या कल बारिश होगी?

Will it rain tomorrow?

1162. मुझे दो घंटे लगे।

It took me 2 hrs. / I took 2 hrs.

1163. किताब खत्म करने में मुझे 2 महीने लगे।

It took me 2 months to finish the book.

1164. 15. सीता को काफी साल लगे।

Seeta took lots of time.

1165. आई ए एस अधिकारी बनने में 3 साल लगे।

I took 3 years to become an IAS officer.

1166. ये कपड़ा सिलने में 20 दिन लगेंगे।

It will take 20 days to stitch this cloth.

1167. अगर तुम पेंसिल से लिखो, तो काफी समय लगेगा।

If you write with a pencil, it will take too long.

1168. ये खत्म करने में तुम कितना समय लगे?

How much time will you take to finish it?

1169. हमारी शादी की सालगिरह है आज।

It's our marriage anniversary today.

1170. ये काम करने में काफी समय लगेगा।

It will take plenty of time to do this work.

1171. आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा।

It's your day today, it'll be mine tomorrow.

1172. तुम्हें देखे हुए मुझे दस दिन हो गये।

It has been 10 days to me having seen you.

1173. राम से मिले हुए सात साल हो गये हैं।

It has been 7 years having met Ram.

1174. ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा?

How much time did it take to reach office?

1175 . ऑफिस पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगा?

How much time did you take to reach office?

1176. तुम्हें देखे हुए मुझे करीब 2 साल हो गये हैं।

It's been about 2 years to me having seen you.

1177. जब मैं वहाँ पहुंचा, बारिश हो रही थी।

When I reached there, it was raining.

1178 खाना खाये हुए मुझे कई दिन हो गये हैं।

It has been many days to me having had the food.

1179. अच्छे कपड़े पहने हुए कई दिन हो गये हैं।

It's been many days having worn good clothes.

1180. वहाँ गए हुए मुझे कई दिन हो गये हैं।

It's been many days to me having gone there.

1181. खाना खाये हुए मुझे कई दिन हो गये ।

It has been many days to me having had the food.

1182. आज ओले पड़ सकते थे पर नहीं पड़े।

It may have hailed today but didn't.

1183. वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था।

It was a very important day of my life.

1184. राम को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा।

Ram didn't take much time to write.

1185. राम को लिखने में थोड़ा सा ही समय लगा।

Ram took a little time to write.

1186. चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश क्यों होती है?

Why does it rain the most in Cherapunji?

1187. बर्गर खाये हुए मुझे 4 महीने हो गये हैं।

It's been 4 months to me having eaten/had Burger.

1188. तुम्हें देखे हुए मुझे 3 दिन हो गये हैं।

It has been 3 days to me having seen you.

1189. उसे घर पहुंचने में कितना समय लगा?

How much time did he take to reach home?

1190. मैच का आनंद लेते 2 घंटे हो गए हैं।

It has been 2 hrs enjoying the match.

1191. उस दिन पूरे देश में छुट्टी थी।

It was holiday that day in the whole country.

1192. सुबह से बारिश हो रही थी।

It had been raining since morning.

1193. तुम मेरे दांयी ओर हो।

You are right to me. / You are to the right of me.

1194. क्या राम तुम्हारे सामने था?

Was Ram in front of you?

1195. मैं उसके आगे खड़ा था।

I was standing ahead of him.

1196. राम के आगे कितने लोग हैं?

How many people are there ahead of Ram?

1197. बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं।

The teacher is standing just in front of the students.

1198. तुम्हारे बाँयी ओर कौन है?

Who is left to you? / Who is to the left of you?

1199. मेरे बगल में दाँयी ओर सीता बैठी है।

Seeta is sitting immediate right to me.

1200. सीता के बगल में बाँयी ओर एक लड़का है।

A boy is immediate left to Seeta.

MODULE - 13

1201. मैं तुम्हारे पीछे था।

I was behind you.

1202. उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं?

How many people are standing behind him?

1203. राम एक कोने में बैठा है।

Ram is sitting in a corner.

1204. मेरे बाँयी ओर कोई लड़का नहीं था।

There was no boy left to me. /

There was no boy in my left.

1205. राहुल मेरे ठीक सामने था क्या?

Was Rahul exactly in front of me?

1205. मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है।

Your house is in front of my house / mine.

1206. मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है।

My house is just ahead of yours.

1207. मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है।

My house is just before yours.

1208. रोहित के दाँयी ओर कितने लोग हैं?

How many people are there right to Rohit?

1209. सीता के बाँयी ओर कितने लड़के हैं?

How many boys are there left to Seeta?

1210. मेरे दाँयी ओर कोई नहीं है।

There is no one to the right of me. /

There is no one right to me.

1211. क्या तुम्हारे दाँयी ओर कोई है?

Is there someone to the right of you? /

Is there someone right to you?

1212. क्या तुम्हारे बाँयी ओर कोई नहीं है?

Is there no one to the left of you? /

Is there no one left to you?

1213. क्या तुम्हारे आगे कोई है?

Is there someone ahead of you?

1214. क्या तुम्हारे पीछे कोई नहीं है?

Is there no one behind you?

1215. क्या तुम्हारे सामने कोई है?

Is there someone in front of you?

1216. क्या तुम्हारे बगल में कोई है?

Is there someone next to you? /

Is there someone adjacent you? /

Is there someone beside you?

1217. हम बाँयी ओर खड़े थे।

We were standing on the left.

1218. हम दाँयी ओर खड़े थे।

We were standing on the right.

1219. सीता क्लास में अकेली थी।

Seeta was alone in the class.

1220. राम वहाँ पर नहीं था।

Ram wasn't there.

1221. दिल्ली भारत के उत्तर में है।

Delhi is in north of India.

1222. केरल भारत के दक्षिण में है।

Kerala is in south of India.

1223. बंगाल भारत के पूरब में है।

Bengal is in East of India.

1224. उसके सामने कौन था?

Who was there in front of him/her?

1225. मेरे आगे लाइन में तीन लोग खड़े थे।

There were three people standing ahead of me in the queue.

1226. राम के आगे 2 आदमी थे।

There were 2 men ahead of Ram.

1227. मेरे पीछे लाइन में कितने थे?

How many were there behind me in the queue?

1228. मेरे जूते कमरे के एक कोने में पड़े थे।

My shoes were lying in a corner of the room.

1229. तुम्हारे जूते के सामने वाले जूते मेरे हैं।

The shoes beside yours are mine.

1230. वो तुम्हारे किस तरफ है?

Which side is he to you?

1231. वो मेरे दाँयी ओर है।

He is to the right of me. / He is right to me.

1232. दाँयी ओर तो ठीक है पर वो क्या बगल में है?

Right side is okay; but is he adjacent?

1233. हमारे बीच 2 लड़कियां हैं।

There are 2 girls between us.

1234. सीता और गीता के बीच कितने हैं?

How many are there between Seeta & Geeta?

1235. रोहन के बगल में कौन है?

Who is beside Rohan?

1236. सीता के बगल में कोई नहीं है।

Nobody is beside Seeta.

1237. राम आगे है और मैं पीछे।

Ram is ahead of me. / I am behind Ram.

1238. तुम दाँयी ओर थे।

You were on the right.

1239. तुम्हारे पीछे कौन है? कोई नहीं!

Who is behind you? None!

1240. मैं किस दिशा में हूँ?

Which direction am I in?

1241. तुम इस वक्त उत्तर की ओर जा रहे हो।

You are going towards north at the moment.

1242. यह तस्वीर किसकी है ?

Whose is this painting?

1243. शोर मत करो।

Don't make a noise.

1244. क्या आप आम खा चुकी हैं?

Have you eaten the mango?

1245. आप कहाँ जायेंगे ?

Where will you go?

1246. उनके पास अपने बैग है ।

They have their bags.

1247. क्या यहाँ पास में दवा की कोई दुकान है?

Is there a chemist nearby here?

1248. मैं कहता हूँ, रूको।

I say, stop.

1249. ठीक है । अब मुझे अपना काम करने दो ।

OK. Now you let me complete my work.

1250. अपना कमरा साफ़ करो।

Clean your room please.

1251. आज छुट्टी का दिन है।

It is holiday today.

1252. यह बहुत दूर है।

It's quite far.

1253. इसका मतलब मैंने गलती की।

That means I made a mistake.

1254. मैं कार नहीं चलाऊँगा।

I will not drive the car.

1255. वह प्रतिदिन स्कूल जाती है।

She goes to school everyday.

1256. मैं मार्केट जा रहा हूँ। साथ चलोगे?

I'm going to Market. Will you come along?

1257. नहीं। अभी मैं व्यस्त हूँ।

No. I am busy at the moment.

1258. लड़के सुबह से नदी में तैर रहे हैं।

Boys have been swimming in the river since morning.

1259. वह अंग्रेज़ी सीख रहा है।

He is learning English.

1260. मेरे पास मेरी कार है ।

I have my car.

1262. तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है ।

You have your pen.

1263. तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?

In which class do you study?

1264. मेरा भाई भोपाल में रहता है।

My brother lives in Bhopal.

1265. तुम्हारे पास मेरी बुक है ।

You have my book.

1266. माता जी खाना बना रही थीं।

Mom was cooking food.

1267. आपकी उम्र कितनी है?

What is your age? / How old are you?

1268. कल मैं एक बस में यात्रा कर रहा था ।

Yesterday I was travelling in a bus.

1269. क्या तुमने ऐसी चीजों का अनुभव किया है ?

Have you experienced such things?

1270. फ्लाइट का किराया ट्रेन के किराये के बराबर होगा ।

Flight fare will be equal to train fare.

1271. इसका चेहरा बालों से क्यों ढका हुआ है ?

Why is its face covered with hair?

1272. मैं चाय पसन्द करता हूँ जबकि वह कॉफ़ी पसन्द करती है।

I prefer tea, whereas/while she prefers coffee.

1273. कोलकाता मुम्बई की तुलना में ज्यादा बड़ा है।

Kolkata is quite bigger than Mumbai.

1274. मैं तुम्हें तस्वीर के बारे में बता रहा था।

I was telling you about the painting.

1275. अचानक उसे एक चुटकुला याद आया।

Suddenly, he remembered a joke.

1276. क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ?

Could I meet you tomorrow?

1277. वह तुम्हारी सहायता कर सकता था।

He could have helped you.

1278. वह क्रिकेट खेल रहा है।

He is playing cricket.

1279. वह कल इन्दौर जा रही है।

She is going to Indore tomorrow.

1280. हमेशा समझदारी से व्यवहार करो ।

Always act wisely.

1281. वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है।

He is helping his father.

1282. क्या हम इनाम प्राप्त कर रहे थे ?

Were we getting prizes?

1283. आज कौन सा दिन है?

What is the day today?

1284. मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या?

Are you kidding me?

1285. बहाने मत बनाओ।

Don't make excuses.

1286. मुझे मत सताओ।

Don't annoy me.

1287. मुझे गुस्सा मत दिलाओ।

Don't make me angry.

1288. गुस्सा मत हो।

Don't be annoyed/ angry.

1289. मुझे परेशान मत करो।

Don't bother me. / Don't disturb me. / Don't tease me./ Don't trouble me.

1290. मुझसे बहस मत करो।

Don't argue with me.

1291. अपने हाथ अच्छे से साफ कर लो।

Wash your hands properly.

1292. अपना चेहरा अच्छे से साफ कर लो।

Wash your face properly.

1293. किताब को अच्छे से पकड़ो।

Hold the book properly.

1294. चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत।

Sit still. Don't move.

1295. क्या मैं नहीं जा सकता?

Can I not go?

1296. मैं कहाँ जा सकता हूँ?

Where can I go?

1297. मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ?

Where all can I go?

1298. आप किसके साथ बैठ सकते हो?

With whom can you sit?

1299. वो अमेरिका नहीं जा पाया।

He couldn't go to America.

1300. हमारी टीम कहाँ खेल रही होगी?

Where will our team be playing?

MODULE - 14

1301. वह अगले रविवार शालिनी से विवाह करेगा।

He will be marrying Shalini next Sunday.

1302. ज़रूरत में काम आया दोस्त ही सच्चा दोस्त है ।

A friend in need is a friend indeed.

1303. अपने बच्चों को अपना काम करने दो ।

Let your children do their work themselves.

1304. रोबिन ने एक तस्वीर बनाई।

Robin drew a picture.

1305. आईये तुम्हारा जन्म दिवस मनायें ।

Let's celebrate your birthday.

1306. हमने अपने बच्चों को भगवान में विश्वास दिलाया है ।

We have made our children believe in God.

1307. मैंने ये पुस्तकें उसे नहीं दी।

I didn't give him these books.

1308. उसने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया।

He did not reply to my letter.

1309. उन्होंने तारों को भी काट दिया था ।

They had even cut off all the wires.

1310. छः घंटे के बाद वे चले गए

They left after six hours.

1311. क्या उसने नीली शर्ट पहनी ?

Did he wear a blue shirt?

1312. जेल में कैदियों से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है ।

In prison, captives are treated worst than animals.

1313. कल मैं एक बस में यात्रा कर रहा था ।

Yesterday I was travelling in a bus.

1314. अभी तक कोई नहीं आया है।

Nobody has come yet.

1315. उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया है।

His son has been selected in army?

1316. हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं।

We people want to show pity on them.

1317. उसके जाने के बाद हमने खाना खाया।

We had the food after he left.

1318. मछुआरों ने मछली पकड़ ली थी।

Fishermen had caught fishes.

1319. उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था।

She said that she had been doing his work.

1320. रोबिन ने धन उधार लिया।

Robin borrowed the money.

1321. तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो?

Why have you been sitting here since morning?

1322. अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ ।

If you need my help, please let me know.

1323. लोग अक्सर मुझे पूछते हैं।

People often ask me.

1324. आप कब-कब खेलने जाते हो?

How often do you go to play?

1325. राहुल कहाँ-कहाँ जाता है?

Where all does Rahul go?

1326. रिया अपना काम खुद करती है।

Riya does her work herself.

1327. मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ।

I seldom go there. / I rarely go there.

1328. श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है?

How long does shweta stay in the office?

1329. मैं घूमने जाता हूँ।

I go for a walk. / I take a stroll.

1330. आप क्या करते हो?

What do you do?

1331. ये सुनने में अच्छा लगता है।

It sounds good.

1332. आप किस किस के साथ खेलते हो?

Who all do you play with?

1333. राम फुटबॉल खेलता है।

Ram plays football.

1334. राम फुटबॉल नहीं खेलता है।

Ram doesn't play football.

1335. क्या राम फुटबॉल खेलता है?

Does Ram play football?

1336. क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है?

Does Ram not play football?

1337. राम क्या खेलता है।

What does Ram play?

1338. राम क्यों खेलता है?

Why does Ram play?

1339. राम कैसे खेलता है?

How does Ram play?

1340. राम कहाँ खेलता है?

Where does Ram play?

1341. राम किसके साथ खेलता है?

Whom does Ram play with?

1342. राम कब तक खेलता है?

Until when does Ram play?

1343. राम कितनी बार खेलता है?

How many times does Ram play?

1344. राम कहाँ-कहाँ खेलता है?

Where all does Ram play?

1345. राम कब-कब खेलता है?

How often does Ram play?

1346. मैं क्रिकेट खेलता हूँ।

I play cricket.

1347. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ।

I don't play cricket.

1348. क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ?

Do I play cricket?

1349. क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ?

Do I not play cricket?

1350. राम जाता है।

Ram goes.

1351. राम घूमता है।

Ram walks.

1352. राम घूमने जाता है।

Ram goes for a walk.

1353. वह घूमता है।

He walks.

1354. वो अक्सर घूमता है।

He often walks. / He walks very often.

1355. वो शायद ही कभी घूमता है।

He seldom walks.

1356. आप क्या-क्या खाते हो?

What all do you eat?

1357. आप कब-कब खेलने आते हो?

How often do you come to play?

1358. वो किसे प्यार करता है?

Whom does he love?

1359. संजीव कहाँ कहाँ जाता है?

Where all does Sanjeev go?

1360. मैं उसे घर भेज देता हूँ।

I send him home.

1361. वो किसकी कार चलाती है?

Whose car does she drive?

1362. आप किस-किस के साथ बात करते हो?

Who all do you speak with?

1363. कौन जाता है?

Who goes?

1364. कौन- कौन जाते हैं?

Who all go?

1365. मैंने चाकू से केक काटा।

I cut the cake with a knife.

1366. उसने नीले पैन से पत्र लिखा।

He wrote the letter with a blue pen.

1367. उसने पत्थर से चिड़िया मारी।

He killed the bird with a stone.

1368. इस मामले में मैं राम के साथ हूँ।

I am with Ram in this matter.

1369. हम आपके साथ रहेंगे।

We will be/stay with you.

1370. मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप ले के गये।

My dad brought laptop to his office.

1371. तुम ईमानदारी के साथ जीते हो।

You live with honesty.

1372. मैं 2 बजे पैदा हुआ था।

I was born at 2 o'clock.

1373. मैं एक होटल में रुका।

I stayed at/in a hotel.

1374. वो बस स्टॉप पर खड़ा था।

He was standing at the bus stop.

1375. राहुल एक स्टोर में काम करता है।

Rahul works at/in a store.

1376. मैं दोपहर में वहाँ था।

I was there in the afternoon.

1377. हम रात में पढ़ते हैं।

We study at night.

1378. यह फल 10 रु किलो बिक रहा है।

This fruit is selling at Rs. 10 a kg. /

This fruit is being sold at Rs. 10 a kg.

1379. मैं प्याज 10 रु किलो खरीद रहा हूँ।

I am buying onion at Rs. 10 a kg.

1380. मैं होली पर घर आऊँगा।

I will come home at Holi.

1381. मैं दीवाली पर घर आऊँगा।

I will come home at Diwali.

1382. वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जायेगा।

He will go there at his birthday.

1383. अयांश अब 10 बजे सोता है।

Ayansh sleeps at 10 now.

1384. वह रात में हॉस्पिटल गया।

He went to hospital at night.

1385. पापा दीपावली में वहाँ जाएँगे।

Papa will go there at Diwali.

1386. हम जन्मदिन पर आये थे।

We had come at birthday.

1387. मैं ग्लास से देख सकता हूँ।

I can see through the glass.

1388. मैं इस छेद के ज़रिए अंदर देख सकता हूँ।

I can see inside through this hole.

1389. मैं एक गली से गुज़र रहा था।

I was passing through a street.

1390. हम भूमिगत रास्ते से गये।

We went through the underpass.

1391. पानी इस पाइप से गुज़र रहा है।

Water is passing through this pipe.

1392. मैं खिड़की से तुम्हें देख सकती हूँ।

I can see you through the window.

1393. उसने मुझे इस छेद से देखा।

He saw me through this hole.

1394. हम सुरंग से गये।

We went through an underpass.

1395. अमन खिड़की से झाँक रहा है।

Aman is peeping through the window.

1396. पानी इस पाइप से गुज़रा।

Water passed through this pipe.

1397. इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है।

There is a temple beyond this mountain.

1398. उस नदी के पार क्या है?

What is there beyond that river?

1399. इस ब्रह्माण्ड के पार कुछ है।

There is something beyond this universe.

1400. सोच से परे भी चीज़ें हैं।

There are things beyond imagination.

MODULE - 15

1401. इसके पार एक जंगल था।

There was a forest beyond it.

1402. यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जायेगी।

This train will go to Delhi via Kanpur.

1403. मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी।

I sent him my picture via Bluetooth.

1404. बस कोटद्वार से होते हुए आती है।

Bus comes via Kotdwara.

1405. मैं दुबई के रास्ते अमेरिका गया।

I went to America via Dubai.

1406. उसे ब्लूटूथ से भेज दो।

Send him via Bluetooth.

1407. मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है।

My house is just opposite to your shop.

1408. वो तुम्हारे सामने खड़ा था।

He was standing opposite you.

1409. जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है।

Ram does opposite of what you say.

1410. उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है।

His thinking is opposite yours.

1411. वो आपके कहे का उल्टा करता है।

He does opposite of what you say.

1412. उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है।

His thinking is opposite mine.

1413. तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे।

You will sit opposite to me.

1414. वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा।

He must do its opposite.

1415. मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है।

My name is above your name is the list.

1416. पैसा प्यार से ऊपर है।

Money is above love.

1417. केवल उसकी आँखे पानी के ऊपर थी।

Only his eyes were above water.

1418. मेरा देश सबसे पहले है।

My country is above all.

1419. भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल में 8 से ऊपर है।

The magnitude of the earthquake is above 8 in Richter scale.

1420. राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है।

Ram is hidden under the bed.

1421. राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है।

Ram lives under the roof but Shyam doesn't even have a house.

1422. मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं।

Mom is sitting under the tree.

1423. वो पुल के नीचे था।

He was under the bridge.

1424. मेरा घर आपके घर के नीचे है।

My house is underneath your house.

1425. उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है।

Her photograph is beneath my book.

1426. पत्र मेरी किताब के नीचे है।

The letter is underneath the book.

1427. मोबाईल तकिए के नीचे है।

The mobile is beneath/underneath the pillow.

1428. मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे हैं।

My name is below your name in the list.

1429. उसका मुँह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर।

His mouth was below water but nose was above.

1430. मेरे दसवीं में 70 से नीचे हैं।

I scored below 70% in 10th.

1431. भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल में 9 से नीचे है।

The magnitude of the earthquake is below 9 in Richter scale.

1432. मेरा नाम राम के नाम के नीचे है।

My name is below Ram's.

1433. उसका स्तर तुमसे नीचे है।

His level is below yours.

1434. कीमतें नीचे जा रही हैं।

Prices are going down.

1435. पानी का स्तर नीचे जा रहा है।

Water level is going down.

1436. गुब्बारा नीचे जा रहा है।

Balloon is going down.

1437. वो यश और वैभव के बीच में बैठी है।

She is sitting between Yash and Vaibhav.

1438. पैन दो कम्प्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है।

The pen is lying between two computers.

1439. वो यश और राम के बीच में है।

He is between Yash and Ram.

1440. मैंने दो किताबों के बीच में फोन रखा।

I kept the phone between two books.

1441. मैं 50 लोगों के बीच में था।

I was among 50 people.

1442. उसकी तस्वीर तीन और चीजों के बीच रखी हुई थी।

Her photograph was kept among 3 other items.

1443. अमन 4 लोगों के बीच है।

Aman is among 4 people.

1444. मैं भीड़ के बीच था।

I was amongst the crowd.

1445. मेरे पापा कई लोगों के बीच थे।

My dad was amongst many people.

1446. मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ।

I am getting out of my home.

1447. वह दिल्ली से बाहर जा चुका है।

He has gone out of Delhi.

1448. राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किये।

Rahul scored 90 out of 100.

1449. 15 में से केवल 2 ही विधार्थी हैं।

There are only 2 students out of 15.

1450. यहाँ से बाहर निकलो।

Get out of here!

1451. वहाँ 8 में से केवल 1 ही विधार्थी है।

There is only 1 student out of 8.

1452. 10 में से 3 के पास मोबाईल थे।

3 out of 10 had mobiles.

1453. पैन टेबल पर रखा हुआ है।

The pen is kept on the table.

1454. रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है।

Rohit is sitting on the elephant.

1455. मैं संड़े को गया।

I went on Sunday.

1456. वह 20 दिसम्बर 2012 को आया।

He came on 20th December 2012.

1457. किताब लैपटॉप पर रखी है।

The book is kept on the laptop.

1458. हम लोग सोमवार को आयेंगे।

We all will come on Monday.

1459. मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया।

I jumped upon the horse.

1460. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया।

The broom came upon the table by itself.

1461. वो छत से हाथी के ऊपर कूदेगा।

He'll jump onto the Elephant from terrace.

1462. मैं घोड़े के ऊपर कूदा।

I jumped upon the horse.

1463. राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों हैं?

Why is Ram against you?

1464. वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है।

He is provoking him against me.

1465. क्या तुम मेरे विरोधी हो?

Are you against me?

1466. अमन मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता।

Aman can't be against me.

1467. वो मेरे बारे में बात कर रहा है।

He is talking about me.

1468. पापा मेरे बारे में जानते हैं।

Papa knows about me.

1469. उसके बारे में बात मत करो।

Don't talk about him.

1470. वो राम का भाई है।

He is Ram's brother.

1471. वो तीन भाईयों की बहन है।

She is the sister of 3 brothers.

1472. यह कुर्सी उस दुकान की है।

This chair is of that shop. /

This chair belongs to that shop.

1473. यशी हमारे घर आ रही है।

Yashi is coming to our home.

1474. वो हॉस्पिटल जा रहा है।

He is going to hospital.

1475. मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ।

I am going towards school.

1476. वो तुम्हारी तरफ आ रहा था।

He was coming towards you.

1477. यशी हमारे घर की तरफ आ रही है।

Yashi is coming towards our home.

1478. वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है।

He is going towards hospital.

1479. मैं रस्सी के ऊपर से कूदा।

I jumped over the rope.

1480. हमारे सिर के ऊपर छत है।

There is a roof over our heads.

1481. नदी के ऊपर एक पुल है।

There is a bridge over the river.

1482. अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा।

Ayansh jumped over the rope.

1483. उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया।

His lecture passed over my head.

1484. मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा।

I will come within 5 minutes.

1485. वो 2 दिन में ही वापस आ गया है।

He has come back within just 2 days.

1486. राम 10 मिनट के अंदर पहुँचेगा।

Ram will reach within 10 minute.

1487. वो 2 दिन के अंदर आ रहा है।

He is coming within 2 days.

1488. मैं तुमसे बेहतर हूँ।

I am better than you.

1489. हम उससे लम्बे हैं।

We are taller than him.

1490. मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया।

I loved him / her throughout my life.

1491. हमने रात भर काम किया।

We worked throughout the night.

1493. हमने सारी रात काम किया।

We worked throughout the night.

1494. मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ।

I am nothing without you.

1495. राम मेरे बिना नहीं जायेगा।

Ram will not go without me.

1496. उसके बिना हम अकेले हैं।

We are alone without him.

1497. कीमतें बढ़ रही हैं।

Prices are rising up.

1498. गुब्बारा ऊपर जा रहा है।

Balloon is going up.

1499. पानी का स्तर बढ़ रहा है।

Water level is going up (rising).

1500. उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका।

He threw the stone upwards.

MODULE - 16

1501. मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ।

I am going upwards

1502. पत्थर को ऊपर की ओर फेंको।

Throw the stone upwards.

1503. गुब्बारा ऊपर की ओर गया।

Balloon went upwards.

1504. उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका।

He threw the stone downwards.

1505. उसने नीचे की ओर देखा।

He looked downwards.

1506. वो दो साल पहले आया।

He came 2 years ago.

1507. राम ने बी.टेक 6 साल पहले किया था।

Ram had done B.Tech 6 years ago.

1508. मैं दो साल पहले यहाँ था।

I was here 2 years ago. /

I had been here 2 years ago.

1509. पापा चार दिन पहले आये थे।

Papa had come 4 days ago.

1510. वो 36 साल पहले अवार्ड जीता।

He won the award 36 years ago.

1511. कंप्यूटर के अंदर क्या है?

What is there inside the computer?

1512. वह अंदर था और मैं बाहर था।

He was inside and I was outside.

1513. उसने घर के अंदर देखा।

He looked inside the house.

1514. मैं घर के अंदर था।

I was inside the house.

1515. वो घर के बाहर खड़ा था।

He was standing outside the house.

1516. वो स्कूल परिसर के बाहर था।

He was outside the school premises.

1517. वो हॉस्पिटल परिसर के बाहर है।

He is outside the hospital premises.

1518. वह मेरे बगल में खड़ा था।

He was standing next to me.

He was standing beside me.

He was standing by me.

1519. वो राम के बगल में बैठा है।

He is sitting next to Ram.

1520. पापा अयांश के बगल में बैठे हैं।

Papa is sitting next to Ayansh.

1521. रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है।

Rashmi is sitting adjacent Divya.

1522. मसूद तरुण के बगल में खड़ा है।

Masood is standing by Tarun.

1523. राम मयंक के बगल में बैठा है।

Ram is sitting beside Mayank.

1524. मैं लाइन में राम के पीछे था।

I was behind Ram in the queue.

1525. उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है।

There is nobody standing behind him.

1526. अविरत अयांश के पीछे पड़ा है।

Avirat is sitting behind Ayansh.

1527. राम मंयक के पीछे बैठा है।

Ram is sitting behind Mayank.

1528. मैं लाइन में राम के आगे था।

I was ahead of Ram in the queue.

1529. उसके आगे कोई नहीं खड़ा है।

There is no one standing ahead of him.

1530. मेरा दिन अच्छा गुज़र रहा है।

I'm having a good day. /

I'm going through a good day.

1531. मेरा टाइम अच्छा कट रहा है।

I'm having a good time. /

I'm going through a good time.

1532. कार होना मेरी दिली इच्छा है।

To have a car is my whole-hearted will.

1532. वो निकल गया होगा।

He would have left.

1533. आपने उसे कॉल किया होगा।

You would have called him.

1534. आप रख लीजिए ये पैन।

You keep this pen. / You have this pen.

1535. मेरे पैर में दर्द है।

I have a pain in my leg. / My leg is paining. /

I'm having a pain in my leg.

1536. मुझे जाना पड़ रहा है।

I am having to go. / I have to go.

1537. राहुल को सोचना पड़ रहा है।

Rahul is having to think. / Rahul has to think.

1538. हमेशा के लिए रख लीजिए।

Keep it forever. / Have it for keeps.

1539. उसने खाना खा लिया था।

He had eaten the food. / He had taken the food. / He had had the food.

1540. अविरत बर्गर खा रहा है।

Avirat is eating burger. / Avirat is having burger. / Avirat is taking burger.

1541. आपके पास कितना पैसा है?

How much money do you have?

1542. लगता है उसके पास पेन है।

Seems as, he has a pen. / He seems to have a pen.

1543. हमें घर जाना होगा।

We will have to go home.

1544. हमें समझौता करना होगा।

We will have to compromise.

1545. मुझे खेलना है।

I have to play.

1546. हमें नहीं खेलना है।

We have not to play. / We don't have to play.

1547. क्या मुझे जाना है?

Have I to go? / Do I have to go?

1548. तुम्हारे पास क्या है?

What do you have?

1549. मैंने खाना खा लिया है।

I have eaten the food. / I have taken the food. / I have had the food.

1550. आप ये अपने पास रखिए ।

You keep it with yourself. / You have it with yourself.

1551. ये लीजिए।

Have it please. / Here it is.

1552. आपके पास क्या था?

What did you have?

1553. वो पानी पी रहा है।

He is drinking water. / He is taking water. / He is having water.

1554. मेरे पास कार होनी चाहिए थी।

I should have had a car.

1555. उसके पास कुछ होना चाहिए था।

He should have had something.

1556. 2022 तक मेरे पास कार हो सकती है।

I may have a car by 2022.

I might have a car by 2022.

I could have a car by 2022.I can have a car by 2022.

1557. इसके बावजूद भी, मैं तुम्हें चाहता हूँ।

Having said that, I love you.

1558. आपसे मिलने के बाद मैं निकल गया।

Having met you, I left.

1559. तुम्हें देखने के बाद, मैं तुम्हारे सपनों में खो गया।

Having seen you, I got lost in your dreams.

1560. ऐसा घर मेरे पास हो, मेरा सपना था।

To have such a house was my dream. /

Having such a house was my dream.

1561. ऐसा पति मिलना मेरी ख्वाहिश थी।

To have such a husband was my will. /

Having such a husband was my will.

1562. आप जैसा अध्यापक पाकर मैं खुश हूँ।

I am happy to have such a teacher like you.

1563. आप जैसा स्टूडेंट पाना मेरा सौभाग्य है।

I am lucky to have such a student like you.

1564. तुम्हें पाना मेरी जिंदगी की दिली ख्वाहिश रहेगी।

To have you with me will remain the whole-hearted desire of my life.

1565. उसके पास कार हो सकती है।

He may have a car. He might have a car.

He could have a car.

1566. राहुल के पास शायद पैसे न हों।

Rahul may not have money.

1567. लगता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है।

It seems that you don't have brain. /

You seem to have no brain.

1568. आपसे मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं।

It has been 2 years to me having met you.

1569. राहुल को देखे हुए कई दिन हो चुके हैं।

It has been many days having seen Rahul.

1570. साथ खेले हुए काफी समय हो गया।

It has been a long having played together.

1571. पैसा होना अच्छी बात है पर घमंड नहीं होना चाहिए।

It is good to have money but there should not be arrogance.

1572. हो सकता है उसके पास किताब हो।

He may have a book. / He might have a book. /

He could have a book.

1573. हो सकता है राहुल के पास मोबाइल हो।

Rahul may/might/could have a mobile.

1574. आसमान में कितने तारे हैं?

How many stars are there in the sky? /

How many stars does the sky have?

1575. गिलास में कितना पानी था?

How much water was there in the glass? /

How much water did the glass have?

1576. मुझे फिजूल में आप से सवाल पूछने पढ़ रहे हैं।

I am having to ask you questions for no reason. /

I have to ask you questions for no reason.

1577. हमें भेजा जा रहा है।

We are being sent.

1578. राहुल स्वार्थी हो रहा है।

Rahul is being selfish. / Rahul is behaving selfish.

1579. मुझे बताया गया था।

I had been told.

1580. वो मेरे होने वाले पति हैं।

He is my to-be husband

1581. वो घर पर होना चाहिए।

He should be at home.

1582. रोहित को पीटा जा रहा था।

Rohit was being beaten.

1583. हमें खुश किया जा रहा है।

We are being made happy.

1584. आप थके हुए लगते हैं।

You seem to be tired.

1585. स्वार्थी मत बनिए।

Don't be selfish.

1586. ये काम किया जाना है।

This work is to be done.

1587. वो दिल्ली में कभी नहीं रहा है।

He has never been in Delhi. / He has never lived in Delhi.

1588. आपको पूछा जाना चाहिए था।

You should have been asked.

1589. उसे मुंबई नहीं भेजा जा सका।

He could not be sent to Mumbai.

1590. वो बदल रहा है।

He is being /getting changed.

1591. मैं थक रहा हूँ।

I am being / getting tired.

1592. उसे भेजा जा रहा होगा।

He will be getting sent.

1593. कमरों को साफ किया जाना है।

The rooms are to be cleaned.

1594. कमरे को साफ किया जा रहा था।

The room was being cleaned.

1595. कहा गया की बिल्डिंग बनाई जानी है।

The building was said to be constructed.

1596. कहा गया की बिल्डिंग बनाई जा चुकी है।

The building was said to have been constructed.

1597. पैसे के मामले में स्वार्थी बनो।

Be selfish for money matters.

1598. अयांश इस वक्त स्कूल में नहीं होना चाहिए।

Ayansh should not be in school right now.

1599. मुझे 6:00 बजे तक ऑफिस में ही रहना है।

I have to be in office itself till 6 o'clock.

1600. उसे घर पर रहने के लिए कहा गया है।

He has been told to be at home.

MODULE - 17

1601. उसे नौकरी से क्यों निकाला गया ?

Why was he fired from the job?

1602. बच्चों को स्कूल में खिलौने दिए गए।

Kids were given toys in school.

1603. आपसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है।

You have to be interrogated by the police.

1604. वो मेरे पिटने के बारे में बात कर रहे थे।

They were talking about my being beaten.

1605. पकड़े जाने के डर से वो डरा हुआ था।

He was scared of being caught.

1606. कभी-कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है।

Being selfish at times is fair.

1607. इस वक्त घर पर होना मेरे लिए ज़रूरी है।

Being at home is important for me right now.

1608. मैं आपसे मिलने को बेताब हो रहा हूँ।

I am being impatient/crazy to meet you.

1609. मुझे टीम में खेलने नहीं दिया जा रहा है।

I am not being let play in the team.

1610. मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं।

It has been 5 year to my marriage. /

I have been married for 5 years.

1611. डांट खाने के बाद वो दुखी हो गया।

Having been scolded, he turned/got sad.

1612. एक अध्यापक होने के नाते, ये मेरा फर्ज हैं।

Being a teacher, it is my duty.

1613. वो घर पर रहना पसंद करता है।

He loves being at home.

1614. घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया।

I could meet you due to being at home.

1615. युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है?

What is the possibility of being killed in the war?

1616. आपके डांट खाने की क्या संभावना है?

What is the chance of your being scolded?

1617. वो मुझे पीटने के बारे में बात कर रहे थे।

They were talking about beating me.

1618. मुझे शाम 7:00 बजे तक ऑफिस में रहने का आदेश किया गया था।

I had been instructed to stay/be in office till 7 PM.

1619. हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया।

We were tortured very badly by the police.

1620. आपको झूठ बोला गया था कि आज मेरी शादी है।

You had been told a lie that it was my marriage that day.

1621. उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा मदद किए जाने के बारे में बताया।

He told me about having been helped by your brother.

1622. वो तुम्हारे पिटने के बारे में बात कर रहे हैं।

They are talking about your being beaten.

1623. तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

Being with you is the biggest achievement of my life.

1624. आरोप लगाए जाने के बाद, उसने निर्दोष व्यवहार करना शुरू कर दिया।

Having been accused, he started behaving innocent.

1625. लगता है वो देहरादून में काफी समय से हैं।

He seems to have been in Dehradun for quite a long.

1626. आपका स्कूल में होना कितना मायने रखता है ?

How important is it for you being in school?

1627. मैं नहीं गया।

I didn't go.

1628. तुम कहाँ जाते हो?

Where do you go?

1629. हम किस तरह आयेंगे?

How will we come?

1630. मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा?

How long will I support you? /

How long will I stand by you?

1631. रोहित की बहन कहाँ जा रही है?

Where is Rohit's sister going?

1632. वो किस शहर से आया था?

From which city had he come?

1633. राम खेलता है।

Ram plays.

1634. वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है?

Why does that boy think so?

1635. ये बच्चे कहाँ रहते हैं?

Where do these children live?

1636. वो कल से डांस अभ्यास कर रही है।

She's been practicing dance since yesterday.

1637. राकेश नहीं समझता।

Rakesh doesn't understand.

1638. घाव से खून निकल रहा है।

Blood is oozing from the wound.

1639. मैं पढ़ूँगा।

I will study.

1640. वो सभी किसके भाई हैं?

Whose brothers are they all?

1641. वो खिड़की से झाँक रहा था।

He was peeping through the window.

1642. बच्चे तब स्कूल से आ रहे होंगे।

Children will be coming from school then.

1643. मैं शिमला अक्सर जाता हूँ।

I often go to Shimla.

1644. वो खूब पढ़ता है।

He studies a lot.

1645. वो कभी-कभी मेरे घर आता है।

He sometimes comes my home.

1646. कल 6 बजे बस निकल चुकी होगी।

Bus will have left by 6 o'clock tomorrow.

1647. तुम कब तक यहाँ ठहरोगे?

For how long will you stay here?

1648. माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी।

The mother will be feeding her child.

1649. हम बहुत देर तक सोते हैं।

We sleep till late.

1650. वो घर से नहीं आया है।

He has not come from home.

1651. वो अपने सपनों को साकार करेगा।

He will fulfill his dreams. / He will materialize his dreams.

1652. मैं किसके बारे में सोचता हूँ?

Whom do I think about?

1653. मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे?

With whom were I & you playing?

1654. हम वहाँ गये थे।

We had gone there.

1655. मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है?

Which car is my friend driving?

1656. उसने उस आदमी को जान से मार दिया।

He killed that man.

1657. मेरे साथ कई फिल्म देख रहे थे।

There were many, watching movie with me.

1658. हमने टी.वी. में किसकी लड़ाई देखी?

Whose fight did we watch on TV?

1659. हम राम को बिल्कुल नहीं जानते।

We don't know Ram at all. / We have no idea who Ram is.

1670. ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है।

This broken heart is saying something.

1671. तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे।

You were running very fast.

1672. कौन जायेगा?

Who will go?

1673. किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है?

Which actor's friend works with your dad?

1674. मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ।

I often go to his home.

1675. सीमा आये दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है।

Seema often calls you to write homework.

1678. बच्चे सुबह से TV देख रहे हैं।

Kids have been watching TV since morning.

1679. उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है?

Which party's support is he not getting? /

Which party is not supporting him?

1680. वो मोबाइल से क्या देख रहा है?

What is he watching on Mobile?

1681. मैं किस लड़की का भाई हूँ?

Which girl's brother am I?

1682. उसके पापा ने मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं किया?

Why did his father not prefer/like to talk to me?

1683. राम मुश्किल से ही कभी मेरे घर आता है।

Ram hardly comes my home.

1684. क्या ये बातें याद आयेंगी तुम्हें?

Will you remember these words?

1685. हम सभी लोग उस नेता को पसंद नहीं करते।

We all people don't like that leader.

1686. मेरे भाई ने किसी लड़की को परेशान नहीं किया।

My brother didn't bother any girl.

1687. उसने देखने की कोशिश नहीं की।

He didn't try to see.

1688. वो अधिकतर सीता के साथ खेलता है।

He mostly plays with Seeta.

1689. उसने मेरे लिए कभी कुछ किया?

Did he ever do anything for me?

1690. उसने कुछ नहीं किया।

He did nothing. / He didn't do anything.

1691. हम तुम्हारे साथ घूमने जायेंगे।

We will go for a walk with you. / We will take a stroll with you.

1692. राम उसे बहुत प्यार करता है।

Ram loves him/her a lot.

1693. तुमने मेरा दिल दुखाया है।

You have hurt me.

1694. आँखें धोखा देती हैं।

Eyes are deceptive.

1695. क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है?

Have you served the food to all?

1696. किसने तुम्हें देखा था?

Who had seen you?

1697. ये दिल प्यार के लिए तड़पता है।

This heart craves for love.

1698. मैंने भगवान से कुछ माँगा है।

I have begged something from God.

1699. उसने गलती की है।

He has committed / made a mistake.

1700. हमारी आँखें उसे देख रही थी।

Our eyes were searching him.

MODULE - 18

1701. तुम्हें चोट किसने पहुंचाई?

Who hurt you?

1702. मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा।

I never thought so.

1703. राम ने मुझे मेरी जीत पर बधाई दी है।

Ram has congratulated me on my victory.

1704. दुकानदार ने मुझे लूट लिया।

Shopkeeper ripped me off.

1705. क्या तुम मुझे याद दिलाओगे?

Will you remind me?

1706. बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया?

Who supported you in bad phase? /

Who stood by you in bad phase?

1707. मां बदले में कुछ नहीं मांगती।

Mother demands nothing in return.

1708. हम 2:00 बजे पार्क में घूम रहे थे।

We were walking in the park at 2 o'clock.

1709. वो किसके लिए इतनी दूर गया?

For whom did he go this far?

1710. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है।

Your face reminds me of someone.

1711. ये कौन करता है?

Who does it?

1712. ये साँप सदियों से अपनी साथी की तलाश कर रहा है।

This snake has been searching his partner for centuries.

1713. उसने किताब ले ली थी।

He had taken the book.

1714. मैं पेन से लिखूंगा।

I will write with a pen.

1715. क्या तुम रोज़ हनुमान जी की पूजा नहीं करती?

Do you not worship Lord Hanuman daily?

1716. वो घूमने गया था।

He had gone for a walk.

1717. ये काम किसने किया?

Who did this work?

1718. ये कहानियां मुझे पसंद नहीं।

I don't like these stories.

1719. हमने गलती नहीं की।

We didn't make a mistake.

1720. राम मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा।

Ram will tell at least something about me.

1721. वो दोनों हमें क्या सिखाएंगे?

What will they both teach us?

1722. तुम सभ्य लगते हो।

You look civilized.

1723. वो तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है।

He has already come your home.

1724. मैं तुम्हें रोज़ देखने आया।

I came to see you daily.

1725. तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो।

You have accepted your fault.

1726. मैं तुमसे कभी नहीं मिला।

I never met you.

1727. मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूँ।

I have somehow reached office.

1728. क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं?

Are you saying something to us?

1729. वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है?

Why does he come towards your home?

1730. मैं दीवार के पीछे छुप गया।

I hid behind the wall.

1731. मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था।

I was craving to meet you. /

I was being/getting crazy to meet you.

1732. मैं जल्द ही ऑफिस पहुँच रहा हूँ।

I am reaching office soon.

1733. सीता ने कम्पनी छोड़ी और चली गयी।

Seeta left the company and went.

1734. तुम अच्छे लग रहे हो।

You are looking good.

1735. तुमने ऐसा क्यों सोचा?

Why did you think so?

1736. उसने गाना कहाँ गाया?

Where did he sing the song?

1737. प्रिया मेरे दिल को समझ रही थी।

Priya was understanding my feelings.

1738. मैंने सब कुछ समझ लिया था।

I had understood everything.

1739. लोग मिठाइयाँ खा चुके थे।

People had eaten the sweets.

1740. मुझे उसकी याद आ रही थी।

I was missing him/her.

1741. वह दो साल पहले कम्पनी छोड़ चुका है।

He has left the company 2 years ago.

1742. वो तुम्हें धमकी क्यों देता है?

Why does he threaten you?

1743. मैं ऑफिस के बाहर पहले ही देख चुका हूँ।

I have already seen outside the office.

1744. क्या आप हमसे सहमत हैं?

Do you agree with us?

1745. राम धोखा दे रहा था।

Ram was cheating.

1746. वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है।

That man does not meet me.

1747. तोता छत पर रो रहा था।

The parrot was crying on the terrace.

1748. वो तुम्हारा इंतजार 2:00 बजे से कर रहा था।

He had been waiting for you since 2'o'clock.

1749. मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ।

I am not thinking anything about you. /

I am thinking nothing about you.

1750. मैं तुमसे बात करूँगा।

I will talk to you.

1751. लोग मुझसे मिलने नहीं आयेंगे।

People will not come to meet me.

1752. राम कम्प्यूटर सीखता है।

Ram learns computer.

1753. तुम्हारे बाल झड़ चुके थे।

You suffered a hair fall.

1754. मैं अपने माता पिता को विदा कर चुका हूँ।

I have seen off my parents.

1755. 2 घंटे हो गये, घाव से खून निकल रहा है।

Blood has been oozing from the wound for 2 hrs.

1756. मैं अपने माता-पिता को भेज चुका था।

I had sent my parents.

1757. क्या आप 3 साल से काम कर रहे हैं?

Have you been working for 3 years?

1758. क्या आप सुबह से घूम रहे हैं?

Have you been walking since morning?

1759. नल दिखने में अच्छा लग रहा था।

The tap was looking good.

1760. उसने तुम्हें धमकी क्यों दी थी?

Why had he threatened you?

1761. तुम मुझे सुबह से क्यों ढूंढ रहे हो?

Why have you been searching me since morning?

1762. राम ऑफिस कब जाता है?

When does Ram go to office?

1763. उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है।

He has left me alone.

1764. तुम ऐसा क्यों सोचते हो?

Why do you think so?

1765. मैं आपके पास कब आया?

When did I come to you?

1766. मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा।

I will never meet you.

1767. क्या आपने खाना खाया?

Did you eat the food?

1768. वो भगवान की पूजा कब से कर रही है?

Since when has she been worshipping God?

1769. तुमने हाल ही में कौन सी फिल्म देखी है?

Which movie have you recently seen?

1770. मैं घूमने गया।

I went for a walk.

1771. मैं 2 घंटे से ठंड से कांप रहा हूँ।

I have been shivering with cold for 2 hours.

1772. वह दो साल पहले कंपनी छोड़ चुका है।

He has left the company 2 years ago.

1773. तुमने मेरा मूड खराब किया।

You spoiled my mood.

1774. मैं 2008 से कंपनी में काम कर रहा हूँ।

I have been working with the company since 2008.

1775. क्या सीता वहाँ बैठी?

Did Seeta sit there?

1776. वो गाना कहाँ गाता है?

Where does he sing the song?

1778. वो तुम्हारे घर में खाना खा चुका है?

He has eaten the food at your home.

1779. जब मैं आऊँगा, तुम घर जा रहे होंगे।

When I come, you will be going home.

1780. उसने मुझे माफ किया।

He forgave me.

1781. मैं ऑफिस परिसर में सिगरेट नहीं पीता।

I don't smoke in office premises.

1782. मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ।

I have realized my mistake.

1783. मैंने ये पहली सुलझा दी।

I unravelled this enigma. /

I solved this puzzle.

1784. मैं कभी गाना नहीं गाता।

I never sing a song.

1785. मैं आपके पास कब आऊँगा?

When will I come to you?

1786. मेरा भाई किसी तरह घर पहुंचा।

My brother somehow reached home.

1787. यह सुनने में अच्छा लगता है।

It sounds good.

1788. क्या सीता वहाँ बैठेगी?

Will seeta sit there?

1789. सचिन ने पुराने सभी रिकार्ड्स तोड़े।

Sachin broke all the previous records.

1790. मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ।

I accept your proposal.

1791. राम अगले महीने कंप्यूटर सीखेगा।

Ram will learn computer next month.

1792. क्या सीता वहाँ बैठी है?

Does Seeta sit there?

1793. तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो?

Why are you thinking so?

1794. तुम अच्छे लगते हो।

You look good.

1795. तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे?

How will you bring these many books?

1796. उसने षड़यंत्र का भांडा फोड़ दिया।

He unearthed the conspiracy.

1797. मैं अपनी सफलता का श्रेय तुम्हें देता हूँ।

I ascribe my success to you.

1798. तुममें से कितने ताजमहल गए हो?

How many of you have visited the Taj?

1799. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी।

I had prayed for you.

1800. राम अच्छी तरह से तैयारी कर चुका है।

Ram has prepared well.

MODULE - 19

1801. ये किसने किया?

Who did it?

1802. उसने अनजाने में मुझे दुख पहुंचाया।

He unknowingly hurt me.

1803. मैंने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं।

I have collected the money from people.

1804. मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा।

I swear that I will never go there.

1805. तुम्हारी किताब किसने ली?

Who took your book?

1806. क्या हुआ?

What happened?

1807. तुम्हारे दिमाग को किसने परेशान किया?

What disturbed your mind?

1808. हम बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे थे।

We were unnecessarily fighting with each other.

1809. तुम क्या ढूँढ रहे हो?

What are you looking for?

1810. मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली।

I recognized his voice.

1811. उसने मुझे पूरी तरह से सहयोग का आश्वासन दिया।

He assured me of full cooperation.

1812. क्या तुममें से कोई पूजा करते हैं?

Do any of you worship?

1813. उसने इतने सारे लोगों को कैसे संभाला?

How did he handle these many people?

1814. जो कोई मेरे पास आया, मैंने मदद की।

Whoever came to me, I helped.

1815. खेल के दौरान वो खोया खोया सा लगा।

During the game, he seemed to be lost.

1816. तुम कहीं खोये से लगते हो।

You seem to be lost somewhere.

1817. मैंने उसे उतना पैसा नहीं दिया।

I didn't give him that much money.

1819. हजारों लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं।

Thousands of people are protesting on roads.

1820. हस्त रेखा विज्ञान ने उसे पागल कर दिया है।

Palmistry has made him crazy.

1821. यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है।

This shop opens every day except Sunday.

1822. तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डाँट सकता हूँ।

I can scold anyone except you.

1823. मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कम्पनियों के मोबाइल हैं।

Except Samsung, I have mobiles of many companies.

1824. इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो।

Give me anything except it.

1825. इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या?

Do you eat anything else besides this?

1826. इस पैन के अलावा मेरे पास दो पैन हैं।

Besides this pen, I have two more pens.

1827. अमन के अलावा मेरे पास आशीष भी तो है।

Besides Aman, I have Ashish as well.

1828. तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास कौन है?

Who do I have besides you?

1829. छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था।

I was in Delhi during the vacation.

1830. हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं।

We can meet Sachin during the break.

1831. मैंने पढ़ाई के दौरान नौकरी की।

I worked during studies.

1832. वे दिल्ली के दौरे के दौरान आये।

He came during the visit of Delhi.

1833. मैं 9 बजे तक काम करूँगा।

I will work till 9.

1834. हम सोमवार तक ठहरे।

We stayed till Monday.

1835. मैं शनिवार तक वहाँ था।

I was there till Saturday.

1836. मैं 2009 तक वहाँ था।

I was there till 2009.

1837. मैं जनवरी तक वहाँ था।

I was there till January.

1838. मैं यहाँ सोमवार तक हूँ।

I am here till Monday.

1839. मैं 2013 तक दिल्ली में रहा।

I lived in Delhi till 2013.

1840. मैं 5 बजे तक घर पर था।

He was at home till 5.

1841. उसने 3 बजे तक टीवी देखा।

He watched TV till 3 o'clock.

1842. मैं बस देहरादून तक गया।

I just went up to Dehradun.

1843. सीता 5 किलो मीटर तक दौड़ी।

Seeta ran up to 5 kilometers.

1844. तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाईल नहीं रखना चाहिए।

You should not keep mobile till 18.

1845. ये आप पर निर्भर है कि आप जायें या नहीं।

It's up to you whether you go or not.

1846. ये सब आप पर है, आप देख लीजिए।

It's all up to you.

1847. वो इस जॉब के लायक नहीं है।

He is not up to this job.

1848. उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है।

His performance is not up to the mark.

1849. लोग मेरे चारों ओर थे, फिर भी मैं तन्हा था।

People were there around me, yet I was lonely.

1850. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है।

The Earth is revolving around the Sun.

1851. मम्मी आस पास नहीं दिख रही हैं।

Mom is not being seen around. /

Mom is not seen around.

1852. तुम आस पास ही रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है।

You stick around! I may need you.

1853. क्या तुम साथ आओगे?

Will you come along?

1854. तुम्हें यह पेन मोबाईल के साथ मिलेगा।

You will get this pen along the mobile.

1855. मेरा ऑफिस गली के बगल में है।

My office is along the street.

1856. नदी के साथ साथ एक रोड़ है।

There is a road along the river. /

There is a road alongside the river.

1857. रोड़ के किनारे एक ट्रक खड़ा है।

A truck is parked alongside the road.

1858. क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो?

Can you swim across the river?

1859. एक आदमी सड़क के पार खड़ा था।

There was a person standing across the road.

1860. मेरी दुकान सड़क के उस पार है।

My shop is across the road. /

There is my shop across the road.

1861. लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया ।

The metal pot (vessel) kept rolling and fell down.

1862. लोटा लुढ़कते लुढ़कते गिरने से बच गया ।

The metal pot kept rolling but escaped falling.

1863. मैं गिरने से बच गया ।

I escaped falling.

1864. मैं गिरते गिरते बचा।

I narrowly escaped falling.

1865. वो स्विमिंग पूल में गिरते गिरते बच गया।

He narrowly escaped falling into the swimming pool.

1866. वो साईकिल से गिरते गिरते बचा।

He narrowly escaped falling off the bicycle.

1867. वो पास होते होते रह गया।

He narrowly missed the pass marks.

**1868. गिलास मेरे हाथ से स्लिप हो गया और
लुढ़कने लगा**

**The glass slipped out of my hands and
started rolling. /**

**The glass slipped from my hands and started
rolling.**

The glass slipped off my hands and started rolling.

1869. ये मेरे दिमाग से निकल गया. / मुझे ध्यान नहीं रहा ।

It slipped out of my mind.

It slipped from my mind.

1870. मुझे सब्जियां भी लानी थी. दिमाग से निकल गया ।

I had to bring vegetables too. It just slipped out of my mind.

I had to bring vegetables too. It just slipped from my mind.

1871. चिंता मत करो मैंने तुम्हारे लिए 2 केले बचाकर रखे हैं।

Don't worry. I have spared 2 bananas for you.

1872. चला जाए?

Shall we go? / Do we go?

1873. खाया जाए?

Shall we eat? / Do we eat?

1874. मैं 13 जून को उस शहर में फंस गया था ।

I had been stuck in that city on 13th of June.

1875. मैं चाहकर भी उससे मिल नहीं सका ।

I wished to meet her but I couldn't.

1876. पानी अब गरम है. आप नहाने जाइये ।

Water is warm now. You go and take a bath.

1877. पानी गुनगुना हो गया है ।

The water has turned lukewarm.

1878. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?

What wrong have I done to anyone?

1879. तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है?

What wrong have you done to me?

1880. मैंने उसका क्या बिगाड़ा है?

What wrong have I done to him?

1881. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है?

Why does it happen only with me?

1882. मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ।

I can swim across the river.

1883. क्या आप स्कूल जा पाए?

Could you go to school?

1884. क्या वो घर आ पाया?

Could he come home?

1885. आप मेरे घर आ सकते थे।

You could have come my home.

1886. आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए।

You Should talk to your friends.

1887. आपको मुझे फोन नहीं करना चाहिए।

You shouldn't call me.

1888. मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए।

I must go there.

1189. मेरा घर सड़क के उस पार है।

My house is across the road.

1890. वो सड़क के पार खड़ा है।

He is standing -across the road.

1891. हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए।

We ought to fight for our nation.

1892. उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था।

He ought to have fought for his nation.

1893. क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ?

Could I talk to Rahul please?

1894. क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ।

May I sit with you?

1895. राहुल को जाना है।

Rahul has to go.

1896. राहुल को नहीं जाना है।

Rahul has not to go.

1897. क्या राहुल को जाना है

Has Rahul to go?

1898. क्या राहुल को नहीं जाना है

Has Rahul not to go?

1899. ये एक पक्की सड़क है।

This is a metalled road.

1900. ये एक कच्ची सड़क है।

This is an unmetalled road.

MODULE - 20

1901. आप मेरे कौन हो?

Who are you to me?

1902. काश मैं एक लड़की होता !

I wish I were a girl!

1903. काश मैं एक गिटारिस्ट होता !

I wish I were a guitarist!

1904. काश मेरे पास पैसे होते !

I wish I had money!

1905. काश मैं वहाँ जा सकता !

I wish I could go there!

1906. ऐसा सोचना भी मत।

Don't even think so.

1907. ये करना गलत है।

This is wrong to do it.

1908. बारिश होने दो।

Let it rain.

1909. मेरे पैर में दर्द है ।

There is a pain in my leg. / My leg is paining.

1910. मेरी उँगली में दर्द है ।

There is a pain in my finger. / My finger is paining.

1911. अंदर से कुर्सी ले के आओ।

Bring the chair from inside.

1912. कुर्सी अन्दर रखो ।

Keep the chair inside.

1913. तुम्हें डांट पड़ेगी ।

You will be scolded.

1914. मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ।

I use mobile a lot.

1915. मैं लैपटॉप बहुत चलाता हूँ।

I work on laptop a lot.

1916. मैं बाइक बहुत चलाता हूँ ।

I ride the bike a lot.

1917. मैंने जूते उतारे ।

I took off the shoes.

1918. बाढ़ ने तबाही मचा दी।

The flood created havoc.

1921. उन्होंने वहाँ तबाही मचा दी।

They created havoc there.

1922. पूरे दिन मैं व्यस्त था।

Throughout the day, I was busy.

1923. दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो।

Leave the door ajar.

1924. मैं कठपुतली नहीं हूँ।

I am not a puppet.

1925. ये प्यार नहीं आकर्षण है।

It's not love but infatuation.

1926. वो बहुत गहरी नींद में है।

He is having a sound sleep.

1927. सुमित यहाँ है।

Sumit is here.

1928. सुमित यहीं पर है।

Sumit is very much here.

1929. यह गैरकानूनी काम है ।

This is an illegal act.

1930. बुरी आदतें छोड़ दो ।

Give up bad habits.

1931. क्या तुम तैर सकते हो ?

Can you swim?

1932. इस गिलास को मत तोड़ो ।

Don't break this glass.

1933. वे फूल तोड़ रहे थे ।

They were plucking flowers.

1934. किसी को गाली मत दो ।

Don't abuse anybody.

1935. आप मेरे गवाह हैं ।

You are my witness.

1936. यह कानून के विरुद्ध है ।

It's against the law.

1937. क्या ये फूल मुरझाते नहीं?

Do these flowers not fade?

1938. आप जूते पॉलिश करते हो न?

You polish shoes, right?

1939. आपकी मेहरबानी है ।

So kind of you.

1940. बहुत खुशी से !

With great pleasure!

1941. मुझे गलत न समझें ।

Don't take me wrong.

1942. मैं बहुत आभारी हूँ ।

I am highly obliged.

1943. उसकी आत्मा को शांति मिले !

May his soul rest in peace!

1944. मैं रोज़ एक सेब खाता हूँ ।

I eat an apple daily.

1945. कौन नहीं जाता है?

Who doesn't go?

1946. कौन कौन नहीं जाते हैं?

Who all don't go?

1947. राम कभी नहीं खेलता ।

Ram never plays.

1948. वह मेरे साथ पढ़ता था ।

He was my class-fellow

1949. कृपया एक गिलास पानी लायें ।

Please bring a glass of water.

1950. कोई आपको बुला रहा है ।

Somebody is calling you.

1951. आप बहुत देर लगा रहे हैं ।

You are taking too long.

1952. आप कहाँ काम करते हैं ?

Where do you work?

1953. खुशी तो मुझे हुई है ।

Pleasure is all mine.

1954. सारी गलती आपकी है।

It's all your fault.

1955. नल बंद कर दो ।

Turn the tap off.

1956. नल खोल दो ।

Turn the tap on.

1957. लैम्प बुझा दो ।

Put out the lamp.

1958. लैम्प जला दो ।

Light the lamp.

1959. गंभीर बनो।

Be serious.

1960. ज़रूर!

Certainly!

1961. इसे साफ़ करो।

Clean it.

1962. चाहे जो हो!

Come what may! /

No matter what!

1963. कोई बात नहीं।

It's all right.

1964. शरारती मत बनो।

Don't be naughty.

1965. यह बहुत दूर है।

It's quite far.

1966. तुरन्त जाओ।

Go at once. /

Go right away

1967. दूर जाओ।

Go away.

1968. सीधे जाना।

Go Straight.

1969. कोई बात नहीं।

No problem.

1970. कभी नहीं।

Not at all.

1971. और कुछ नहीं।

Nothing else.

1972. कोई खास बात नहीं।

Nothing special.

1973. भरोसा रखें।

Rest Assured.

1974. फिर मिलेंगे।

See you again. /

Meet you again.

1975. कल मिलेंगे।

See you tomorrow.

1976. दूर ले जाओ।

Take away.

1977. भगवान का शुक्र है!

Thank God!

1978. सम्मान देने के लिये धन्यवाद।

Thanks for the honour.

1979. ये बहुत है।

This is much.

1980. ये बहुत ज्यादा है।

This is too much.

1981. बाहर इंतज़ार करो।

Wait outside please.

1982. बच्चे कैरम खेलते हैं।

Children play carrom.

1983. क्या तुम उसे पहचानते हो?

Do you recognize him ?

1984. तुम कैसे जाओगे?

How will you go?

1985. हम टैक्सी कर लेंगे।

We will hire a taxi.

1986. क्या बात है?

What is the matter?

1987. तैयार हो जाओ।

Get ready/Be ready.

1988. तुम कब फ्री हो जाओगे?

When will you become free?

1989. अभी मैं व्यस्त हूँ।

I'm busy at the moment.

1990. कहीं नज़र न लगे।

Touch wood!

1991. मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है।

I have recommended you.

1992. कुत्ते ने उसे फिर काट लिया है।

Dog has bitten him again.

1993. क्या दूल्हा डॉक्टर है?

Is the Groom a doctor?

1994. वो मेरा बहुत करीबी है।

He is very close to me.

1995. मेरी बात सुनो ।

Listen to me.

1996. बच्चों को तंग मत करो ।

Don't tease the children.

1997. कितना बदल गया तू !

How changed you are!

1998. मुझे त्योहार पसंद है।

I love festivals.

1999. बारात अभी नहीं आई है।

Baraat hasn't come yet.

2000. पागल हो गया है क्या तू?

Are you mad or what?

MODULE - 21

2001. ध्यान से सुनो ।

Listen carefully.

2002. फर्श साफ करो ।

Clean the floor.

2003. अपनी कमीज़ उतार दो ।

Take off your shirt.

2004. स्कूल का प्रोग्राम खत्म हो चुका है।

School function is over.

2005. अपनी कमीज़ पहन लो।

Put on your shirt.

2006. उसे पहले बोलने दो।

Let him speak first.

2007. तुरंत तैयार हो जाओ।

Be ready at once./

Get ready at once.

2008. आगे से ध्यान रखना।

Keep in mind from now.

2009. बहुत देर हो गई है।

It's very late.

2010. अपने दांत साफ करो।

Clean your teeth.

2011. क्या आपके होश ठिकाने हैं ?

Are you in your senses?

2012. यह एक ज़रूरत बन गयी है।

It has become a necessity.

2013. वो अजीब था।

He was awkward.

2014. यह कैसे काम करता है?

How does it work?

2015. उसे अपने आप सीखना होगा।

He'll have to learn himself.

2016. अक्टूबर त्योहारों का महीना है।

October is a month of festivals.

2017. और कुछ है आपके पास?

Anything else do you've?

2018. सावधान रहो।

Be careful / Be cautious.

2019. वह फिसल कर गिर गया।

He slipped and fell down.

2020. वह कुँए में फिसल कर गिर गया।

He slipped and fell into the well.

2021. जुबान फिसल गई।

It was a slip of tongue.

2022. मम्मी घर पर हैं।

Mom is at home.

2023. मम्मी घर पर ही हैं। (ज़ोर देते हुए)

Mom is very much at home.

2024. वो ठंड से काँप रहा था।

He was shivering with cold.

2025. मैं क्लास में सैकन्ड आता हूँ।

I stand second in class.

2026. मैं वो हूँ जो आपके साथ था।

I am the one, who was with you.

2027. राहुल वो है जो मेरे साथ था।

Rahul is the one who was with me.

2028. मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ।

I am giving a bath to my son.

2029. मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया।

I hurt you unknowingly.

2030. आपने जानबुझ कर मेरा दिल दुखाया।

You knowingly hurt me.

2031. रसोई से एक गिलास ले के आओ।

Bring a glass from the kitchen.

2032. ऊपर के रूम से बोतल ले के आओ।

Bring the bottle from the room upstairs.

2033. मेरा मन हो रहा है कि मैं खाना खा लूँ।

I am feeling like eating the food.

2034. मेरा मन हो रहा है की मैं नहा लूँ ।

I am feeling like taking a bath.

2035. वो तो अपनी पब्लिसिटी करेगा ही ।

He will obviously do his publicity.

2036. मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ ।

I fumble while speaking English.

2037. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ।

I am not involved in this.

2038. मैं रोज़ इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूँ ।

I try to learn English every day.

2039. सीमा बच्चे को खिला (प्ले) रही थी ।

Seema was making the kid play.

2040. ऐसा राहुल के साथ ही क्यों होता है?

Why does it happen only with Rahul?

2041. तुमने ये कहाँ से उठाई थी?

Where had you picked it from?

2042. मुझसे गोलमोल बातें मत करो।

Don't talk clever with me.

2043. वो मुझे घर की दहलीज़ पार नहीं करने देगा।

He will not let me enter the threshold of the house.

2044. सूर्य नमस्कार कर लो और पानी दे दो।

Greet the Sun and offer the water.

2045. चार्जर को प्लग में लगा दो ।

Plug the charger please.

2046. मुझे 5 रुपये वाली टॉफी देदो ।

Please give me the toffee of Rs. 5 each.

2047. काश मै वहाँ होता।

I wish, I were there.

2048. ये मैं ही हूँ।

This is really me.

2049. क्या वह मैं ही हूँ?

Is that really me?

2050. उसने ही तो ये कहा था।

It was he, who had said it.

2051. राम ही तो यहाँ आया था।

It was Ram, who had come here.

2052. उसने मुझे मारा था वो भी लाठी से।

He had beaten me, that too with a stick.

2053. ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं ?

Where can we go in this situation?

2054. हमने आज बाहर डिनर किया।

We took the dinner outside today.

2055. तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए।

You should confess your fault.

2056. मैं नहा रहा हूँ।

I am taking a bath. / I am taking a shower. /

I am bathing.

2057. मैं अपने बेटे को नहला रहा हूँ। (अपने हाथ से)

I am giving a bath to my son.

2058. मैंने अपने बेटे को नहला रहा हूँ। (वो खुद नहा रहा है)

I am making my son take a bath.

2059. मैं अपने कुत्ते को नहला रहा हूँ। (अपने हाथ से)

I am giving a bath to my dog.

2060. मैं पढ़ रहा हूँ।

I am studying / reading.

2061. मैं पढ़ा रहा हूँ।

I am teaching.

2062. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ।

I am teaching you English. /

I am making you learn English.

2063. मैं उसे सुला रहा हूँ।

I am making him to sleep.

I am putting him to sleep.

2064. मैं हँस रहा हूँ।

I am laughing.

2065. मैं मुस्कुरा रहा हूँ।

I am smiling.

2066. मैं आपको हँसा रहा हूँ।

I am making you laugh.

2067. मेरी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं।

I am making you smile.

2068. मैं समझ रहा हूँ।

I can understand.

2069. मैं आपको समझा रहा हूँ।

I making you understand.

2070. राम मुझे समझा रहा है।

Ram is making me understand.

2071. हम उन्हें समझा रहे हैं।

We are making them understand.

2072. वो रो रहा है।

He is weeping.

2072. वो मुझे रुला रहा है।

He is making me weep.

2073. वो भावुक हो रहा है।

He is being/getting emotional.

2074. वो मुझे भावुक कर रहा है।

He is making me emotional.

2075. मैं आपको खुश कर रहा हूँ।

I am making you happy.

2076. मैंने आपको खुश किया।

I made you happy.

2077. मैंने तुम्हें दुखी किया।

I made you sad.

2078. आप मुझे दुखी कर रहे हैं।

You are making me sad.

2079. मैं खुश हो गया।

I got happy.

2080. मैं खुश हो रहा हूँ।

I am getting happy.

2081. मैं दुखी हो गया।

I got sad.

2082. मैं दुखी हो रहा हूँ।

I am getting sad.

2083. मैं उसे खिला रहा हूँ।

I am making him eat.

2084. मैं आपको (अपने हाथों से) खिला रहा हूँ।

I am feeding him.

2085. मैं अपनी गाय को खिला रहा हूँ।

I am feeding my cow. / I am serving my cow.

2086. मैं सभी को खिला रहा हूँ।

I am serving all.

2087. मैं सभी को खाना दे रहा हूँ।

I am serving the food to all.

2088. मैं सभी को खाना खिलवा रहा हूँ।

I am getting the food served to all.

2089. मैं शर्ट पहन रहा हूँ।

I am wearing the shirt. /

I am putting the shirt on.

2090. मैं उसे शर्ट पहना रहा हूँ।

I am making him wear the shirt.

2091. मैं अपने छोटे भाई को शर्ट पहना रहा हूँ।

I am making my younger brother wear the shirt.

2092. मैं सीख रहा हूँ।

I am learning.

2093. मैं तुम्हें सीखा रहा हूँ।

I am making you learn.

2094. गिलास को उल्टा कर दो।

Turn the glass upside down.

2095. मैंने किताब को उल्टा कर दिया।

I turned the book upside down.

2096. मैंने गिलास को उल्टा रख दिया।

I put / kept the glass upside down.

2097. मैंने किताब को उल्टा रख दिया।

I put/ kept the book upside down.

2098. गिलास को सीधा कर दो।

Turn the glass right side up.

2099. किताब को सीधा कर दो।

Turn the book right side up.

2100. तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है।

You have held the book upside down.

MODULE - 22

2101. आपने गिलास को उल्टा पकड़ रखा है।

You have held the glass upside down.

2102. आपने कप उल्टा पकड़ रखा है।

You have held the cup upside down.

2103. आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं।

Your slippers are lying upside down.

2104. अपनी चप्पलें सीधी कर लो।

Turn your slippers right side up.

2105. मैंने शर्ट उल्टी पहन ली।

I put on the shirt inside out.

2106. शर्ट को सीधा कर लो।

Turn the shirt right side out.

2107. उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया।

He took me otherwise / wrong.

2108. उल्टा मैंने तो वहाँ बहुत मजा किया।

I rather enjoyed myself there.

2109. उल्टा वो मुझे डाँटने लगे।

He rather started scolding me.

2110. उल्टा घूमो।

Please turn opposite.

2111. उसने मेरे कहे का उल्टा किया।

He did opposite of what I said.

2112. वो उल्टा लेटा हुआ है।

He is lying upside down.

2113. मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नम्बर ला पाऊँ।

I used to study a lot so as to score good marks. /

I used to study a lot in order to score good marks. /

I used to study a lot so that I could score good marks.

2114. उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दूँ।

He supported me so as to receive my support too. /

He supported me so that I support him too.

2115. उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा।

He manipulated my words and conveyed to you.

2116. आपने अपनी कमाई और खर्चों को हेरफेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है।

You have manipulated your income and expenditure to show your performance better.

2117. ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है।

This is not a conducive environment for your child.

2118. रोज़ एक्सरसाइज़ करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है।

To exercise everyday is conducive for our mind & body.

2119. आपका स्वभाव और व्यवहार काफी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है।

Your nature and behavior largely depend on your upbringing.

2120. उनका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है।

Their upbringing takes place in adverse circumstances, that's what makes them strong.

2121. भूल के भी कम्पनी के नियमों को मत तोड़ना।

Don't dare to breach company's rules.

2122. बच्चों को आसपास खेलते देखना टेंशन कम कर देता है।

Seeing the kids playing around lessens one's tension.

2122. उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया।

He changed his adversity into prosperity with his hard work.

2123. वो एक आशावादी इन्सान है। उसकी सोच पॉज़िटिव है।

He is an optimistic person. His has a positive thinking.

2124. मैं अपने अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूँ।

I am optimistic to have a bright future.

2125. उस अपराधी के छूट जाने से हर कोई हैरान था।

Everyone was shocked with that criminal's acquittal.

2126. एक निर्दोष व्यक्ति का सजा से बच निकलना अच्छी खबर है।

Acquittal of an innocent person is good news.

2127. जब आप बाहर निकलते हैं, तब आपको दुनियादारी का पता लगता है।

When you go out, you get to know about life.

2128. ये कपडे निकालकर मैंने अपना बैग हल्का कर दिया है।

I've lightened my bag by taking these clothes out.

2129. इस बल्ब से उसने अपने कमरे में उजाला कर दिया।

He lightened his room with this bulb.

2130. तुम्हारा सपोर्ट उसे बुरे दौर में मजबूत बनाता है।

Your support strengthens him in adverse situations.

2131. अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है।

Prosperity gains friends and adversity tries them.

2132. समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रोपर्टी।

Prosperity means to have money and property.

2133. वो एक निराशावादी इन्सान है। उसकी सोच नैगेटिव है।

He is a pessimistic person. He has a negative thinking.

2134. ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था ।

This house had been acquired by the government in 2002.

2135. मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इन्तजार कर रहा हूँ।

I am looking forward to meeting you.

2136. आप इस प्रोपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं।

You can look forward to buying this property.

2137. माना, आपके पास पैसे न हों। अब आप क्या करोगे?

For instance, you have no money. What would you do now?

2138. माना, वहाँ कोई न हो, ऐसे में आप डर जाओगे।

For instance, there is no one. You'd be scared then.

2139. जब आप बाहर निकलते हैं, तब आपको दुनियादारी का पता लगता है।

When you go out, you come to know about life. /

When you go out, you get to know about life.

2140. मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ। जिसकी वजह से, मुझमें अच्छा स्टेमिना है।

I go for running every day. As a corollary to that, I have good stamina. /

I go for running every day. Due to which, I have good stamina.

I go for running every day. As a result, I have good stamina.

2141. वो अच्छी पढाई करता है। इसीलिए, उसने पहली ही बार में इग्जैम पास कर लिया।

He studies well. As a corollary to that, he passed the exam in first attempt.

He studies well. Due to which, he passed the exam in first attempt.

He studies well. As a result, he passed the exam in first attempt.

2142. इस वसीयत के अनुसार, इस पैतृक सम्पत्ति पर आपका कानूनी हक है।

As per this will, you have legal rights on this ancestral property.

2143. आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

Thank you so much for your incredible support.

2144. मेरे नज़रिये में इस प्रोपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे।

In my perspective, the rate of this property will increase quickly.

2145. चीजों को देखने का आपका नज़रिया/दृष्टिकोण आस पास के महौल पर निर्भर करता है।

Your perspective to see things depends on your surroundings.

2146. मैं इस पैन के लिए केवल Rs. 50 की बोली लगा सकता हूँ। इससे ज्यादा नहीं!

I can only bid Rs. 50 for this pen. No higher than this!

2147. यूनियन ने हड़ताल के माध्यम से कम्पनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी।

The union threatened to retaliate the company's decision by calling a strike.

2148. मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमीटी बनाई गयी।

A committee was formed in the wake of the match fixing.

2149. मजदूरों के हितों को मद्देनज़र रखते हुए PM ने ये फैसला लिया।

The PM made this decision in the wake of workers' welfare.

2150. उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है।

His ambition is to eradicate poverty.

2151. केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आँकलन कर सकता है।

Only an expert can assess your talent.

2152. गन्दगी वाली जगहों में पानी पीना जोखिम भरा है।

To drink water at non hygienic places is a health hazard.

2153. ज़रूरत से ज्यादा इसका प्रयोग वातावरण के लिए ठीक नहीं है।

Its excessive use is an environmental hazard.

2154. तुम्हारे प्रति उसके प्यार की सच्चाई पर हम शक नहीं कर सकते।

We can't doubt the veracity of his feelings for you.

2155. आपने जो आरोप लगाये हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, साबित करो।

Prove the veracity of your allegations.

2156. पहले ये पक्का कर लो कि कोई आसपास तो नहीं है!

First you ensure that no one is around.

2157. मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि मुझे रोज़ क्लास में उपस्थित रहना है।

I will ensure to attend the class every day.

2158. उसके बालों का स्टाईल अक्सर बहुत खूबसूरत होता है।

Her hair style is often very elegant.

2159. मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूँ।

I can astound every one with my talent.

2160. अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया।

His sudden appearance in dark astounded me badly.

2162. बुलडोज़र ने 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया।

The bulldozer demolished the whole building within an hour.

2163. नयी फैक्ट्री बनाने के लिए उसकी पुरानी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया।

His old factory was demolished so as to build a new one.

2164. आपके खिलाफ हो रहे षड़यंत्र को उन्होंने उजागर किया।

They unearthed the conspiracy against you.

2165. 1998 में लिखा गया एक लैटर इस फाइल से निकाला गया।

A letter, written in 1998 was unearthed from this file.

2166. केवल हमारा शरीर खत्म होता है. आत्मा अमर है।

Only our body dies. Soul is immortal.

2167. सब कुछ समय के साथ खत्म हो जायेगा। कुछ भी अमर नहीं है।

Everything will perish with time. Nothing is immortal.

2168. उसने अपने अच्छे कर्मों से अपनी छवि को बढ़ाया।

He cultivated his image with his good deeds.

2169. इस टॉपिक को उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है।

This topic has been covered in that video extensively.

2170. इस गांव में आलू की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है।

Potato is cultivated extensively in this village.

2171. मैंने उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट महसूस की।

I felt some anxiety in her voice.

2172. जितना मैं ऐवरेस्ट के पास पहुंचा, मेरी घबराहट बढ़ती गयी।

As I reached closer to the Everest, my anxiety increased.

2173. उसे सताया गया ताकि वो उकसे और कोई गलती कर बैठे।

He was persecuted so as to provoke him and make him commit a mistake.

2174. जानवर तब तक नहीं मारते जब तक उन्हें उकसाया न जाये।

The animals don't attack unless provoked.

2175. भूकंप ने खिड़कियों को हिला कर रख दिया।

The earthquake caused the windows to rattle.

2176. गुस्से में होने पर उसने बंद दरवाजे को खड़खड़ करना शुरू कर दिया।

Being angry, he started rattling the locked door.

2177. आपको फैसला लेते वक़्त निष्पक्ष होना ज़रूरी है।

You must be impartial while making a decision.

2178. ये निष्पक्ष रवैया नहीं है, आपने उसे 100 रूपए दिए, और मुझे केवल 10 रूपए।

This is not an impartial treatment. You gave him Rs. 100, and to me just Rs.10.

2179. इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और वो पूरे दिन रही।

Its fragrance was very pleasant and lasted all day.

2180. इस पेड़ के होने से हमेशा खुशबू बनी रहती है।

The presence of this tree guarantees sweet fragrance all the time.

2181. कंपनी शुरूआत से ही आगे बढ़ने के लिए प्रयास किये जा रही है।

The company has been striving to grow since its inception.

2182. मैं हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ।

I always strive to do something better.

2183. मैं चिकनी मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूँ। लोग मुझे कुम्हार कहते हैं।

I make clay sculptures. People call me potter.

2184. मूर्तियों को आम तौर पर लकड़ी, प्लास्टिक, चिकनी मिट्टी या किसी धातु से बनाया जाता है।

Sculptures are generally made of wood, plastic, clay or some metal.

2185. एक प्रेरणा देने वाला भाषण किसी की भी निराशा को उम्मीद में बदल सकता है।

A motivational speech can turn one's despair into hope.

2186. उसकी आवाज़ में निराशा थी, शायद इसलिए की वो एग्जाम में फेल हो गया ।

His voice had a feeling of despair, maybe because he failed the exam.

2187. उसने मुझे वहाँ से निकल जाने का इशारा किया ।

He gestured to me for going from there.

2188. ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे बीच कितना प्यार है ।

It gestures how we love each other.

2189. मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ । शायद मैंने उसके साथ गलत किया ।

I felt a pang of guilt. I think I did wrong to him.

2190. माता पिता से अलग रहना अकेलेपन का अहसास दिलाता है ।

Being away from parents produces a pang of loneliness.

2191. चकाचौंध कर देने वाली लाइट ऐसा कर देती है कि थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता नहीं है ।

A dazzling light makes one's eyes unable to see for a while.

2192. उसकी मुस्कुराहट गज़ब की थी और उसकी पर्सनेलिटी भी ।

He had a dazzling smile and a superb personality as well.

2193. राजा ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया ।

The king persecuted the innocent people.

2194. सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था बजाय आगे बढ़ने के ।

The road was totally covered with snow, but we had no option but to trudge through it.

2195. मैंने अपने बेटे को डांटा । उसने गुस्सा दिखाया और रूम से बाहर चला गया ।

I scolded my son. He pretended to be angry and trudged out of the room.

2196. इंटरनेट पर उसके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किये जाने के केस की पुलिस जांच कर रही है।

The police are investigating the case of a fraudulent use of his credit card on internet.

2197. वो अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया और कहा "चिंता मत करो मैं ठीक हूँ।

He gave his wife a smirk and said "Don't worry, I'm fine."

2198. उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कराहट थी मानो वो मुझे नीचा दिखा रहा हो ।

There was a smirk on his face, as if he was looking down on me.

2199. दूसरों की बात को केवल सुन कर के किसी को बदनाम मत करिए।

Don't calumniate anyone just by listening to what others say.

2200. जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी खुद की छवि खराब हो जाती है।

When you calumniate others, your own image gets spoiled /deteriorated by itself.

MODULE - 23

2201. मुझे यकीन है कि सीबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन से दोषी का पता चल जाएगा ।

I am sure, that the exhaustive investigation of CBI will reveal the identity of the culprit.

2202. ये पूरी लिस्ट नहीं है, कुछ और नाम अभी आने बाकी हैं।

It's not the exhaustive list; few more names are yet to be announced.

2203. क्या आप इस किताब में कोई गलती निकाल सकते हैं।

Can you spot any flaw in this book?

2204. अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, तो आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।

You can have immense improvement in English if you work hard consistently.

2205. वह नदी के विस्तार को ध्यान से देख रही थी

She was gazing at the immense expanse of the river

2206. उसने मेरे डांस को दयनीय कह कर मेरा मजाक उड़ाया।

He derided my dancing as pathetic.

2207. मेरी जिंदगी दयनीय हो चुकी होती, अगर आप मेरे साथ न होते।

My life would have been pathetic, if you hadn't been with me.

2208. वह मेरे मन में दबी हुए भावनाओं को कभी समझ नहीं सका।

He could never understand my pent-up emotions.

2209. मेरे मन में एक दबी हुई इच्छा है कि मैं अपने माता-पिता को दुनिया की सैर कराऊँ।

I have a pent-up desire to make my parents visit the world.

2210. इंग्लिश वर्णमाला में Y आखिर से ठीक पहले आने वाला अक्षर है।

Y is the penultimate letter in English alphabet.

2211. हफ्ते के 7 दिनों में आखिर से ठीक पहले आने वाला दिन शनिवार है।

Saturday is the penultimate day of the week.

2212. ये सॉफ्टवेअर मेरे मोबाईल के अनुरूप नहीं है।

This software is not compatible to my mobile.

2213. दूध फट गया है, अब खीर कैसे बनाऊँ?

The milk has turned sour, how to make rice pudding now?

2214. जब आप हारते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं, बजाय जीतने के।

You tend to learn more when you lose than when you win.

2215. जब आप बूढ़े हो जाते हैं, तो आप कम सोते हैं।

When you become old, you tend to sleep less.

2216. तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा

You had told me to always stand by me.

2217. क्या अभी तक तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गये हो?

Have you not taken him to a doctor yet?

2218. घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गयी।

No sooner had I left home, than it started raining.

2219. हमें खुशी है कि आज हम इतने लोगों तक पहुँच चुके हैं।

We are happy to reach these many people now.

2220. राम काफी देर ठहरने के लिए मेरे घर आया।

Ram came to my home to stay for a long.

2221. ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती हैं।

Such incidents sadden me.

2222. हमें एक दूसरे का साथ भाता नहीं है।

We are not compatible to each other. / We are not meant for each other.

2223. पैसे के पीछे मत भागो। पैसा आपके पीछे भागेगा।

Don't run after money. Money will run after you.

2224. मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा।

I expect temperature to approach 100 degrees today.

2225. इस मीटिंग को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है।

This meeting has been postponed for a month.

2226. उसे अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी।

He had to postpone his marriage.

2227. हमारे बॉस ने कल एक मीटिंग बुलायी थी।

Our boss had convened a meeting yesterday.

2228. इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गयी।

A party was convened on this occasion.

2229. तुम्हें डाँटा जाता है।

You are scolded.

2230. हमें पीटा जा रहा था।

We were being beaten.

2231. मुझे एक किताब दी जायेगी।

I will be given a book.

2232. इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है।

Only one person is selected for this prize.

2233. मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है।

I have been told about you.

2234. भारत को शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है।

India is known as a peaceful nation.

2235. क्या उसे भेजा गया?

Was he sent?

2236. तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है।

A special food is being prepared for you.

2237. उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया।

They were treated badly.

2238. उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था।

He was known as a great warrior.

2239. ये लिखा जा चुका है।

It has been written.

2240. क्या उसे प्यार किया जाता है?

Is he loved?

2241. फिल्म के मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है।

The movie has been declared a mega hit.

2242. गैंग के मुखिया को 2 बजे मार्केट में देखा गया है।

The chief of the gang has been seen in market at 2.

2243. क्या उन्हें इस शरारत के लिए डाँटा गया?

Were they scolded for this mischief?

2244. दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है।

Both the culprits have been identified.

2245. चाय हर सुबह पी जाती है।

Tea is taken every morning.

2246. उसे किसके साथ भेजा गया?

Whom was he sent with?

2247. उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता?

Why is he not asked about the murder?

2248. 4 टिकटें बुक कर ली गयी हैं।

4 Tickets have been booked.

2249. किस्मत से मुझे वहाँ भेजा गया और तुमसे मिला

Fortunately, I was sent there and I met you.

2250. मुझे एक अध्यापक के रूप में जाना जाता है।

I am known as a teacher.

2251. बच्चों को बाहर भेजा गया।

Children were sent outside.

2252. मुझे इसके बारे में सूचित नहीं किया गया।

I was not informed about this.

2253. किताबें छापी जा रही हैं।

Books are being printed.

2254. इस जगह से कुछ कुर्सियाँ हटाई गई हैं।

Few chairs have been moved from this place.

2255. इस इलाके में कारें नहीं चलाई जाती।

Cars are not driven in this area.

2256. उसे कब तक नहीं पूछा गया?

Until when was he not asked?

2257. हर जगह मिठाइयां बाँटी जा रही हैं।

Sweets are being distributed everywhere.

2258. वहाँ एक बिल्डिंग बनाई जा चुकी है।

A building has been constructed there.

2259. वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया।

He was caught by the police.

2260. प्याज़ और आलू काफी अधिक मात्रा में काटे गये

Onions and potatoes were cut in huge quantity.

2261. अपराधियों को ढूँढा जा रहा है।

The criminals are being tracked.

2262. उसे गोली से मार दिया गया।

He was shot dead.

2263. बारिश के कारण मीटिंग रद्द कर दी गयी।

Meeting was cancelled due to rain.

2264. घड़ी ठीक कराई गयी।

The watch was repaired.

2265. हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है।

We have not been given anything as such.

2266. हमें वहाँ फालतू में क्यों भेजा जाता है?

Why are we unnecessarily sent there?

2267. मुझे कहीं भेजा गया।

I was sent somewhere.

2268. क्या तुम्हें बताया गया है कि हम कहाँ हैं?

Have you been told where we are?

2269. पैन उठा लिया गया है।

The pen has been picked.

2270. उसे यह क्यों दिया गया?

Why was he given this?

2271. हमें क्या बताया गया?

What were we told?

2272. उन्हें कहाँ भेजा गया था?

Where had they been sent?

2273. उसे घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

He was dragged to police station.

2274. हमें 5वीं क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गयी।

We were not taught English up to 5th class.

2275. इस साल केवल कुछ विद्यार्थियों को लैपटॉप दिये गये।

Only a few students were given laptops this year. 2276. उसे पूछा जाना चाहिए था।

He should have been asked.

2277. हमें भेजा जाना है।

We have to be sent.

2278. 25 प्रतिशत सीटें गरीब स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित हैं।

25% seats are reserved for poor students.

2279. इंसान को स्वर्ग भेजा जाता है अगर वो अच्छे कर्म करे।

Human is sent to heaven if he does good deeds.

2280. तुम्हें बुलाया जाना था पर नहीं बुलाया जा सका।

You had to be called but couldn't be.

2281. ये काम हो जाना चाहिए था।

This work should have been done.

2282. मम्मी को पूछा जाता था।

Mom used to be asked.

2283. क्या राम को किताब दी जा सकती है?

Can Ram be given the book?

2284. उसे क्या दिया गया?

What was he given?

2285. राम को किसके साथ भेजा जाना चाहिए?

With whom should Ram be sent?

2286. मोबाइल का प्रयोग क्यों होना चाहिए?

Why should mobile be used?

2287. हमें क्या पढ़ाया जाता था?

What were we taught?

2288. मुझे मोबाइल दिया जा सकता है।

I can be given a mobile.

2289. अगला प्रश्न क्या होना चाहिए?

What should be the next question?

2290. तुम्हें सजा मिलनी चाहिए।

You must be punished.

2292. हमें खर्च के लिए मिलने चाहिए।

We should be given pocket money.

2293. हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी है।

Our salary is to be increased.

2294. उससे पूछा जाना था।

He had to be asked.

2295. होमवर्क ज़रूर करना चाहिए।

Homework must be done.

2296. सारे प्रश्न हल किये जा सकते हैं।

All the questions can be solved.

2297. मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए।

No one should be sent with me.

2298. उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए।

Where should he be sent?

2299. उसका नाम कुछ देर बाद पुकारा जाना है।

His name is to be called after a while

2300. यहाँ पर पैन से लिखा जाना है।

Pen is to be used here.

MODULE - 24

2301. तुम्हें ये नहीं दिया जाना।

It's not be given to you.

2302. ये पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि यह खारा है।

This water is not drinkable as it is saline.

2303. मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता।

I am not let study.

2304. एक विद्यार्थी को उसके सहपाठी द्वारा प्रताड़ित किया गया।

A student was tortured by his classmate.

2305. दीवाली खुशी से मनाई गई।

Diwali was celebrated with joy.

2306. क्या तुम्हें तुम्हारी लापरवाही के लिए दंड दिया जाएगा?

Will you be punished for your negligence?

2307. हमें कहीं और भेजा जा रहा है।

We are being sent somewhere else.

2308. वो मुझसे लिखवाता है।

He makes me write.

2309. वो मुझे भिजवाता है।

He makes me go.

2310. वो मुझसे काम करवाती है।

She makes me work.

2311. वो मुझसे पत्र लिखवाती है।

She makes me write letters. /

She gets the letters written by me.

2312. वो मुझे भिजवा रही है।

She is making me go.

2313. वह मुझे बेवकूफ बना रही है।

She is making me fool.

2314. उसने मुझे समझाया।

She made me understand.

2315. मैं तुमसे काम करवाऊँगा।

I will make you work.

I'll get the work done by you.

2316. तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो।

You are making me fight him. /

You are making me have a quarrel with him.

2317. बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं।

Kids are making me fool.

2318. तुम हमें हँसाते थे।

You made us laugh.

2319. मैं तुम्हें जाने दे सकता था।

I could have let you go.

2320. राम ये किसी से भी करवा सकता है।

Ram can get it done by anyone. /

Ram can make anyone do it.

2321. मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ।

I can get you something to eat.

2322. राम मुझे पानी दिला सकता है।

Ram can get me water.

2323. क्या तुम मुझे एग्जाम पास करवा सकते हो?

Can you make me pass the exam? /

Can you get me pass the exam?

2324. मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ।

I can get you pass.

2324. पैसा तुम्हें प्यार नहीं दिला सकता।

Money can't get you love.

2325. तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते।

You can't make everyone happy. /

You can't please everyone.

2326. मैं तुमसे नहीं खरीदवा सकता।

I can't make you purchase.

2327. क्या वो उसे हँसा सका?

Could he make her laugh?

2328. तुम्हें ये करवाना पड़ेगा।

You will have to get it done.

2329. वो मुझे बर्गर खिलाता है।

He gets me Burger.

2330. वो मुझे अच्छा खाना खिलाता है।

He gets me good food.

2331. तुम मुझे अमेरिका कब भिजवाओगे?

When will you make me go America? /

When will you get me go America.

2332. राम हमें पानी पिलवा रहा था।

Ram is getting us water.

2333. उस बच्चे ने हर किसी को हँसाया।

That child made everyone laugh.

2334. तुमने मुझे रुलाया/ रुलवाया है।

You have made me cry.

2335. वो हास्य कलाकार है। वो लोगों को हँसाता है।

He is a comedian. He makes people laugh.

2336. राहुल मुझसे अपना होमवर्क करवायेगा।

Rahul will make me write his homework.

2337. तुम उससे अपना होमवर्क क्यों करवाते हो?

Why do you make him write your homework?

2338. उसने तुमसे किसे कॉल करवाई?

Whom did he make you call?

2339. उसने ये पैन तुम्हें कैसे दिलवाया?

How did he get you this pen?

2340. तुमने मुझे प्यार की कीमत समझायी।

You made me understand the value of love.

2341. तुम राम को उससे नहीं पिटवा सकते।

You can't make him beat Ram.

2342. तुम राम से उसे नहीं पिटवा सकते।

You can't make Ram beat him.

2343. मैं तुम्हें समझा नहीं सकता।

I can't make you understand.

2344. मैंने तुमसे बाल्टी भरवाई।

I made you fill the bucket. /

I got the bucket filled by you.

2345. उसने तुमसे पैसे क्यों खर्च करवाये?

Why did he make you spend the money?

2346. मैं क्या करवाता हूँ?

What do I get done?

2347. मैंने बाल कटवाए।

I got the hair cut.

2348. राहुल यहीं से बाल कटवाता है।

Rahul gets the hair cut from here itself.

2349. क्या तुम बाल कटवाओगे?

Will you get the hair cut?

2350. तुमने बाल कहाँ से कटवाये?

Where did you get the hair cut from?

2351. राम तुमसे ये करवायेगा।

Ram will make you do it. /

Ram will get you do it.

2352. मुझे ये करवाना है।

I have to get it done.

2353. हम राम से गाना गवा सकते हैं।

We can make Ram sing the song.

2355. मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ?

What am I making you understand?

2356. वो मुझसे अपने 2 बैच पढ़वा रहा है।

He is making me teach his 2 batches.

2357. हमने उसे बाहर भिजवाया।

We made him go out.

2358. तुम ये किससे करवाओगे?

Whom will you get this done from?

2359. तुमने मुझसे झूठ बुलवाया।

You made me tell a lie.

2360. राम मुझे रोज़ रुलाता है।

Ram makes me cry every day.

2361. तुम कब तक ये काम खत्म करवा दोगे?

By when will you get this work finished?

2362. क्या तुम मुझे डांस सिखवा सकते हो?

Can you get me learn dance?

2363. तुमने मुझे कम्प्यूटर सिखाया / सिखवाया।

You made me learn computer.

2364. उसने हमें कोक पिलाई/पिलवाई।

He made us drink coke. /

He got us coke.

2365. राहुल ने हमें एक्सरसाइज़ कराई / करवाई।

Rahul made us do the exercise.

2366. तुमने मुझे पिटवाया।

You got me beaten.

2367. राहुल ने उससे मुझे कुछ पैसे दिलवाये।

Rahul got me some money from him. /

Rahul made me get some money from him.

2368. मैं ये काम कैसे करवा सकता हूँ?

How can I get this work done?

2369. हमने उसे भिजवाया पर उसने वहाँ काम नहीं किया।

We made him go but he didn't work there.

2370. लोग जबरदस्ती तुम्हें वहाँ भिजवायेंगे।

People will forcefully make you go there.

2371. वे तुम्हें अमेरिका भिजवायेंगे बशर्ते तुम उन्हें साबित करो कि तुम सबसे अच्छे हो।

They will make you go America provided you prove them to be the best.

2372. बॉबी ने मुझे अच्छा खाना खिलाया, जो उसकी मम्मी ने पकाया था।

**Bobby made me eat the delicious food,
cooked by his mom.**

**2373. मैंने हर किसी को उस होटल में खाना
खिलवाया।**

I made everyone have food in that hotel.

**2374. उसे मुझे अहसास दिलवाना होगा कि वो सबसे
अच्छा है।**

**He will have to make me realize that he is
the best.**

**2375. मेरे पापा ने मुझे महसूस करवाया कि हमें
ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।**

**My father made me realize that we should
help needy people. /**

**My father made me realize that we had to
help needy people. (Indirect Speech
Concept)**

2376. मैं तुमसे गवा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी
आवाज़ सुरीली नहीं है।

**I can't make you sing as your voice is not
fine.**

2377. इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है।

There is something called humanity too.

2378. मेरा कपडा सिकुड़ गया है।

My cloth has shrunk.

2379. मैंने एकबार में 2 गोट डाली कैरम खेल में।

I potted 2 pieces in one go in carrom.

2380. शटर को ऊपर धकेलो।

Push the shutter upwards.

2381. बाल्टी में पानी भर दो नल से।

Fill the bucket with water using the tap.

2382. बात को हँसी में मत उडाओ।

Don't laugh away the matter.

2383. ढक्कन लगा दो ।

Please put the lid back.

2384. शकल पर मत जाओ सीरत पर जाओ ।

Don't judge by face but virtues.

2385. उसकी शकल पर मत जाओ वह मासूम नहीं है।

Don't judge him by his face, he is not innocent.

2386. मेरी हंसी छूट गयी।

I couldn't hold laughing.

2387. मैंने उसे अपनी बाइक पर शहर घुमाया।

I made her visit the city on my bike.

2388. मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ।

I have come here with lots of hope.

2389. आज मैं वहाँ जाने की स्थिति में नहीं हूँ।

I am not in position to go there today.

2390. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

You can't do anything wrong to me.

2391. मेरा एक एक मिनट लाख के बराबर है।

My time is extremely precious.

2392. मेरे हाथ की चमड़ी सिकुड़ गयी है।

The skin of my hands is wrinkled.

2393. उसके चक्कर में मत पड़ो।

Don't rely on him.

2394. मैं उसको पकड़ने के चक्कर में हूँ।

I am planning to catch him.

2395. उसकी गर्दन शरीर से अलग थी।

His head was away off the body.

2396. ये कटी हुई पतंग मैंने लूटी है।

I caught this cut kite.

2397. आपने मुझे बुलाया?

Have you asked for me?/ Have you called me?

2398. वह मुझे पीटने के चक्कर में यहाँ आया।

He came here to beat me.

2399. क्या मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया?

Did I not favour you?

2400. अगर ये फेक निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।

If it is found fake, I will not spare you.

MODULE - 25

2401. हम हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं।

We learn new things every day.

2402. उसकी स्थिति खराब हो रही है।

Her condition is worsening.

2403. वह खिड़की खुलने का इंतजार कर रहा है।

He is waiting for the window to open.

2405. तुम एकदम ठीक बोल रहे हो।

You are absolutely right.

2406. उसने झूठों को सजा दी।

He punished the liars.

2407. आप इसको एक तरफ रखो।

Please keep it aside.

2408. मुझे अक्सर वहाँ जाना होता है।

I have to often go there.

2409. संसार में ज्ञान की कमी नहीं है।

There is no dearth of knowledge in this world.

2410. मैं आपके साथ डांस करना चाहूँगा।

I would like to dance with you.

2411. मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा।

I would like to sit with you.

2415. मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहूँगा।

I would not like to talk to you.

2416. क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे?

Would you like to talk to me?

2417. क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे?

Would you like to meet me?

2418. आप मुझसे कहाँ मिलना चाहेंगे?

Where would you like to meet me?

2419. आप क्या खाना चाहेंगे?

What would you like to eat?

2420. आप क्या करना चाहेंगे?

What would you like to do?

2421. कैसे आना हुआ ?

What brings you here?

2422. मैं जुबान का पक्का हूँ।

I am a person of words. /

I keep my words.

2423. मैं बहुत खर्च करता हूँ।

I am a spendthrift. / I spend a lot.

2424. मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है।

I have financial problem these days.

2425. उसकी एक आँख खराब है।

He is blind of one eye. /

One of his eyes is not working.

2426. ये एक अच्छा बहाना है।

This is a good excuse.

2427. वो बहुत बातूनी है।

She is very talkative./She talks a lot.

2428. तुम मेरे हमनाम हो।

You are my namesake. /

Your name and my name are same

2429. तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे।

You had told me, you will always stand by me.

2430. क्या मैं वजह जान सकता हूँ ?

May I know the reason?

2431. तुमने उसे गलत समझा।

You misunderstood him.

2432. वो सारे दिन खाली था।

He was idle all the time. /

He was free all the time. /

He had nothing to do all the time.

2433. मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है।

My younger brother has his own ways. /

My younger brother does not follow others' advices.

2434. मैं अपने मन की करता हूँ ।

I have my own ways.

2435. मेरे हाथ में दर्द था।

I had a pain in my hand. /

My hand was paining.

2436. क्या इससे कोई फर्क पड़ता है ?

Does it make any difference?

2437. क्या इससे कोई फर्क पड़ता है ?

Does it make any difference?

2438. तुम्हें दिल्ली कैसी लगी ?

How did you find/like Delhi?

2439. मैं शहर से बाहर था।

I was out of station. /

I was not in the city.

2440. मेरे पास कार है।

I have got a car. /

I have a car.

2441. उसके पास कम्प्यूटर है।

He has got a computer. /

He has a computer.

2442. छोड़ न। / बात खत्म करो। / भूल जाओ।

Let it be./ Forget it./ Leave it.

2443. उसकी तबीयत ठीक नहीं है।

He is unwell. /

He is suffering from an ailment.

2444. कल मेरा एक्सीडेंट (दुर्घटना) हो गया ।

I met with an accident yesterday. /

I had an accident yesterday.

2445. तुमने मुझे एक रूपये ज़्यादा दे दिया है।

You have given me a rupee extra.

2446. ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है।

This cloth is of inferior quality. /

The quality of this cloth is inferior.

2447. आसमान बादलों से घिरा हुआ है।

**The sky is full of clouds. / The sky is over
cast. /**

Clouds are all covering the sky.

2448. तुम अपनी उम्र से कम लगते हो।

You look younger than your age.

2449. वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है।

He looks older than his age.

2450. मुझे नींद आ रही है।

I am feeling sleepy. /

My body needs rest.

2451. मुझे भूख लग रही है।

I am feeling appetite.

2452. मुझे बुखार सा लग रहा है।

I am feeling feverish. / I feel as if I have got fever.

2453. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए।

You should be ashamed of yourself.

2454. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ?

How is your study going on? /How is your study?

2455. उसके दिमाग में क्या चल रहा है ?

What is going on in his mind?

2456. वहाँ क्या चल रहा है ?

What is going on there?

2457. क्या वहाँ कुछ चल रहा है ?

Is something going on there?

2458. वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गयी है।

She has got on to my heart and soul.

2459. यह आम रास्ता नहीं है।

This is not a thoroughfare.

2460. ये चर्चा में है।

It is in talk. / Everybody is talking about this.

2461. वो एक कुख्यात व्यक्ति है।

He is a notorious person.

2462. रोड़ रिपेयरिंग की वजह से बन्द है।

The road is closed for repairs.

2463. मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था।

The mobile was with him for repairs.

2464. यह एक अफवाह है।

This is a rumour. /This is in the air.

2465. दोषी कौन है ?

Who is to blame? / Who is guilty? /Who is culprit?

2466. तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे।

**You were shouting at the top of your voice. /
You were shouting so loud.**

2467. ये पैन धड़ल्ले से बिक रहे हैं।

These pens are selling like anything.

2468. क्या तुम सही हो ?

Are you in the right?

2469. क्या तुम दायीं तरफ हो ?

Are you on the right?

2470. क्या तुम गलत हो ?

Are you in the wrong?

2471. क्या तुम बायीं तरफ हो ?

Are you on the left?

2472. क्या तुम होश में हो ?

Are you in your senses?

2473. क्या तुम मुझसे डरते हो ?

Are you scared of me?

2474. मुझे सिरदर्द हो रहा था।

I had a headache./ My head was paining.

2475. मैं एकाद महीने में आ जाऊँगा।

I will come in a month or so.

2476. वे एकाद साल में लन्दन जायेंगे।

They will go London in a year or so.

2477. वो एकाद दिन में आयेंगे।

He will come in a day or so.

2478. मेरा पेट दर्द हो रहा था।

I had a stomachache./ My stomach was paining.

2479. मेरा पैर दर्द हो रहा था।/मेरे पैर में दर्द था।

I had a pain in my leg. / My leg was paining.

2480. अंधेरा हो रहा है।

It is getting dark.

2481. लैम्प में तेल नहीं है।

The lamp has no oil. / There is no oil in the lamp.

2482. हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है।

There is no shortage of food grains in our country.

2483. एक कहावत है, असम्भव कुछ भी नहीं।

There is a saying that 'nothing is impossible'.

2484. इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है ?

Is there a way to get out of this problem?

2485. ये रही आपकी घड़ी।/ये लीजिए आपकी घड़ी

Here is your watch.

2486. ये लीजिए पैसे।/ये रहे पैसे।

Here is the money.

2487. ये लीजिए पैन।

Here is the pen.

2488. लो, टीचर आ गये ।

Here comes the teacher.

2489. लो, रोहित आ गया ।

Here comes Rohit.

2490. लो, रोहित आ गया ।

Here comes Rohit.

2491. लीजिए, आप आ गये।

Here comes you.

2492. ये लो, मैं आ गया ।

Here comes I. / Here I am.

2493. तुम कब से यहाँ हो?

Since when have you been here?

2494. ये मेरे काबू से बाहर है।

This is out of my control/hands.

2495. घर जल रहा है।

The house is on fire.

2496. भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।

God's grace is always with you.

2497. दूसरों की नकल मत करो।

Don't copy others.

2498. पेन्सिल से मत लिखो।

Don't write with a pencil.

2499. आग जली रहने दो।

Keep the fire on.

2500. हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए।

We should give up bad habits.

MODULE - 26

2501. खाना अच्छी तरह चबाओ।

Chew the food well.

2502. नाक साफ करो।

Blow your nose.

2503. कोट के बटन बन्द करो।

Button up the coat.

2504. इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो।

Hold this mobile with both hands.

2505. पूरा दिन मैं राम का इन्तज़ार कर रहा था।

All the while I was waiting for Ram.

2506. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा।

I will come after a while.

2506. लगता है, वो तुम्हारा कोई है।

Looks as, he is someone to you.

2507. लगता है, हमारे अध्यापक आज यहाँ नहीं हैं।

Looks as, our teacher is not here today.

2508. लगता है, तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है आज।

Looks as, you are not well today.

2509. वो हमेशा की तरह मेरे पास आया।

He came to me as usual. / As usual, he came to me.

2510. पापा ने हमेशा की तरह उसे डाँटा और वो घर से चला गया।

As usual, Dad scolded him and he left home.

2511. चाहे जो हो, हम ऐसा नहीं करेंगे।

Come what may, we will not do so.

2512. चाहे जो हो, मैं वहाँ जाऊँगा।

No matter what, I'll go there.

2513. भगवान जाने वो कौन है।

God knows who he is.

2514. भगवान जाने वे कहाँ हैं।

God knows where they are.

2515. भगवान जाने ये किसने बनाया।

God knows who made this.

2516. सर्दियाँ आने वाली हैं।

The winters are round the corner.

2517. गर्मियाँ आने वाली हैं।

The summers are round the corner.

2518. पापा एकाद घंटे में पहुँचने वाले हैं।

Dad is about to reach in an hour or so.

2519. मैं अपना समय काट रहा हूँ।

I am whiling away my time. /

I am passing my time.

2520. तुम कितने साल के हो ?

How old are you? / What is your age?

2521. मैं ये रोज़-रोज़ खाकर थक गया हूँ।

I am tired of eating it daily. /

I am fed up of eating it daily.

2522. मैं तुमसे पक गया हूँ।

I am tired of you. / I am fed up with you.

2523. वो इस समय कानपुर के आसपास होगा ।

He will be hereabouts Kanpur this time.

2524. मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊँगा।

I am sure of success. /

I am sure that I will get success.

2525. ध्यान रखना तुम्हें वहाँ जाना है।

Keep in mind that you have to go there. /

Don't forget that you have to go there.

2526. तुमने मेरी बहुत मदद की है।

You have been a great help to me. /

You have helped me a lot.

2527. हम इस गिफ्ट की अहमियत को नहीं तोल सकते।

We can't assess the value of this gift.

2528. सचिन के अन्दर क्रिकेट की एक अजीब सी ललक है।

Sachin has real flair/interest/taste/passion for cricket.

2529. वो बहुत दूर से आ रहा है।

He is coming from afar.

2530. मैं 18 साल का हो गया हूँ।

I have turned 18.

2531. वो 15 साल का हो गया है।

He has turned 15.

2532. मैंने कदमों की आवाज़ सुनी।

I heard a footfall.

2533. वो सारे दिन बहुत चुप-चुप सा लगा।

He seemed very aloof all the time. /

He seemed very quiet all the time.

2534. मुझे बच्चों का तुतलाना पसन्द है।

I like the lispings of children.

2535. मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया।

I didn't work up to the par. /

I didn't work up to the expectations.

2536. यही किताब तो मैं चाहता हूँ।

This is the very book I want.

2537. वो भाई की मौत की वजह से सदमें में थी।

She was in a shock due to her brother's death.

2538. मुझे ये पहेली सुलझानी है।

I have to unravel this enigma. /

I have to solve this puzzle.

2539. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा।

I will always stand by you. /

I will always be there with you.

2540. क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है ?

Have you seen him lately/recently?

2541. फिलहाल तुम यहाँ इन्तजार करो।

For the time being, you wait here.

2542. फिलहाल मैं तुम्हें ये किताब दे रहा हूँ।

I am giving you this book for the time being.

2543. सुमित आसपास नहीं दिख रहा है।

Sumit is not seen around.

2544. मम्मी आसपास नहीं दिख रही थीं।

Mom was not seen around.

2545. वे आसपास नहीं दिख रहे हैं।

They are not seen around.

2546. चलो टहलते हैं।

Let's stroll. / Let's walk.

2547. ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं ।

These books are of no use to me.

2548. भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़खड़ा रहा है।

India is tottering against Australia.

2549. क्या तुम मुझ पर एक अहसान करोगे ?

Will you do me a favor?

2550. मैंने उसके साथ क्या गलत किया है ?

What wrong have I done to him?

2551. हमारे बीच बातचीत नहीं है।

We are not in speaking terms. /

We don't talk to each other.

2552. हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं ।

We are not in visiting terms.

2553. वहाँ जाना ठीक नहीं है।

It is not worthwhile going there.

2554. तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ।

You should confess your fault.

2555. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा ।

I will not spare you.

2556. सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ।

To be honest, I am very happy.

2557. वो ज़िन्दगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

He is hovering between life and death.

2559. वो बेहोश हो गया है।

He has become unconscious.

2560. तुम्हारी शादी करीब आ रही है।

Your marriage is drawing near.

2561. लॉन्चिंग की तारीख करीब आ रही है।

The launching date is drawing near.

2562. मैंने अपनी शर्त रखी।

I laid my condition. / I put my condition.

2563. मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है।

I am in a dire need of money.

2564. हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए।

We shouldn't abase/debase/defame others.

2565. हमेशा की तरह, यशी मेरी गोद में आयी।

As always, Yashi came to my laps.

2565. मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था।

I was craving to see you.

2566. तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है ?

What's that bulge in your pocket?

2567. समुद्र में वो उभरा हुआ क्या है ?

What's that bulge in the sea?

2568. घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता।

Arrogance can never caress me.

2569. जूस को हल्के-हल्के पियो।

Sip the juice slowly.

2570. बातचीत से करीबी बढ़ती है।

Conversation increases the proximity.

2571. उसे नौकरी से निकाल दिया गया है।

He has been fired/expelled from the job.

2572. सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है।

The vegetable seller is ripping you off.

2573. तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो ?

What are you whispering in his ear?

2574. हम उसकी हरकत पर नज़र रखेंगे।

We will keep a vigil on his activity.

2575. घाव से खून निकल रहा है।

The blood is oozing from the wound.

2576. तुम खाली समय में क्या करते हो ?

What do you do in your leisure time?

2577. तुम ये किताब हमेशा के लिए रख सकते हो ।

You can keep this book for keeps.

2578. कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आयी।

I had a sound sleep last night.

2579. मैं किसी के पीछे भागना पसन्द नहीं करता ।

I don't like to run after anyone.

2580. उसने घाव पर मरहम लगाया ।

He put ointment on the wound.

2581. दहेज़ प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है ।

Dowry system is a malediction for our society.

2582. आतंकवादी हमले सुरक्षा खामियों की वजह से होते हैं ।

Terrorist attacks occur due to the security lapse.

2583. मैं 6 महीने के बाद उसका चेहरा देख पाया ।

I could see his face after a lapse of six months.

2584. मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा ।

I will leave no stone unturned.

2585. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है।

He has been addicted to smoking.

2586. इससे मेरा काम चला जायेगा।

It will serve my purpose.

2586. मैं बिना तैयारी इन्टरव्यू के लिए गया।

I went for the interview off hand.

2587. मैं जीवन के उतार-चढ़ाव से अवगत हूँ।

I am familiar with the heads and tails of life.

2588. हमें आपा नहीं खोना चाहिए।

We shouldn't lose our temper.

2589. वो अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है।

That criminal is still at large.

2590. ये बड़प्पन की बात नहीं।

It is not a matter of kindness

2591. मुझे तो बल्कि खुशी होगी।

It will rather please me.

2592. हमारे पास बहुत समय है।

We have plenty of time.

2593. बस दो मिनट में मैं निकल गया होता।

I would have left just in 2 mins.

2594. यह क्रान्ति ब्लैक मनी का पर्दाफाश कर देगी।

This revolution will unearth the black money.

2594. मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता।

I don't want to delve into your matter.

2595. मेरे कोट को पहन के देखो।

Try my coat on.

2596. मेहमानों की खातिरदारी करो।

Look after the guests.

2597. तुम्हारा काम प्रशंसनीय है।

Your work is praiseworthy.

2598. हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए।

We should not think ourselves to be clever.

2599. मैं अपनी अनुमति देता हूँ।

I give my consent.

2600. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी।

You had to suffer because of me.

MODULE - 27

2601. इस मामले को किसी तरह सुलझाओ।

Settle this matter somehow.

2602. मेरी तरफ से प्लीज़ माफी माँग लेना।

Please apologize on my behalf.

2603. रोड़ दुर्घटना में कई लोग घायल हुए।

Many people got injured in the road mishap.

2604. उसने पूरी किताब पढ़ी।

He went through the whole book.

2605. मैं बिना तैयारी इन्टरव्यू के लिए गया।

I went for the interview off hand.

2606. मैं जीवन के उतार-चढ़ाव से अवगत हूँ।

I am familiar with the heads and tails of life.

2607. हमें आपा नहीं खोना चाहिए।

We shouldn't lose our temper.

2608. वो अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है।

That criminal is still at large.

2609. ये बड़प्पन की बात नहीं ।

It is not a matter of kindness.

2610. मुझे तो बल्कि खुशी होगी।

It will rather please me.

2611. हमारे पास बहुत समय है।

We have plenty of time.

2612. बस दो मिनट में मैं निकल गया होता।

I would have left just in 2 mins.

2613. यह क्रान्ति ब्लैक मनी का पर्दाफाश कर देगी।

This revolution will unearth the black money.

2614. मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता।

I don't want to delve into your matter.

2615. मेरे कोट को पहन के देखो।

Try my coat on.

2616. मेहमानों की खातिरदारी करो।

Look after the guests.

2617. तुम्हारा काम प्रशंसनीय है।

Your work is praiseworthy.

2618. हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए।

We should not think ourselves to be clever.

2619. मैं अपनी अनुमति देता हूँ।

I give my consent.

2620. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी।

You had to suffer because of me.

2621. इस मामले को किसी तरह सुलझाओ।

Settle this matter somehow.

2622. मेरी तरफ से प्लीज़ माफी माँग लेना।

Please apologize on my behalf.

2623. रोड़ दुर्घटना में कई लोग घायल हुए।

Many people got injured in the road mishap.

2624. उसने पूरी किताब पढ़ी।

He went through the whole book.

2625. वो देर से उठता है।

He is a late riser.

2626. वो जल्दी उठता है।

He is an early riser.

2627. मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ।

I go through the newspaper every day.

2628. आग बुझा दो कहीं चारों ओर न फैल जाए।

Put out the fire lest it should spread around.

2629. वो सुबह की ट्रेन से उतरा।

He got off the morning train.

2630. उसने आइ ए एस इग्ज़ैम पास कर लिया।

He got through the IAS exam.

2631. वापिस आते हुए, मैं उसके घर गया।

On the way back I went to his home.

2632. मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ।

I am watering the plants.

2633. हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी।

We saw an awkward thing on the way.

2634. तुम मुझे मेरे जैसे ही लगते हो।

You seem to me just like me.

2635. एक समय की बात है, एक राजा था।

Once upon a time, there was a king.

2636. मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ।

I am supposed to go there today.

2637. मैं हमेशा आपका आभारी/शुक्रगुजार रहूँगा।

I will remain indebted to you.

2638. मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो।

Don't mistake me for a Doctor.

2639. उसने मुझे इंजीनियर समझने की गलती की।

He mistook me for an Engineer.

2640. मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ।

I don't quite agree with you.

2641. ये कपड़े छोटे हो गये हैं।

These clothes are worn out.

2642. यह जानवर विलुप्त हो रहा है।

This animal is being extinct.

2643. ये कमर तोड़ देने वाला काम है।

This is a backpaining work.

2644. मुझे थोड़ा-थोड़ा करके खिलाओ।

Feed me bit by bit.

2645. हमने टॉस किया, हैड आया।

We tossed the coin, it came down heads.

2646. हमने टॉस किया, टेल्स आया।

We tossed the coin, it came down tails.

2647. मेरे पास केवल 3 छुट्टियाँ हैं।

I have only 3 leaves in my credit.

2648. वो मेरी सलाह को नहीं मानता।

He doesn't act on my advice.

2649. प्लीज़ थोड़ा और लीजिए।

Please have a little more.

2650. मैं आपकी सेवा में हाज़िर हूँ।

I am at your service.

2651. तुम्हें हल्के सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए।

You should travel light.

2652. भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता।

Nobody can stand against fate.

2653. तुम गरीबों पर दया नहीं करते।

You don't show pity on the poor.

2654. आज तपतपाती गर्मी है।

It's a blistering heat today.

2655. ध्यान दीजिए।

Please Pay attention

2656. माफ करें आपको कष्ट हुआ।

Sorry to hurt you.

2657. आराम से बैठिए।

Feel at home. / Be comfortable.

2658. आप मुझे बोलने दो। (गुस्से में)

Let me speak.

2659. आपने हम पर बहुत कृपा की।

It's very kind of you.

2660. सोचने के लिए वक्त दीजिए।

Give me some time to think.

2661. आपसे मिलकर खुशी हुई।

Pleasure to meet you.

2662. मुझे मौत से डर नहीं लगता।

I am not afraid of death.

2663. तुम्हें शर्म आनी चाहिए।

You must be ashamed.

2664. तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई !

How dare you do so!

2665. आपके पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ।

You have nothing to lose but a lot to gain.

2666. हमें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए।

We should be ready for its consequences.

2667. मुझे वो लोग पसन्द नहीं जो इग्जैम्स से एक महीने पहले रट लेते हैं।

I don't like those guys who cram at the last month before exams.

2668. डॉक्टर ने उसे ज़िन्दा रखने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ।

Doctor tried a lot to keep him alive but of no avail/use.

2669. सचिन का आऊट होना भारत के लिए एक जबरदस्त झटका है।

Sachin's departure is a terrible blow for India.

2670. वो अपने आप को उससे बात करने से नहीं रोक सकी/पायी।

She couldn't hold herself talking to him. /

She couldn't control herself from talking to him.

2671. वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफी देर से पढ़ रहा हो।

He started studying and made it look as if he had been studying for a long.

2672. कल्पना की शादी की शुभ तिथी 13 अप्रैल 2013 है।

The auspicious date of Kalpana's marriage is 13th of April 2013.

2673. अगर मैं अपने अंकल को अंकल ना कहूँ तो क्या कहूँ?

If I don't call uncle to my uncle, what do I say then?

2674. रक्षा बंधन भाई और बहन का त्योहार है।

Rakshabandhan is a festival of brother & sister.

2675. अगर वो तुम्हें पैसे वापस न दे तो ?

What if he doesn't return you the money?

2676. अगर वो तुमसे बात न करे तो ?

What if he doesn't talk to you?

2677. मुश्किल से 10 रू होंगे मेरे वॉलेट में।

There would hardly be Rs. 10 in my wallet.

2678. मैंने इस साल शायद ही कोई छुट्टी ली है।

I have hardly taken a leave this year.

2679. शिक्षा इन्सान को सभ्य बनाती है।

Education makes one civilized.

2680. होनी को कौन टाल सकता है!

Who can change the destiny!

2681. इससे क्या फर्क पड़ता है!

What difference does it make!

2682. अपने दिल को कैसे समझाऊँ?

How do I convince my heart?

How shall I convince my heart?

2683. तुमने कचरे को जलवाया है ।

You have got the garbage burnt.

2684. काश उसे मेरे दुख का अहसास होता ।

I wish he had the feel of my pain.

2685. आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं?

How many of you go on a morning walk?

2686. पैसा देना आसान है, लेना बहुत मुश्किल ।

It's easy to lend money but very difficult to take back.

2687. मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं हैं ।

I have never had money.

2688. आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना ।

Don't ever call me again.

2689. क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो ?

What if she breaks your heart?

2690. ज़िन्दगी हमें शायद दूसरा मौका न दे।

Maybe, life doesn't give us another chance.

2691. उसने पुलिस को सूचित कर दिया।

He reported to police/ He informed the police.

2692. मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ।

I am an eye witness in this case.

2693. अपराधी को बरी कर दिया गया।

The criminal was acquitted.

The accused was acquitted.

2694. वो भी क्या दिन थे! कसम से!

How beautiful the days were! Really!

2695. आप भी क्या इन्सान हो! सच में!

How great a person you are! Really!

2696. क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो ?

What if he breaks your heart?

2697. अगर वो आपकी बात न माने तो ?

What if he doesn't obey you?

2698. ज़िन्दगी हमें शायद दूसरा मौका न दे।

Maybe, life doesn't give us another chance.

2699. वो मुझे शायद दूसरा मौका न दे।

Maybe, he doesn't give me another chance.

2700. वो मुझे दूसरा मौका न दे तो ?

What if he doesn't give me another chance?

MODULE - 28

2701. कितना बदल गया तू !

How changed you are!

2702. समय कितना बदल गया है !

How changed the time is!

2703. काश तुम मेरे होते।

I wish you were mine.

2704. काश मैं तुम्हारा होता।

I wish I were yours.

2705. पागल हो गया है क्या तू?

Are you mad or what?

2706. ये बिल्डिंग है या फिर...?

Is it a building or what?

2707. ये पैन है या फिर...?

Is it a pen or what?

2708. जो हो रहा है, होने दो।

Let happen, whatever is going on. /

Let nature take its course.

2709. यादें आज भी धुंधली नहीं हुई हैं।

Memories are not yet vanished.

2709. मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार।

I tried a lot but all in vain.

2710. मैंने बहुत पढाई की पर सब बेकार।

I studied a lot but all in vain.

2711. शायद ही किसी ने मुझे ढूँढने की कोशिश की हो।

I don't think if someone tried to look for me.

2712. वो शायद ही कभी मुझसे मिल पाये।

I don't think if he could ever meet me.

2713. मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।

I will leave no stone unturned.

I will not leave any stone unturned.

2714. आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं।

You have put on your slippers wrong sides.

2715. आपकी चप्पलें उल्टी पडी हुई हैं।

Your slippers are lying upside down.

2716. काश मैं घर जा पाता !

I wish I could go home!

2717. काश मैं आपसे मिल पाता !

I wish I could meet you!

2718. मैं ये दिल से करना चाहता हूँ।

I want to do it wholeheartedly.

2719. मैं आपको दिल से पढाना चाहता हूँ।

I want to teach you wholeheartedly.

2720. आज मैं किसी तरह बच गया ।

I somehow escaped today.

2721. मुझे ये 10 रू का पडा ।

It cost me Rs. 10.

2722. हमारे बीच कुछ नहीं है।

There is nothing between us.

2723. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?

What wrong have I done to you?

2724. उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?

What wrong has he done to you?

2725. किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?

What wrong has anyone done to you?

2726. इसमें तुम्हारा क्या बिगडेगा?

What wrong can it cause to you?

2727. वो तो तुम्हारा साथ देगा ही ।

He will obviously support you.

He will obviously help you.

2728. वो तो वहाँ जायेगा ही ।

He will obviously go there.

2729. उसने ही तो ये कहा था।

It was he, who had said it.

2730. राम ही तो यहाँ आया था।

It was Ram, who had come here.

2732. वह फिसल कर गिर गया।

He slipped and fell down.

2733. वह कुँए में फिसल कर गिर गया।

He slipped and fell into the well.

2734. जुबान फिसल गई।

It was a slip of tongue.

2735. तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते।

You can't stand against me.

2736. ये चप्पलें ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी।

These slippers are not going to stay long.

2737. उस पर चोरी का इल्जाम है।

He is accused of theft.

2738. उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम है।

He is accused of stealing money.

2739. ये आपकी मेहरबानी है।

It's very kind of you.

2740. आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति हैं।

You are indeed a generous person.

2741. अपनी घड़ी ठीक करवाओ ।

Get your watch repaired.

2742. वह कपड़े सिलाई कर रही है ।

She is stitching clothes.

2743. ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं ।

These people want to meet you.

2744. उसके सिर में दर्द है ।

He has a headache.

2745. मैं आपका इन्तजार कर रहा हूँ ।

I am waiting for you.

2746. उठ जाइए, सात बज गये हैं।

Please get up, it's 7 o'clock.

2747. यह मकान किराये के लिये खाली है ।

This house is to let.

2748. अब रोगी खतरे से बाहर है ।

Now the patient is out of danger.

2749. ऑपरेशन थिएटर किस ओर है ?

Which way is the operation theatre?

2750. दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं ।

Things are deteriorating day by day.

2751. मुझे अपनी सेहत की चिंता है ।

I am worried about my health.

2752. मेरा सिर चकरा रहा है ।

I am feeling giddy.

2753. आपको मैं कैसे समझाऊँ?

How do I make you understand?

2754. शिक्षा व्यवसाय नहीं बल्कि आप तक पहुंचने का एक प्रयास है ।

Education is not a business but an endeavor to reach you.

2755. अच्छा होगा कि इसी समय आप अपना होमवर्क कर लो, वरना...

Better you complete your homework right away or else...

2756. अच्छा होगा कि आप इसी समय टी.वी. बंद कर दो।

Better you switch off the TV right away.

2757. उस आदमी ने जो किया था उसे उसके लिये सजा मिली।

The man got punished for what he had done.

2758. तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से उम्र में बड़े हैं।

Your father is older than my father.

2759. मैं जानता हूँ की ये समस्या किस तरह हल की जा सकती है।

I know how this problem can be solved.

2760. जब वह खाना खा रहा होता है, वह टी.वी.देखता है।

He watches TV while having the food.

2761. जहाँ तक मेरी ज़िन्दगी का सवाल है, मैंने इसे मानव कल्याण पर लगा दिया है।

As far as my life is concerned, I have devoted it to human welfare.

2762. मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता।

I don't want to even see your face.

2763. क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं?

Can you please spare some time for me?

2764. ऐसा गलती से हुआ।

It happened by mistake.

2765. ऐसा तुक्के से हुआ।

It happened by chance.

2766. थोड़ा खिसकिए।

Kindly move a bit.

2767. क्या मैं बैठ सकता हूँ ?

May I sit?

2768. मेरी ओर से माँफी माँग लीजिए।

Convey my apologies.

2769. मैं पूरी कोशिश करूँगा।

I'll try my level best.

2770. अब मैं कुछ बोलूँ।

May I say something now?

2770. उम्मीद है आप मजे में हो।

Hope, you are enjoying yourself.

2771. कृपा करके धीरे बोलिए।

Please speak slowly.

2772. तुम क्या चाहते हो ?

What do you want?

2773. तुम क्या सोच रहे हो ?

What are you thinking?

2774. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो ?

Do you want to say something?

2775. इससे क्या फर्क पड़ता है?

What difference does it make?

2776. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

It doesn't make any difference.

2777. राम थोड़ा लेट हो गया।

Ram got a little late.

2778. सुनकर बहुत दुख हुआ।

Sorry to hear that.

2779. बच्चों का आधा टिकट लगता है।

Children travel half-fare.

2780. उसे ताला तोड़ना पड़ेगा।

He will have to break the lock.

2781. मुझे इसकी याद दिला देना।

Please remind me of it.

2782. मैं आज थोड़ा देर से जगा।

I woke up a little late today.

I got up a little late today.

2783. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई !

How dare you!

2784. तुम खामखा परेशान हो रहे हो।

You are stressed for no reason.

2785. आज खाने में नया क्या है ?

What are the new dishes today?

2786. अपने से बड़ों का कहना मानो।

Obey your elders.

2787. किसान ये बीज नहीं बोयेंगे।

The farmers will not sow these seeds.

2788. मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता ।

I never borrow money.

2789. हम ख़राब माल कभी नहीं बेचते ।

We never sell defective products.

2790. क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते?

Do you never tell a lie?

2791. हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं ।

We always reach on time.

2792. उसने मोमबत्ती बुझाई ।

He blew out the candle.

2793. मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी ।

My grandmother was telling stories.

2794. क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी?

Did you complain about him?

2795. मीटिंग पांच घंटे चली ।

The meeting continued for five hours.

2796. वो अपने आँसू नहीं रोक सकी/पायी।

She couldn't hold weeping. /

She couldn't control her tears.

2797. वो अपनी हँसी नहीं रोक सकी/पायी।

She couldn't hold laughing. /

She couldn't control her laugh.

2798. वह क्या करेगा पक्का नहीं है।

What he will do is not decided.

2799. यह आपकी दुआओं के कारण हुआ।

It's because of your good wishes.

2800. आपका हमारी बातों से क्या लेना देना ?

How are you concerned with our affairs?

MODULE - 29

2801. तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो।

You are very short-tempered.

2802. बात करके अपना समय बर्बाद मत करो।

Don't waste your time by talking.

2803. आपको नौकरी से हटाया जाता है।

You are dismissed from the job.

2804. अपने काम से मतलब रखो।

Mind your own business.

2805. कुछ भी हो सकता था।

Anything could have happened.

2806. क्या तुम कार चलाना जानते हो?

Do you know how to drive the car?

2807. ऐसी चीजें मैं भी नहीं खाता।

I don't eat such things either.

2808. ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता।

I can't even think so.

2809. तुम मुझे रोक नहीं पाओगे।

You will not be able to stop me.

2810. उसका भी कोई नहीं था।

Nobody was his either.

2811. न खुद करते हो, न करने देते हो।

Neither you do yourself, nor let do.

2812. इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ।

That's what we had a dispute on.

2813. कोई तो दोषी है, तुम या मैं?

Someone is to blame; either you or I?

2814. इस तरह का आदमी घमंडी होता है।

Such a man is arrogant.

2815. वो अभी भी बुरे दौर से गुज़र रहा है।

He is still going through a bad phase.

2816. ऐसी कहानियां बहुत बोरिंग होती हैं।

Such stories are extremely boring.

2817. मैंने वहीं तो उस अजनबी को देखा था।

That's where I had seen that stranger.

2818. इसी तरह मैं बड़ा हुआ।

That's how I grew up.

2819. उसे भी फल पसन्द नहीं थे।

He didn't like fruits either.

2820. मेरी बात किसी ने नहीं सुनी।

Nobody listened to me.

2821. उसे क्या कहना है?

What is he to say?

2822. मुझे तुम याद करते थे।

You missed me.

2823. मुझे कुछ कहना है।

I have to say something.

2824. उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए।

He should not flatter.

2825. उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है।

The moment I saw him, I thought that I had already seen him somewhere.

2826. वो कतार में खड़ा था और अचानक कीचड़ में गिर गया।

He was standing in the queue and suddenly, he fell in the mud .

2827. जब तक मैं ये समझ पाता, वो आँखों से ओझल हो गया।

By the time I could figure out, he disappeared.

2828. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है?

What matters the most to learn English?

2829. जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं।

As you think, so you become.

2830. आप अपने आप से पूछिए। क्या आपने इंग्लिश को वाकई अपना 100% दिया है?

Ask yourself. Have you really given your 100% to English?

2831. जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं, तो आखिरकार सफल हो जाते हैं।

When you keep working hard without worrying about being failed, eventually you succeed.

2832. अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे।

If you work hard, you'll speak English for sure.

2833. वह अचानक से मशहूर बन गई।

She suddenly became famous.

2834. वह अपने कमरे में रो रही थी।

She was crying in her room.

2834. अपना अच्छे से खयाल रखना।

Take good care of yourself.

2835. यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है।

That's really a great idea.

2836. उसे जो डब्बा मिला वह खाली था।

The box he found was empty.

2837. दुल्हन अचानक से हँस पड़ी।

The bride suddenly laughed.

2838. उस आदमी ने मुझे सर पर मारा।

The man hit me on the head.

2839. इस दवाई का स्वाद बहुत कड़वा है।

The medicine tastes bitter.

2840. उसके जूतों पर कीचड़ लगी हुई थी।

The mud clung to his shoes.

2841. यह उपन्यास बहुत रोमांचक है।

The novel is very exciting.

2842. पेंट अभी तक सूखा नहीं है।

The paint hasn't dried yet.

2843. बरसात पूरे दिन होती रही।

The rain continued all day.

2844. यह पानी पिया नहीं जा सकता है।

The water is not drinkable.

2845. मेज़ पर बस्ता रखा हुआ है।

There is a bag on the desk.

2846. यह गाड़ी जापान में बनी थी।

This car was made in Japan.

2847. यह वर्षा ऋतु का मौसम है।

This is the monsoon season.

2848. यह शब्द ग्रीक से आता है।

This word comes from Greek.

2849. टॉम और मैं दोनों वहाँ रहेंगे।

Tom and I'll both be there.

2850. टॉम, मुझे तुमसे बात करनी है।

Tom, I want to talk to you.

2851. बत्ती बंद करदो, प्लीज़।

Turn off the light, please.

2852. हम सब उसके मज़ाक पर हँसे।

We all laughed at his joke.

2853. हमने उसका जन्मदिन मनाया।

We celebrated his birthday.

2854. हमें नहीं पता हम कहाँ हैं।

We don't know where we are.

2855. हमें अपना वादा निभाना चाहिए।

We should keep our promise.

2856. हमने उसका हिसाब लगा लिया।

We've got that figured out.

2857. मेरी बात ने उसके अभिमान पर चोट पहुँचाई।

What I said hurt his pride.

2858. इस पक्षी का नाम क्या है?

What do you call this bird?

2859. हमारे औडर का क्या हुआ?

What happened to our order?

2860. सारा ब्रॅड कहाँ चला गया?

Where did all the bread go?

2861. कपड़े बदलने का कमरा कहाँ पर है?

Where is the changing room?

2862. तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो?

Why don't you listen to me?

2863. बत्ती चालू कर दोगे क्या?

Will you turn on the light?

2864. आप गलत ट्रेन पर हैं।

You are on the wrong train.

2865. एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं।

A day has twenty-four hours.

2866. आप इसके हित में हैं या नहीं?

Are you for or against this?

2867. हम आखिरकार झील तक पहुँच गए।

At last, we got to the lake.

2868. अगली बार अपनी बहन को भी साथ लाना।

Bring your sister next time.

2869. क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो?

Can you teach me how to fly?

2870. कनाडा जापान से बड़ा है।

Canada is larger than Japan.

2871. थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्या?

Could you speak more slowly?

2872. तुम्हारे पास कोक-शोक है क्या?

Do you have any soft drinks?

2873. आपको कहीं जाना है?

Do you want to go somewhere?

2874. सब टॉम के लिए दुःखी थे।

Everyone felt sorry for Tom.

2875. सभी उसकी अच्छाई करते हैं।

Everyone speaks well of him.

2876. फ़्रान्स पश्चिमी यूरोप में है।

France is in Western Europe.

2877. उसने अचानक से दरवाज़ा बंद किया।

He closed the door suddenly.

2878. वह लम्बी सांस नहीं ले पाता था।

He could not breathe deeply.

2879. उसको तैरना नहीं आता।

He doesn't know how to swim.

2880. उसने मुझे वह नियम समझाया।

He explained the rule to me.

2881. वह अपनी क़ब्र खोद रहा है।

He is digging his own grave.

2882. वह हर रोज़ बेसबॉल खेलता है।

He plays baseball every day.

2883. उसे फ़्रानसीसी जर्मन से ज़्यादा अच्छी लगती है।

He prefers French to German.

2884. उसने यह किताब कल पढ़ी थी।

He read this book yesterday.

2885. उसने अपना नाम दोबारा धीरे से बोला।

He repeated his name slowly.

2886. वह मुझसे गुलाम की तरह बर्ताव करता है।

He treats me like his slave.

2887. वह मेरे बजाय वहां गया।

He went there instead of me.

2888. उसका जन्मदिन इक्कीस अगस्त को है।

His birthday is August 21st.

2889. आप यहाँ कितने दिन रहेंगे?

How long will you stay here?

2890. मैं उसके साथ सैर के लिए गया।

I accompanied her on a walk.

2891. मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा काम अच्छा लगता है।

I believe you like your job.

2892. मैं पिछले रविवार बाहर नहीं निकला था।

I didn't go out last Sunday.

2893. मुझे नहीं पता कि उसको पता है कि नहीं।

I don't know if he knows it.

2894. मुझे नहीं पता कि टॉम को क्या पता है।

I don't know what Tom knows.

2895. मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पता है।

I don't know what they know.

2896. मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए।

I explained the rule to him.

2897. मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए।

I gave him what money I had.

2898. मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था।

I had never seen him before.

2899. मैंने अपना कमरा अभी अभी साफ़ किया है।

I have just cleaned my room.

2899. मैंने उसे तीन बार देखा है।

I have seen her three times.

2900. मुझे उसकी चिट्ठी का जवाब देना है।

I have to answer his letter.

MODULE - 30

2901. मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला।

I met your father yesterday.

2902. मुझे सायकल चलाना चलने से ज़्यादा पसंद है।

I prefer walking to cycling.

2903. मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा।

I saw him crossing the road.

2904. मेरा जन्म सन 1977 में ओसाका में हुआ था।

I was born in Osaka in 1977.

2905. मैं कल उससे मिलने जाऊँगा।

I will call on him tomorrow.

2906. मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ।

I'm more beautiful than you.

2907. माफ़ कीजिएगा, मेरे पापा अभी घर पर नहीं हैं।

I'm sorry, my father is out.

2908. जहाँ भी घुसाना है घुसा दो।

Insert it wherever you like.

2909. लोहा एक बहुत उपयोगी धातु है।

Iron is a very useful metal.

2910. मेक्सिको में स्पैनिश बोली जाती है क्या?

Is Spanish spoken in Mexico?

2910. तकरीबन दस एक अरब येन होंगे?

Is it about ten million yen?

2911. अंग्रेज़ी बोलना मुश्किल होता है क्या?

Is it hard to speak English?

2912. यह सरासर समय की बर्बादी है।

It is a sheer waste of time.

2913. यह मेरे लिए करना बहुत आसान था।

It was easy for me to do so.

2914. वह मेरे लिए बहुत कठिन था।

It was too difficult for me.

2915. मानो कोई सपना सच आ गया हो।

It's like a dream come true.

2916. हमें अपने खर्चे कम करने होंगे।

Let's cut down our expenses.

2917. मेरी को स्पा जाना पसंद है।

Mary loves going to the spa.

2918. मेरी जीन्स पैंट धुलाई में सिकुड़ गई।

My jeans shrank in the wash.

2919. जवाब न देना भी एक तरह का जवाब होता है।

No answer is also an answer.

2920. उस बड़े डब्बे को कोई भी नहीं हिला सकता।

No one can move the big box.

2921. किसी ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।

Nobody answered my question.

2922. किसी और ने मदद करने की इच्छा प्रकट नहीं करी।

Nobody else offered to help.

2923. मुझे एक कप चाय दीजिए।

Please give me a cup of tea.

2924. कृपया धीमी आवाज़ में बात कीजिए।

Please speak in a low voice.

2925. देखो बाहर क्या हो रहा है।

See what's going on outside.

2926. उसने उसको अकेले जाने दिया।

She allowed him to go alone.

2927. उसने आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया।

She declined the invitation.

2928. उसने गलत नम्बर मिला डाला।

She dialed the wrong number.

2929. उसने कहा कि वह खुश थी।

She said that she was happy.

2930. उसने सौ डॉलर बचा लिए।

She saved a hundred dollars.

2931. उसका पर्स उससे चुरा लिया गया।

She was robbed of her purse.

2932. वह अपने बालों को जूड़े में बाँधती है।

She wears her hair in a bun.

2933. यहाँ धूम्रपान करना मना है।

Smoking is not allowed here.

2934. सिपाहियों को खतरे से खेलने की आदत होती है।

Soldiers are used to danger.

2935. किसी ने दरवाज़े पर खटखटाया।

Someone knocked on the door.

2936. मेक्सिको में स्पैनिश बोली जाती है।

Spanish is spoken in Mexico.

2937. अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं है।

Speaking English isn't easy.

2938. शांति से खड़े रहो।

Stand still and keep silent.

2939. अपने मोज़े उतारिए।

Take off your socks, please.

2940. दस घर जलकर राख हो गए।

Ten houses were burned down.

2941. उस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

Thank you for the other day.

2942. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

Thank you very much, doctor.

2943. वह नगर दो मील दूर है।

That town is two miles away.

2944. जापानियों की आँखें कालीं होतीं हैं।

The Japanese have dark eyes.

2945. गरम पानी नहीं चल रहा है।

The hot water isn't running.

2946. कमरे में तम्बाकू की महक थी।

The room smelled of tobacco.

2947. दुकान आज बंद है।

The store is not open today.

2948. मेज़ पर किताब है।

There is a book on the desk.

2949. वे दोनों अच्छे अध्यापक हैं।

They are both good teachers.

2950. इस मकान में ग्यारह कमरे हैं।

This house has eleven rooms.

2951. यह असली हीरा होगा।

This must be a real diamond.

2952. आज मैं चार साल का हो गया हूँ।

Today I turn four years old.

2953. टॉम अभी गाड़ी नहीं चला सकता।

Tom isn't able to drive yet.

2954. टॉम ने उसे आग से बचा लिया।

Tom saved her from the fire.

2955. हम चाय चीनी के साथ लेते हैं।

We drink our tea with sugar.

2956. हमने बड़ी मौज करी।

We really enjoyed ourselves.

2957. हम पड़ोसी हुआ करते थे।

We were next-door neighbors.

2958. तुम यहाँ क्यों आए हो?

What have you come here for?

2959. दक्षिण टर्मिनल कहाँ पर है?

Where is the south terminal?

2960. आप कहाँ बैठना चाहेंगे?

Where would you like to sit?

2961. तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते?

Why don't you come visit us?

2962. तुम विदेश जाना चाहती हो क्या?

Would you like to go abroad?

2963. तुम नहीं आ रहे हो ना?

You are not coming, are you?

2964. तुम उस ड्रेस में अच्छी लगती हो।

You look nice in that dress.

2965. अपने दफ़्तर को हमेशा साफ़-सुथरा रखना चाहिए।

Always keep your office tidy.

2964. वे जापानी हैं या चीनी?

Are they Japanese or Chinese?

2965. तुम यहाँ किसी से मिल रहे हो क्या?

Are you meeting someone here?

2966. खाना खाने के बाद दाँतों को साफ़ करो।

Brush your teeth after meals.

2967. रेखांकित शब्दों को सुधारिए।

Correct the underlined words.

2968. तुम्हारे पास टिकटें बचीं हैं क्या?

Do you have any tickets left?

2969. तुम्हे भाषण देना होगा क्या?

Do you have to make a speech?

2970. कया आपको पता है उसने क्या किया है?

Do you know what he has done?

2971. इस दीवार पर मत झुँको।

Don't lean against this wall.

2972. अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है।

English is spoken in America.

2973. फुटबॉल मेरा सबसे पसंदीता खेल है।

Football is my favorite game.

2974. तुम कभी अफ्रीका गए हुए हो क्या?

Have you ever been to Africa?

2975. तुम कभी कनाडा गए हो क्या?

Have you ever been to Canada?

2976. आपने कभी किताब लिखी है क्या?

Have you ever written a book?

2977. तुम्हारे गुलाब खिल गए हैं क्या?

Have your roses come out yet?

2978. वह कल तुमसे मिलने आया था।

He came to see you yesterday.

2979. उसने पिछले साल स्कूल बदला था।

He changed schools last year.

2980. उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है।

He doesn't have long to live.

2981. वह कैनटीन में लन्च खाता है।

He eats lunch at a cafeteria.

2982. वह टेनिस अच्छा खेलता है।

He is good at playing tennis.

2983. उसने अपने बेटे को कान से पकड़ कर खींचा।

He pulled his son by the ear.

2984. उसने अपने ही घर को आग लगा दी।

He set fire to his own house.

2985. उसे ये कमीज़ें धुलवानीं हैं।

He wants these shirts washed.

2986. उसकी डॉक्टर बनने की अभिलाषा है।

He wishes to become a doctor.

2987. वे काम से शहर से बाहर गए हुए हैं।

He's out of town on business.

2988. उसके कपड़े हमेशा बदबू करते हैं।

His clothes always smell bad.

2989. उसका लम्बा भाषण सुनकर हम सब बोर हो गए।

His long speech bored us all.

2990. तुम उसे कैसे जानते थे?

How did you come to know her?

2991. मेरे खयाल से तुम्हे सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए।

I advise you to stop smoking.

2992. मैं तुम्हारे साथ एक हद तक सहमत हूँ।

I agree with you to a degree.

2993. मैं नतीजे से खुश हूँ।

I am pleased with the result.

2994. मैंने दूध की दो बोतलें खरीदीं।

I bought two bottles of milk.

2995. मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता।

I can't allow you to do that.

2996. मैं उस बारे में कुछ बोल नहीं सकता।

I can't really talk about it.

2997. मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो।

I didn't want this to happen.

2998. मुझे अभी खाना खाने का मन नहीं है।

I don't feel like eating now.

2999. मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं।

I don't like to drink coffee.

3000. मैंने हिरण के पैरों के निशानों का पीछा किया।

I followed the deer's tracks.

3301. मैंने एक साल के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया था।

I gave up smoking for a year.

3002. मुझे पीठ में बुरी तरह से दर्द हो रहा है।

I have a bad pain in my back.

3003. मैंने उसको अपनी कामयाबी के बारे में बताया।

I informed her of my success.

3004. मुझे विज्ञान और गणित दोनों पसंद हैं।

I like both science and math.

3005. मैंने उसके साथ तुम्हारा नाम लिया था।

I mentioned your name to him.

3006. सब लोग मुझपर हँसे।

I was laughed at by everyone.

3007. मैं वहाँ दसियों बार जा चुका हूँ।

I went there dozens of times.

3008. मैंने पूरे दिन खेत में काम किया।

I worked on the farm all day.

3009. मैं ग्यारह बजे की ट्रेन पकड़ रहा हूँ।

I'm catching the 11:00 train.

3010. वह ईमानदार लगता है।

It appears that he is honest.

3011. छोटी उम्र में मरना उसके भाग्य में था।

It was her fate to die young.

3012. उससे बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है।

It's no use arguing with him.

3013. नीचे रहो, नहीं तो तुम्हें गोली लग जाएगी।

Keep down, or you'll be shot.

3014. ज़्यादातर लोगों को टीवी देखना अच्छा लगता है।

Most people like watching TV.

3015. मेरे भाई की याददाश्त अच्छी है।

My brother has a good memory.

3016. मेरे पापा अभी अभी घर वापस आएँ हैं।

My father has just come home.

3017. मेरी नानी धीरे-धीरे बोलतीं हैं।

My grandmother speaks slowly.

3018. सिक्कों को इकट्ठा करना मेरा शौक है।

My hobby is collecting coins.

3019. मेरा फ़ोन खराब है।

My telephone is out of order.

3020. अब उनके तीन बच्चे हैं।

Now they have three children.

3021. एक भाषा कभी काफ़ी नहीं होती।

One language is never enough.

3022. इसको अपना घर ही समझो।

Please make yourself at home.

3023. मुझे अपनी कौपी दिखाईए।

Please show me your notebook.

3024. कृपया पाँच मिनट इंतज़ार करें।

Please wait for five minutes.

3025. बोलो तुम्हे कौनसा चाहिए।

Say which one you would like.

3026. उनकी मौत कल दोपहर को हुई थी।

She died yesterday afternoon.

3027. वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी।

She will be back before long.

3028. घूमफिरकर बात मत करो, सीधे-सीधे बोलो।

Stop beating around the bush.

3029. चाय भारत में बहुत उगाई जाती है।

Tea is widely grown in India.

3030. इसका तुमसे कोई लेना-देना नहीं है।

That is no business of yours.

3031. इसलिए क्योंकि तुम लड़की हो।

That's because you're a girl.

3032. वह सेव सड़ने लगा है।

The apple has begun to decay.

3033. इटली की राजधानी रोम है।

The capital of Italy is Rome.

3034. गाड़ी फ़ोन के खम्बे से जाकर भिड़ पड़ी।

The car hit a telephone pole.

3035. चट्टान लगभग बिलकुल सीधी है।

The cliff is almost vertical.

3036. उस लड़की ने रोने के अलावा और कुछ नहीं किया।

The girl did nothing but cry.

3037. घोड़ा बड़े काम का जानवर है।

The horse is a useful animal.

3038. राजा ने अपने दुश्मनों को कुचल दिया।

The king crushed his enemies.

3039. बंदर पेड़ पर चढ़ा।

The monkey climbed up a tree.

3040. आबादी बढ़ रही है।

The population is increasing.

3041. जहाज़ बम्बई के लिए रवाना हुआ।

The ship set sail for Bombay.

3042. इस कमरे में मेज़ है।

The train ran off the tracks.

3043. इस कमरे में मेज़ है।

There is a desk in this room.

3044. उन्होंने अपने देश को त्याग दिया।

They abandoned their country.

3045. वे संगीत के बारे में बात कर रहे हैं।

They are talking about music.

3046. उन्होंने ज़्यादा मेहनत से काम करने का इरादा किया।

They resolved to work harder.

3047. यह रोडिका की पाँचवी किताब थी।

This was Rodica's fifth book.

3048. खाना खाने से पहले अपने हाथ धोओ।

Wash your hands before meals.

3049. हमे पड़ोसियों के साथ प्रेमपूर्वक रहना चाहिए।

We should love our neighbors.

3050. तुम यूरोप कब जा रहे हो?

When are you going to Europe?

3051. हादसा कब हुआ?

When did the accident happen?

3052. हमारे साथ (रात का) खाना खाएँगे ना?

Won't you join us for dinner?

3053. तुम्हें डॉक्टर बुलाना होगा।

You must send for the doctor.

3054. तुम्हे कल आना चाहिए था।

You should've come yesterday.

3055. तुम्हें फ़िल्म देखनी चाहिए थी।

You should've seen the movie.

3056. तुम्हें फूलों में दिलचस्पी है क्या?

Are you interested in flowers?

3057. क्या तुम मुझे चोरी करना सिखा सकते हो?

Can you teach me how to steal?

3058. मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या?

Could I please use your phone?

3059. क्या तुम अपने मम्मी-पापा के साथ रहते हो?

Do you live with your parents?

3060. अपना वादा मत तोड़ो।

Don't go back on your promise.

3061. माफ़ कीजिएगा, यहाँ कोई बैठा हुआ है क्या?

Excuse me, is this seat taken?

\3062. इस द्वीप पर बहुत कम लोग रहते हैं।

Few people live on the island.

3063. आधे सेव सड़ चुके हैं।

Half of the apples are rotten.

3064. उसने मुझसे वह बात छिपाई।

He concealed the fact from me.

3065. उसने वैसा करा जैसे उसे बताया गया था।

He did it as he had been told.

3066. उसे मेहनत करने की आदत है।

He is accustomed to hard work.

3067. उसने लड़के की आँखों में देखा।

He looked into the boy's eyes.

3068. उसने बहुत सी महंगी चीज़ें खरीदीं।

He made many costly purchases.

3069. उसने मक्खन को ब्रेड पर लगाया।

He spread butter on the bread.

3070. उसने मेरे जवान होने का फ़ायदा उठाया।

He took advantage of my youth.

3071. वह समुंद्र की ओर चल रहा था।

He was walking toward the sea.

3072. वह सोमवार को न्यूयॉर्क चला गया।

He went to New York on Monday.

3073. वह तीन घंटों में वापस आएगा।

He will return within 3 hours.

3074. फ़िल्म देखने चलें क्या?

How about going to the movies?

3075. आप विदेश में कबसे हैं?

How long have you been abroad?

3076. कल का मौसम कैसा था?

How was the weather yesterday?

3077. मैं सफ़र पर उसके साथ गया।

I accompanied him on the trip.

3078. माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको परेशान किया तो।

I am sorry if I disturbed you.

3079. मुझे उसको देखा नहीं जाता।

I can't bear the sight of him.

3080. मुझसे यह ठंड सही नहीं जाएगी।

I can't put up with this cold.

3081. मैं रविवार को काम पर नहीं जाता।

I don't go to work on Sundays.

3082. मुझे नहीं पता कि वह आएगी कि नहीं।

I don't know if she will come.

3083. मेरे विचार से यह युक्तियुक्त नहीं है।

I don't think it's reasonable.

3085. मैं ज्यादा बास्केटबॉल नहीं देखता।

I don't watch much basketball.

3086. मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।

I felt that I should help her.

3087. मुझे नहीं पता वह कैसे निकल भागा

I have no idea how he escaped.

3088. मुझे बच्चे को सुलाना है।

I have to put the baby to bed.

3089. काश कल बारिश हो जाए।

I hope that it rains tomorrow.

3090. मैं हर दूसरे दिन नहाता हूँ।

I take a bath every other day.

3091. मैं ट्राफ़िक जाम में फँस गया था।

I was caught in a traffic jam.

3092. कपड़े सुखा दो।

Put the clothes to dry.

3093. आलू छील दो।

Peel off the potatoes

3094. सन्तरा छील दो।

Peel off the Orange.

3095. बिस्तर लगा दो।

Make the bed. / Prepare the bed.

3096. ढक्कन खोल दो।

Open the lid/cap/cover.

3097. नल खोल दो।

Turn on the tap.

3098. नल बन्द कर दो।

Turn off the tap.

3099. चादर बिछा दो।

Spread the bed sheet.

3100. बिस्तर पर चादर बिछा दो।

Spread the sheet on the bed.

3101. दीवार पर सहारा मत लो।

Do not lean against the wall.

3102. मुझ पर सहारा मत लो।

Do not lean against me.

3103. मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो।

Do not lean your head on my shoulder.

3104. दिमाग से काम लो।

Use your brain.

3105. धीमे बोलो।

Speak softly / Speak quietly

3106. धीरे बोलो।

Speak slowly.

3107. तेज़ बोलो।

Speak quickly.

3108. ऊँचा बोलो।

Speak aloud.

3109. खाना लगा दो।

Serve the food.

3110. दबे पाँव चलो।

Walk on the tiptoe.

3111. वो दबे पाँव कमरे में घुसा।

He tiptoed into the room.

3112. मुझ पर एहसान मत करो।

Don't favour me.

3113. बहाने मत बनाओ।

Don't make excuses.

3114. समय की नजाकत को समझो।

Understand the delicacy of time

3115. अपने बाल बना लो।

Comb your hair.

3116. समझने की कोशिश करो।

Try to understand.

3117. मुझे गुस्सा मत दिलाओ।

Don't make me angry.

3118. उसे समय लेने दो।

Let him take time.

3119. आँख मत मारो।

Do not wink.

3120. इशारा मत करो।

Do not gesture.

3121. बक बक मत करो।

Don't prattle. / Stop your gab.

3122. बकवास मत करो।

Don't talk nonsense.

3123. ज़िद मत करो।

Don't be stubborn.

3124. मुझसे पंगे मत लो।

Do not mess with me.

3125. धूप सेंक लो।

Bask in the sun.

3126. रोटियाँ बेल लो।

Roll the chapatis.

3127. रौटी कैसे बनायेँ?

How to roll the chapati?

3128. आटा गूँथ लो।

Knead the flour.

3129. रौटियाँ सेंक लो।

Bake the chapatis.

3130. जूते पहन लो।

Put on the shoes.

3132. जूते उतार लो।

Take off the shoes.

3133. शर्ट पहन लो।

Wear the shirt.

3134. शर्ट उतार लो।

Take off the shirt.

3135. दिल पे मत लो।

Don't take it to heart.

3136. उसे विदा कर दो।

See him off

3137. उसे गाली मत दो।

Don't abuse him.

3138. अंधेरा हो रहा है।

It's getting dark. /

It's becoming dark. (It's = It is)

3139. अंधेरा हो गया है।

It's got dark. /

It's become dark. (It's = It has)

3140. मुझे नहाने दो।

Let me take a bath.

3141. जाकर सो जाओ।

Go and sleep.

3142. मुझे ठंड लग रही है।

I'm feeling cold.

3143. बारिश हो रही है।

It's raining.

3144. फोन आ रहा है।

The phone is ringing.

3145. मशीन चालू करो।

Switch on the machine.

3146. मशीन चलाओ।

Operate the machine.

3147. एसी बन्द करो।

Switch off the AC.

3148. एसी ऑन करो।

Switch on the AC.

3149. सुबह हो गयी।

It's Morning.

3150. मेरे साथ चलो।

Come with me.

3151. उसे मत देखो।

Don't look at him.

3152. उसे मत घूरो।

Don't stare at him.

3153. नौकरी कर लो।

Start a job.

3154. नौकरी ढूँढ लो।

Find a job.

3155. ड्राइविंग सीख लो।

Learn driving.

3156. तुम सीख जाओगे।

You will learn.

3157. तुम में कला है।

You have the art.

3158. इंडिया जीतेगी।

India will win. /

India is gonna win. (Gonna = going to)

3159. तुम अंग्रेज़ी सीखोगे।

You will learn English.

3160. तुम डरपोक हो।

You are coward.

3161. नंगे पैर मत चलो।

Don't walk barefoot.

3162. चालाक मत बनो।

Don't be smart.

3163. दोबारा कब मिलेंगे?

When will we meet again?

3164. बहुत मज़ा आया!

Enjoyed a lot!

3165. हमने वाकई में ज़िन्दगी जी।

We really lived life.

3166. मैं दिल्ली से आ रहा हूँ।

I am coming from Delhi.

3167. मैं देहरादून से आ रहा हूँ।

I am coming from Dehradun.

3168. वे पार्क से आये।

They came from park.

3169. मैं कल से काम करूँगा।

I will work from tomorrow.

3170. राम दस बजे से काम करेगा।

Ram will work from 10 'o'clock.

3171. मैंने राम से ये सुना।

I heard it from Ram.

3172. मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ।

I go to gym by 7 pm.

3173. शांत रहिये।

Be quiet.

3174. तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं ?

What is your father?

3175. राम आज कल क्या कर रहा है ?

What is Ram doing these days?

3176. समझदार को इशारा ही काफी होता है ।

A word to wise is enough.

3177. मैं एक इंजीनियर हूँ।

I am an engineer.

3172. वह एक लड़का है।

That is a boy.

3173. क्या तुमने कोशिश की ?

Did you try?

3174. तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है ?

What have you planned for your career?

3175. इसमें खास बात क्या है ?

What's so special in it? /

What's so remarkable in it?

3176. आपकी कृपा होगी ।

It's kind of you.

3177. यह टेबल पुरानी है।

This table is old.

3178. गोपाल मेरा मित्र है।

Gopal is my friend.

3179. डाँस किसने किया ?

Who danced?

3180. देहरादून कौन जाएगा ?

Who will go to Dehradun?

3181. चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात ।

It's a nine days wonder.

3182. आप तो बिल्कुल भोले हो।

You are so innocent.

3183. आपको किससे मिलना है ?

Who do you want to meet?

3184. मुझसे कौन मिलना चाहता है ?

Who wants to meet me?

3185. वह बड़ा पत्थर दिल है ।

He is a hard-hearted person.

3186. मामला बिगड़ गया है ।

The matter has become serious.

3187. मैं सुबह से काम कर रहा हूँ ।

I have been working since morning.

3188. तो क्या हुआ

So what.

3189. कोई बात नहीं ।

Never mind. / No problem.

3190. यह तुम्हारा भ्रम है ।

It is your illusion.

3191. यह केवल तुम्हारा भ्रम है ।

It is just your illusion.

3193. इसमें शर्मने वाली क्या बात है?

What's there to shy?

3194. ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ?

How dare you say that? / How dare you say like that?

3195. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता।

If i had my way, i would kill him.

3196. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता।

If i had my way, i would beat him badly.

3197. जाहिर सी बात है ।

It's obvious.

3198. इसीलिए तो मैं यह बोल रहा हूँ ।

That's why i am speaking this.

3199. इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ।

That's why i am learning english.

3200. वह कोई ऐरा गैरा नहीं है ।

He is not dick and herry.

3201. मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ ।

I am not dick and herry.

3202. आज के बाद से ऐसा नहीं होगा ।

As of now, it will not happen.

3203. कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे ।

At least you could tell me.

3204. ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगे ।

At the most it will take 5 minutes.

3205. ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे ।

At the most it will take only 10 minutes.

3206. क्या कोई खास बात है?

Is there anything special?

3207. कोई खास बात नहीं है ।

There is nothing special.

3208. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो ।

Don't take out your anger on me.

3209. मै बीच मे नही फसना चाहता

I don't want to be stuck in the middle.

3210. मै नहीं चाहता कि तुम बीच मे फसो ।

I don't want you to be stuck in the middle.

3211. यह सच है ।

it is true.

3212. यह झूठ है ।

it is a lie.

3213. यह सही है ।

it/this is right.

3214. यह गलत है ।

it/this is wrong.

3215. समझ गये ।

Got it/understood

3216. कौन है?

Who is it?

3217. मै कौन हूँ?

Who am i?

3218. कौन है वो ?

Who is that ?

3219. यह कौन है ?

Who is this ?

3220. वहाँ कौन है ?

Who is there ?

3221. मुझे पता है ।

i know.

3222. मै जानता हूँ ।

i know.

3223. मै नहीं जानता हूँ ।

i don't know.

3224. क्या तुम जानते हो?

Do you know?

3225. मुझे सब पता है ।

i know everything.

3226. वो क्या है?

What is that?

3227. मैं नहीं मानता ।

i don't believe.

3228. क्या हुआ?

What happened?

3229. क्या हो रहा है?

What's happening

3230. समझ गये?

Got it/understood?

Did you understand?

3231. मै कोशिश करूँगा ।

I will try.

3232. मै कोशिश कर रहा हूँ ।

I am trying.

3233. क्या तुमने कोशिश की?

Did you try?

3234. वह नहा रहा है ।

He is taking a bath.

3235. मै बाजार जा रहा हूँ ।

I am going to market.

THE END